



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 96]

No. 96]

नई दिल्ली, शनिवार, मार्च 1, 2008/फाल्गुन 11, 1929

NEW DELHI, SATURDAY, MARCH 1, 2008/PHALGUNA 11, 1929

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 मार्च, 2008

सं. 20/2008-सीमाशुल्क

सा.का.नि. 119(अ).—केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना लोकहित में आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं० 20/2006 - सीमाशुल्क, तारीख 1 मार्च, 2006 में, भारत के राजपत्र, असाधारण में जो उसी तारीख को सा.का.नि. सं० 92(अ), द्वारा प्रकाशित की गई थी, निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में, —

- (i) सारणी में, क्रम सं० 11 और 12 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;
- (ii) पैरा 2 में, “क्रम सं० 17 और 28” शब्दों और अंकों के स्थान पर, “क्रम सं० 17, 28 और 28क” शब्द और अंक और अक्षर रखे जाएंगे ।

[फा. सं. 334/1/2008-टीआरयू]

एस. बजाज, अवर सचिव

टिप्पण : मूल अधिसूचना 20/2006 - सीमाशुल्क, तारीख 1 मार्च, 2006 भारत के राजपत्र, असाधारण, में सा.का.नि. सं० 92 (अ), 1 मार्च, 2006 द्वारा प्रकाशित की गई थी और उसमें अंतिम संशोधन अधिसूचना सं० 7/2008- सीमाशुल्क, तारीख 10 जनवरी, 2008 द्वारा किया गया था जो सा.का.नि. सं० 24(अ), तारीख 10 जनवरी, 2008 द्वारा प्रकाशित की गई थी।

MINISTRY OF FINANCE**(Department of Revenue)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 1st March, 2008

No. 20/2008-CUSTOMS

G.S.R. 119(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 20/2006-Customs, dated the 1st March, 2006 which was published in the Gazette of India, Extraordinary, vide number G.S.R. 92(E) of the same date, namely:-

In the said notification,

- (i) in the Table, S. Nos. 11 and 12 and the entries relating thereto shall be omitted;
- (ii) in paragraph 2, for the letter, words and figures “S. Nos. 17 and 28”, the letter, words and figures “S. Nos. 17, 28 and 28A” shall be substituted.

[F. No. 334/1/2008-TRU]

S. BAJAJ, Under Secy.

Note :—The principal notification No.20/2006-Customs, dated the 1st March, 2006 was published in the Gazette of India, Extraordinary, vide number G.S.R. 92(E), dated the 1st March, 2006 and was last amended vide notification No.7/2008-Customs, dated the 10th January, 2008 which was published vide number G.S.R. 24(E), dated the 10th January, 2008.

अधिसूचना	नई दिल्ली, तारीख 1 मार्च, 2008,
सं० 21/2008-सीमाशुल्क	11 फाल्गुन, 1929(शक)

सा.का.नि. 120(अ).—केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना लोकहित में आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 21/2002-सीमाशुल्क तारीख 1 मार्च, 2002 में, जो भारत के राजपत्र, असाधारण में उसी तारीख को सा.का.नि. सं० 118(अ) द्वारा प्रकाशित की गई थी, निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में,—

(I) सारणी में,—

- (i) क्रम सं० 60 के सामने, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर “2%” प्रविष्टि रखी जाएगी ;
- (ii) क्रम सं० 95 के सामने, स्तंभ (3) में, मद (ix) के पश्चात् निम्नलिखित मदें अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

“(x) एंटीबॉडी या एंटीजन्स या प्रोटीन ए के एंजाइम कंजुगेट्स ;

- (xi) मानव और प्राणी रोगों से संबंधित प्राकृतिक या संश्लिष्ट या पुनःसमायोजक एंटीजन्स;
- (xii) मानव और प्राणी रोगों से संबंधित एंटीबॉडिस (मोनोक्लोनल या पोलिक्लोनल);
- (xiii) एंजाइम कंजुगेट के लिए स्टेबिलाइजर्स";
- (iii) क्रम सं० 200 के सामने, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर "कुछ नहीं" प्रविष्टि रखी जाएगी ;
- (iv) क्रम सं० 226 के सामने, स्तंभ (5) में की प्रविष्टि के स्थान पर "14%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;
- (v) क्रम सं० 228 के सामने, स्तंभ (5) में की प्रविष्टि के स्थान पर "14%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;
- (vi) क्रम सं० 236 के सामने, स्तंभ (5) में की प्रविष्टि के स्थान पर "14%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;
- (vii) क्रम सं० 237 के सामने, स्तंभ (5) में की प्रविष्टि के स्थान पर "14%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;
- (viii) क्रम सं० 316ख के सामने, स्तंभ (3) में, मद (iii) के पश्चात् निम्नलिखित मदें अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—
 "(iv) एसएमपीएस पावर बोर्ड
 (v) आईआर माड्यूल";
- (ix) क्रम सं० 344क के सामने, स्तंभ (5) में की प्रविष्टि के स्थान पर "14%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;
- (x) क्रम सं० 346 के सामने, स्तंभ (3) में की प्रविष्टि के स्थान पर "वायुयानों के ग्लाइडरों या सिमुलेटरों या हेलीकोपटरों के सिमुलेटरों" प्रविष्टि रखी जाएगी ;
- (xi) क्रम सं० 347क के सामने, स्तंभ (6) में की प्रविष्टि के स्थान पर "103क" प्रविष्टि रखी जाएगी ;
- (xii) क्रम सं० 349 के सामने, स्तंभ (3) में, मद (ii) के पश्चात् निम्नलिखित मद अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—
 "(iii) ऊपर (i) के परीक्षण के लिए लाया गया जमीनी उपस्कर";
- (xiii) क्रम सं० 399 के सामने,—
 (i) स्तंभ (4) में, स्तंभ (3) की मद (vi) के सामने आने वाली प्रविष्टि के स्थान पर "5%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;
 (ii) स्तंभ (5) में, स्तंभ (3) की मद (i), (ii), (iv) और (vi) के सामने आने वाली प्रविष्टियों के स्थान पर क्रमशः "14%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;
- (xiv) क्रम सं० 404 के सामने, स्तंभ (5) में की प्रविष्टि के स्थान पर "14%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xv) क्रम सं० 433 के सामने, स्तंभ (5) में, स्तंभ (3) की मद (1) के सामने आने वाली प्रविष्टि के स्थान पर “14%” प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xvi) क्रम सं० 441 के सामने स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर क्रमशः “5%” प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xvii) क्रम सं. 464 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;

(xviii) क्रम सं. 500 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;

(xix) क्रम सं० 539 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :-

क्रम सं.	अध्याय या शीर्ष या उपशीर्ष या टैरिफ मद	माल का वर्णन	मानक दर	अतिरिक्त शुल्क की दर	शर्त सं.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
“539	85	रेडियो या वीडियो ग्रहण सुविधा सहित या उसके बिना एमपी 3 या एमपी 4 या एमपीइजी 4 प्लेयर	5%	-	—”;

(xx) क्रम सं० 547 के सामने, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर “5%” प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xxi) क्रम सं० 570 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
“571.	0303 79	ट्यूना बेट	कुछ नहीं	-	-
572.	2309 90	पोषक अनुयोज्य या पूर्व मिश्रित	20%	-	-
573.	2716 00 00	सभी माल	कुछ नहीं	-	-
574.	2809 20 10	सभी माल	5%	-	-
575.	4002 39 00	क्लोरोब्युटाइल रबड़ या ब्रोमोब्युटाइल रबड़	5%	-	-
576.	5902 20	पोलिएस्टर टायर कोर्ड फैब्रिक	5%	-	-
577.	7104	रफ क्यूबिक जिकॉनिया	कुछ नहीं	-	-
578.	7104	पालिश किया हुआ क्यूबिक जिकॉनिया	5%	-	-
579.	7602	ऐलुमिनियम स्क्रेप	कुछ नहीं	-	-

580.	84	निम्नलिखित माल अर्थात् :— (i) क्रिकेट बैट और हॉकी स्टिक स्प्लाइस जोड़ने की मशीन (ii) रग्बाई बॉल या सौकर बॉल सिलाई मशीन (iii) सौकर बॉल, बास्केट बॉल या वॉलिबाल के लिए सांचे	5%	-	-
581.	84	बैक्टोफ्युजिस	कुछ नहीं	-	-
582.	93	0.177 कैलिबर की एयर राइफल्स या एयर पिस्टल्स	कुछ नहीं	कुछ नहीं	-
583.	कोई	निम्नलिखित माल, अर्थात् :— (i) नाइलोन गट (ii) हॉकी स्टिक के लिए पीयू या नायलॉन ग्रिप शीट्स (iii) इन्फेलेटेबल गेंदों के लिए ब्यूटाइल ब्लेडर्स (iv) विलो क्लैफ्ट्स, ऐशवुड या बीचवुड (v) कार्क की पैंदी	कुछ नहीं	-	106”;

(II) उपाबंध में,—

(i) शर्त सं. 69 के स्थान पर निम्नलिखित शर्त रखी जाएगी, अर्थात् :—

क्रम सं.	शर्तें
(1)	(2)
“69	<p>यदि आयातकर्ता आयात करते समय,—</p> <p>(i) भारत सरकार के अंतर्निष्ठ विभाग में उपसचिव से अन्यून पंक्ति के किसी अधिकारी से यह प्रमाणित करते हुए एक प्रमाण पत्र, यथास्थिति, सीमाशुल्क या सीमाशुल्क सहायक आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत करता है कि उक्त उपग्रह और बाहरी अंतर्निष्ठ में लांच करने के लिए पे लोड, आउटर स्पेस ट्रीटी, 1967 के उपबंधों के अनुरूप है ;</p> <p>(ii) भारत सरकार के अंतर्निष्ठ विभाग में उपसचिव से अन्यून पंक्ति के किसी अधिकारी से यह प्रमाणित करते हुए एक प्रमाण पत्र, यथास्थिति, सीमाशुल्क या सीमाशुल्क सहायक आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत करता है कि सारणी के क्रम सं. 349 के स्तंभ (3) की मद (ii) के अंतर्गत आने वाला माल यानों और उक्त ग्रहों को लांच करने के लिए और पे लोड के लिए अपेक्षित है ; और</p>

	(iii) इस आशय का एक वचनबंध देता है कि उपग्रहों या पेलोड का परीक्षण करने के लिए आयातित सारणी के क्रम सं. 349 के स्तंभ (3) की मद (iii) के अंतर्गत आने वाले जमीनी उपस्कर का, उनके आयात की तारीख से छह मास की अवधि के भीतर या इस प्रकार बढ़ाई गई अवधि के भीतर जिसे, यथास्थिति, सीमाशुल्क उपायुक्त या सीमाशुल्क सहायक आयुक्त अनुज्ञात करे, पुनःनिर्यात किया जाएगा और उसका अनुपालन करने में असफल होने की दशा में वह मांग करने पर ऐसे माल पर उदग्रहणीय शुल्क किन्तु इस अधिसूचना के अधीन छूट के, और जो आयात के समय पहले ही संदत्त की गई है, बीच के अंतर के बराबर रकम का संदाय करेगा।”;
--	---

(ii) शर्त सं. 104 के पूर्व आने वाली शर्त सं. 103 को, जो भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 61/2007 सीमाशुल्क तारीख 3 मई, 2007 द्वारा अंतःस्थापित की गई थी, जो भारत के राजपत्र, असाधारण में उसी तारीख को सा.का.नि. 324(अ) द्वारा प्रकाशित की गई थी, उसे शर्त सं. 103क के रूप में पुनःसंख्यांकित किया जाएगा ;

(iii) शर्त सं. 105 के पश्चात् निम्नलिखित शर्त अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :-

“106 यदि,-

(क) यदि किसी विनिर्माता द्वारा निर्यात के लिए क्रीड़ा माल के विनिर्माण में उपयोग के लिए विनिर्माता द्वारा माल का आयात किया जाता है और विनिर्माता “क्रीड़ा माल निर्यात संवर्धन परिषद्” के साथ रजिस्ट्रीकृत है ;

(ख) किसी वर्ष में आयातित विनिर्दिष्ट माल का कुल मूल्य पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान निर्यात किए गए क्रीड़ा माल के पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य के तीन प्रतिशत से अधिक नहीं होगा ;

(ग) आयातकर्ता “क्रीड़ा माल निर्यात संवर्धन परिषद्” से उपशर्त (ख) में वर्णित पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान किए गए निर्यात के मूल्य और मात्रा तथा चालू वित्त वर्ष के दौरान इस अधिसूचना के अधीन पहले से ही आयातित माल के मूल्य और मात्रा का भी सत्यापन करते हुए प्रमाण पत्र प्रस्तुत करता है।”;

(iv) सूची 3 में, मद 143 के पश्चात् निम्नलिखित मदें अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :-

“(144) टेबलेट टेलीबिबुडाइन

(145) इंजेक्शन एक्जेनाटाइड

(146) डीटीएपी-आईपीवी-एसआईबी या पीआरपी-टी कंबाईंड वैक्सिन

(147) न्यूमोकोकल-7 वेलेंट कंजुगेट वैक्सिन (डिप्थिरिया सीआरएम 197 प्रोटीन)

(148) इंजेक्शन थायरोट्रोपिन अल्फा

(149) इंजेक्शन ओमलीजूमाब।”;

(v) सूची 44 में मद 9 के स्थान पर निम्नलिखित मद रखी जाएगी, अर्थात् :-

“(9) 765 केवी पोलिमर लॉग राड इंसुलेटर्स”।”

टिप्पण — मूल अधिसूचना सं० 21/2002 -सीमाशुल्क, तारीख 1 मार्च, 2002 भारत के राजपत्र, असाधारण, में सा.का.नि. संख्या 118(अ), तारीख 1 मार्च, 2002 द्वारा प्रकाशित की गई थी और उसमें अंतिम संशोधन अधिसूचना संख्या 13/2008-सीमाशुल्क, तारीख 24 जनवरी, 2008 द्वारा जो भारत के राजपत्र, असाधारण, में सा.का.नि. 57(अ), तारीख 24 जनवरी, 2008 द्वारा प्रकाशित की गई थी, किया गया था।

NOTIFICATION
No.21/2008-Customs

New Delhi, the 1st March, 2008
11 Phalgun, 1929 (Saka)

G.S.R. 120(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 21/2002-Customs, dated the 1st March, 2002 which was published in the Gazette of India, Extraordinary vide number G.S.R.118 (E) of the same date, namely:-

In the said notification,-

(I) in the Table,-

- (i) against S. No. 60, for the entry in column (4), the entry "2%" shall be substituted;
- (ii) against S. No. 95, in column (3), after item (ix), the following items shall be inserted, namely:-
 - "(x) Enzyme conjugates of antibodies or antigens or Protein A;
 - (xi) Natural or synthetic or recombinant antigens relating to human and animal diseases;
 - (xii) Antibodies (monoclonal or polyclonal) relating to human and animal diseases;
 - (xiii) Stabilizers for the Enzyme conjugate";
- (iii) against S. No.200, for the entry in column (4), the entry "Nil" shall be substituted;
- (iv) against S. No.226, for the entry in column (5), the entry "14%" shall be substituted;
- (v) against S. No.228, for the entry in column (5), the entry "14%" shall be substituted;
- (vi) against S. No.236, for the entry in column (5), the entry "14%" shall be substituted;
- (vii) against S. No.237, for the entry in column (5), the entry "14%" shall be substituted;
- (viii) against S. No. 316B, in column (3), after item (iii), the following items shall be inserted, namely:-
 - "(iv) SMPS power board
 - (v) IR module";
- (ix) against S. No.344A, for the entry in column (5), the entry "14%" shall be substituted;
- (x) against S. No.346, for the entry in column (3), the entry "Gliders, or simulators of aeroplanes or simulators of helicopters" shall be substituted;
- (xi) against S. No.347A, for the entry in column (6), the entry "103A" shall be substituted;

- (xii) against S.No.349, in column (3), after item (ii), the following item shall be inserted, namely:-

“(iii) Ground equipment brought for testing of (i) above”;

- (xiii) against S. No. 399,-

(a) for the entry occurring in column (4), against item (vi) of column (3), the entry “5%” shall be substituted;

(b) for the entries occurring in column (5), against items (i), (ii), (iv) and (vi) of column (3), the entry “14%” shall respectively be substituted;

- (xiv) against S. No.404, for the entry in column (5), the entry “14%” shall be substituted;

- (xv) against S. No.433, for the entry occurring in column (5), against item (1) of column (3), the entry “14%” shall be substituted;

- (xvi) against S. No. 441, for the entry in column (4), the entry “5%” shall be substituted;

- (xvii) S. No. 464 and the entries relating thereto shall be omitted;

- (xviii) S. No. 500 and the entries relating thereto shall be omitted;

- (xix) for S. No. 539 and the entries relating thereto, the following S. No. and entries shall be substituted, namely :-

S. No.	Chapter or heading or sub-heading or tariff item	Description of goods	Standard rate	Additional duty rate	Condition No.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
“539.	85	MP3 or MP4 or MPEG 4 player with or without radio or video reception facility	5%	-	-”;

- (xx) against S.No.547, for the entry in column (4), the entry “5%” shall be substituted;

- (xxi) after S. No. 570 and the entries relating thereto, the following S. Nos. and entries shall be inserted, namely:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
“571.	0303 79	Tuna bait	Nil	-	-
572.	2309 90	Feed additives or pre-mixes	20%	-	-
573.	2716 00 00	All goods	Nil	-	-

574.	2809 20 10	All goods	5%	-	-
575.	4002 39 00	Chlorobutyl rubber or bromobutyl rubber	5%	-	-
576.	5902 20	Polyester tyre cord fabric	5%	-	-
577.	7104	Rough Cubic Zirconia	Nil	-	-
578.	7104	Polished Cubic Zirconia	5%	-	-
579.	7602	Aluminium scrap	Nil	-	-
580.	84	The following goods, namely:- (i) Cricket bat and hockey stick splice joining machine (ii) Rugby ball or soccer ball stitching machine (iii) Moulds for soccer ball, basket ball and volley ball	5%	-	-
581.	84	Bactofuges	Nil	-	-
582.	93	Air Rifles or Air Pistols of 0.177 calibre	Nil	Nil	-
583.	Any	The following goods, namely:- (i) Nylon gut (ii) PU or nylon grip sheets for hockey sticks (iii) Butyl bladders for inflatable balls (iv) Willow clefts, ashwood or beechwood (v) Cork bottoms	Nil	-	106";

(II) in the Annexure,-

(i) for Condition No. 69, the following Condition shall be substituted, namely:-

Condition No.	Conditions
(1)	(2)
"69.	<p>If the importer, at the time of import,-</p> <p>(i) produces before the Deputy Commissioner of Customs or the Assistant Commissioner of Customs, as the case may be, a certificate from an officer not below the rank of a Deputy Secretary to the Government of India in the Department of Space certifying that the said satellite and pay-loads are for launch into outer space in conformity with the provisions of the Outer Space Treaty of 1967;</p> <p>(ii) produces before the Deputy Commissioner of Customs or the Assistant Commissioner of Customs, as the case may be, a certificate from an officer not below the rank of a Deputy Secretary to the Government of India in the Department of Space certifying that the goods covered under item (ii) of column (3) of S.No.349 of the Table, are required for launch vehicles and satellites and payloads; and</p> <p>(iii) gives an undertaking to the effect that the ground equipment, covered under item (iii) of column (3) of S.No.349 of the Table, imported for testing the satellites or pay-loads shall be re-exported within a period of six months from the date of their importation or such extended period, as the Deputy Commissioner of Customs or the Assistant Commissioner of Customs, as the case may be, may allow, and in the event of failure to comply with the same, he shall pay on demand an amount equal to the difference between the duty leviable on such goods but for the exemption under this notification and that already paid at the time of importation.”;</p>

(ii) Condition No. 103 occurring before Condition No.104, as so inserted vide notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 61/2007-Customs, dated the 3rd May, 2007 published in the Gazette of India, Extraordinary, vide

number G.S.R. 324(E) of the same date, shall be re-numbered as Condition No.103A thereof;

(iii) after Condition No.105, the following Condition shall be inserted, namely:-

“106. If,-

(a) the goods are imported by a manufacturer, for use in the manufacture of sports goods for export by that manufacturer and the manufacturer is registered with the ‘Sports Goods Export Promotion Council’;

(b) the total value of specified goods imported in a year shall not exceed 3 per cent. of the FOB value of sports goods exported by the manufacturer during the preceding financial year;

(c) the importer produces a certificate from the ‘Sports Goods Export Promotion Council’ certifying the value and quantity of exports made during the preceding financial year mentioned in sub-condition (b); and also the value and quantity of goods already imported under this notification during the current financial year.”;

(iv) in List 3, after item 143, the following items shall be inserted, namely:-

“(144) Tablet Telbivudine

(145) Injection Exenatide

(146) DTaP-IPV-Hib or PRP-T combined Vaccine

(147) Pneumococcal-7 Valent Conjugate Vaccine (Diphtheria CRM₁₉₇ Protein)

(148) Injection Thyrotropin Alfa

(149) Injection Omalizumab.”;

(v) in List 44, for item (9), the following item shall be substituted, namely:-

“(9) 765 KV Polymer Long Rod Insulators”.

[F. No. 334/1/2008-TRU]

S. BAJAJ, Under Secy.

Note :—The principal notification No.21/2002-Customs, dated the 1st March, 2002 was published in the Gazette of India, Extraordinary, vide number G.S.R. 118(E), dated the 1st March, 2002 and was last amended vide notification No.13/2008-Customs, dated the 24th January, 2008 published vide number G.S.R.57(E), dated the 24th January, 2008.

अधिसूचना

नई दिल्ली, तारीख 1 मार्च, 2008.

सं० 22/2008-सीमाशुल्क

11 फाल्गुन, 1929 (शक)

सा.का.नि. 121(अ).—केन्द्रीय सरकार, वित्त अधिनियम, 2003 की धारा 134 की उपधारा (4) के साथ पठित सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है, नीचे सारणी के स्तंभ (3) में विनिर्दिष्ट और सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची के शीर्ष, उपशीर्ष या टैरिफ मद के अन्तर्गत आने वाले माल को, जो उक्त सारणी के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट है, उक्त वित्त अधिनियम की धारा 134 की उपधारा (1) के अधीन उद्ग्रहणीय समस्त राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता शुल्क से छूट देती है :—

सारणी

क्रम सं०	पहली अनुसूची का शीर्ष या उपशीर्ष या टैरिफ मद	माल का वर्णन
(1)	(2)	(3)
1	5402 20	सभी माल
2	5402 33 00	सभी माल
3	5402 46 00	सभी माल
4	5402 47 00	सभी माल
5	5402 52 00	सभी माल
6	5402 62 00	सभी माल
7	5406	पालिस्टर का संश्लिष्ट फिलामेंट सूत

[फा. सं. 334/1/2008-टीआरयू]

एस. बजाज, अवर सचिव

NOTIFICATION
No.22/2008-Customs.

New Delhi, the 1st March, 2008
11 Phalgun, 1929 (Saka)

New Delhi, the 1st March, 2008

G.S.R. 121(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), read with sub-section (4) of section 134 of the Finance Act, 2003, the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts goods specified in column (3) of the Table below and falling within the heading, sub-heading or tariff item of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) as specified in the column (2) of the said Table, from the whole of the National Calamity Contingent duty leviable under sub-section (1) of section 134 of the said Finance Act:

TABLE

S. No.	Heading or sub-heading or tariff item of the First Schedule	Description of goods
(1)	(2)	(3)
1	5402 20	All goods
2	5402 33 00	All goods
3	5402 46 00	All goods
4	5402 47 00	All goods
5	5402 52 00	All goods
6	5402 62 00	All goods
7	5406	Synthetic filament yarn of polyester.

[F. No. 334/1/2008-TRU]

S. BAJAJ, Under Secy.

अधिसूचना

सं० 23/2008-सीमाशुल्क

सा.का.नि. 122(अ).—केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 74 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं० 19-सीमाशुल्क, तारीख 6 फरवरी, 1965 में, जो उसी तारीख को भारत के असाधारण, राजपत्र में का.आ. 426 द्वारा प्रकाशित किया गया था, निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में,—

(i) उद्देशिका में, “स्तंभ (2)” शब्द, कोष्ठकों और अंक के स्थान पर, “स्तंभ (3)” शब्द, कोष्ठक और अंक रखे जाएंगे।

(ii) सारणी के स्थान पर निम्नलिखित सारणी रखी जाएगी, अर्थात् :—

“सारणी

क्रम सं.	घरेलू उपयोग के लिए निकासी की तारीख और उस तारीख के जब माल निर्यात के लिए सीमा शुल्क नियंत्रण के अधीन रखा गया, बीच की अवधि	वापसी के रूप में संदत्त किए गए निर्यात शुल्क का प्रतिशत
(1)	(2)	(3)
1.	तीन मास से अनधिक	95%
2.	तीन मास से अधिक किन्तु छह मास से अनधिक	85%
3.	छह मास से अधिक किन्तु नौ मास से अनधिक	75%
4.	नौ मास से अधिक किन्तु बारह मास से अनधिक	70%

5.	बारह मास से अधिक किन्तु पंद्रह मास से अनधिक	65%
6.	पंद्रह मास से अधिक किन्तु अठारह मास से अनधिक	60%
7.	अठारह मास से अधिक	शून्य ;”

(iii) सारणी के पश्चात् पहले परंतुक का लोप किया जाएगा ।

[फा. सं. 334/1/2008-टीआरयू]

एस. बजाज, अवर सचिव

टिप्पण : मूल अधिसूचना सं० 19-सीमाशुल्क, तारीख 6 फरवरी, 1965, भारत के राजपत्र में का.आ. 426, तारीख 6 फरवरी, 1965 द्वारा प्रकाशित की गई थी और अंतिम संशोधन अधिसूचना सं 27/2006-सीमाशुल्क, तारीख 14 मार्च, 2006 द्वारा किया गया था जो का.आ. 324(अ), तारीख 14 मार्च, 2006 द्वारा प्रकाशित की गई थी ।

NOTIFICATION
No.23/2008-Customs

New Delhi, the 1st March, 2008
11 Phalguna, 1929 (Saka)

G.S.R. 122(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 74 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 19-Customs, dated the 6th February, 1965, which was published in the Gazette of India vide S.O. 426 of the same date, namely :-

In the said notification,-

(i) in the preamble, for the word, brackets and number “column (2)”, the word, brackets and number “column (3)” shall be substituted;

(ii) for the TABLE, the following TABLE shall be substituted, namely:-

“TABLE

S. No.	Length of period between the date of clearance for home consumption and the date when the goods are placed under Customs control for export	Percentage of import duty to be paid as Drawback
(1)	(2)	(3)
1.	Not more than three months	95%
2.	More than three months but not more than six months	85%
3.	More than six months but not more than nine months	75%
4.	More than nine months but not more than twelve months	70%
5.	More than twelve months but not more than fifteen months	65%
6.	More than fifteen months but not more than eighteen months	60%
7.	More than eighteen months	Nil”;

(iii) after the TABLE, the first proviso shall be omitted;

[F. No. 334/1/2008-TRU]

S. BAJAJ, Under Secy.

Note: The principal notification No.19-Customs, dated the 6th February, 1965 was published in the Gazette of India, vide S.O. 426, dated the 6th February, 1965 and was last amended vide notification No.27/2006-Customs, dated the 14th March, 2006 which was published vide number S.O. 324 (E), dated the 14th March, 2006.

अधिसूचना	नई दिल्ली, तारीख 1 मार्च, 2008,
सं० 24/2008- सीमाशुल्क	11 फाल्गुन, 1929 (शक)

सा.का.नि. 123(अ).—केन्द्रीय सरकार वित्त (संख्यांक 2) अधिनियम, 1996 की धारा 68 की उपधारा (4) के साथ पठित सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना लोकहित में आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं० 84/1997-सीमाशुल्क, तारीख 11 नवम्बर, 1997 में जो उसी तारीख को भारत के राजपत्र, असाधारण में सा.का.नि. सं० 645(अ), द्वारा प्रकाशित की गई थी, निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना के स्पष्टीकरण को स्पष्टीकरण 1 के रूप में संख्यांकित किया जाएगा और उसी प्रकार संख्यांकित स्पष्टीकरण 1 के पश्चात् निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

‘स्पष्टीकरण 2 - शंकाओं को दूर करने के लिए यह स्पष्ट किया जाता है कि इस अधिसूचना के अधीन फायदा, संयुक्त राष्ट्र या किसी अन्तरराष्ट्रीय संगठन द्वारा वित्तपोषित परियोजनाओं को प्रदाय किए गए माल की दशा में तब उपलब्ध है, जब परियोजना में लाए गए माल को, प्रदायकर्ता या ठेकेदार द्वारा वापस नहीं लिया जाता है और “माल, परियोजना के निष्पादन के लिए अपेक्षित है” पद का तदनुसार अर्थ लगाया जाएगा ।’

[फा. सं. 334/1/2008-टीआरयू]

एस. बजाज, अवर सचिव

टिप्पण — मूल अधिसूचना 84/1997 - सीमाशुल्क, तारीख 11 नवम्बर, 1997 भारत के राजपत्र, असाधारण में सा.का.नि. सं० 645(अ), तारीख 11 नवम्बर, 1997 द्वारा प्रकाशित की गई थी और उसमें अंतिम संशोधन अधिसूचना सं० 107/2001- सीमाशुल्क, तारीख 12 अक्टूबर, 2001 द्वारा किया गया था जो सा.का.नि. सं० 778(अ), तारीख 12 अक्टूबर, 2001 द्वारा प्रकाशित की गई थी ।

NOTIFICATION
No.24/2008-Customs

New Delhi, the 1st March, 2008
11 Phalgun, 1929 (Saka)

New Delhi, the 1st March, 2008

G.S.R. 123(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), read with sub-section (4) of section 68 of the Finance (No.2) Act, 1996, the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No.84/97-Customs, dated the 11th November, 1997 which was published in the Gazette of India, Extraordinary, vide G.S.R. 645 (E) of the same date, namely: -

In the said notification, the *Explanation* shall be numbered as *Explanation 1* thereof, and after *Explanation 1* as so numbered, the following *Explanation* shall be inserted, namely:-

Explanation 2.-For the removal of doubts, it is hereby clarified that the benefit under this notification, in the case of goods supplied to the projects financed by the United Nations or an international organisation, is available when the goods brought into the project are not withdrawn by the supplier or contractor and the expression "goods are required for the execution of the project" shall be construed accordingly.'.

[F. No. 334/1/2008-TRU]

S. BAJAJ, Under Secy.

Note: - The principal notification No.84/97-Customs, dated the 11th November, 1997 was published in the Gazette of India, Extraordinary, vide G.S.R. 645 (E), dated the 11th November, 1997 and was last amended by vide notification No.107/2001-Customs, dated the 12th October, 2001 published vide number G.S.R. 778 (E), dated the 12th October, 2001.

अधिसूचना

सं० 25/2008-सीमाशुल्क

नई दिल्ली, तारीख 1 मार्च, 2008.

11 फाल्गुन, 1929 (शक)

सा.का.नि. 124(अ).—केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 25/1999-सीमाशुल्क, तारीख 28 फरवरी, 1999 में, जो भारत के राजपत्र, असाधारण में, उसी तारीख को सा.का.नि. 161 (अ), द्वारा प्रकाशित की गई थी, निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में,—

- (क) उद्देशिका में, “और पहली अनुसूची के अध्यायों के अन्तर्गत आने वाले” शब्दों के स्थान पर, “और पहली अनुसूची के अध्याय या शीर्ष या उपशीर्ष या टैरिफ मद के अन्तर्गत आने वाले” शब्द रखे जाएंगे ;
- (ख) सारणी के स्तंभ (2) में, “अध्याय” शब्द के स्थान पर, “अध्याय या शीर्ष या उपशीर्ष या टैरिफ मद” शब्द रखे जाएंगे ;
- (i) सूची क में, क्रम सं० 224 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम सं० और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

क्रम सं०	अध्याय या शीर्ष या उपशीर्ष या टैरिफ मद	आयातित माल का वर्णन	तैयार माल का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)
“225	2834 90 19 3824 90 90 3824 90 90 3824 90 90 9010 90 00 3908 90 90	(i) पलेडियम टेट्रा एमीन सल्फेट (ii) पलेडियम मेक अप घोल (iii) पलेडियम एडोटोव (iv) पलेडियम रिपलेनिशर (v) पलेडियम एनोड पोलराइजर (vi) द्रव क्रिस्टल पोलिमर (एलसीपी)	सांद्र
226.	3921 19 00 7419 99 90 74	(i) एसआरपीबी स्ट्रिप्स/शीट्स और सबस्ट्रेट (ii) ब्रेडेड तांबे का तार (iii) पट्टी/कुण्डली रूप में तांबे की अन्तर्वर्ती परत सहित या उसके बिना पलेडियम तांबे की परत सहित तांबा निकल मिश्रातु	रिलेज
227.	2513 20 90 3209 90 90 3402 90 99 5911 90 90	(i) प्यूमिस चूर्ण (ii) नो बेक ईमलशन (iii) नो बेक लेकर के लिए क्लीनर (iv) एसीटेट टेप	केथोड रे ट्यूब
228.	7226 99 90 7220 90 90	(i) मिश्रातु 223 (ii) एस एस 631	सी आर टी के पुर्जे

229	8544 19	(i) इनामलयुक्त एलुमीनियम की तार	लाउड स्पीकर डीगौसिंग कुण्डली
230	27, 29, 32, 38, 39, 40, 68, 69, 70, 73, 81, 82, 85, 90	(i) सोल्डरोन टीन सांद्रण (ii) सोल्डरोन एसिड एच सी (iii) सोल्डरोन एस टी-300 (iv) सोल्डरोन स्ट्रिप (v) साटिन 108 (vi) चिट्नाकन स्याही (vii) मेलेमाइन सांचों की सफाई का यौगिक (viii) टंगस्टन बोट्स और बास्केट्स (ix) क्वार्टस वूल ट्वीजर्स (x) टेफ्लोन वेफर कैरियर्स (xi) डायमंड टिप्स (xii) ड्रेसिंग प्लेट्स (xiii) कैपिलरी (xiv) स्वर टिप (xv) पुश अप निडल्स (xvi) थर्मोकपल्स (xvii) कार्टिज हिटर्स	अर्ध सुचालक
231	2710 19 60 3902 90 00 3902 30 00 3824 90 11	(i) हाइड्रोआइसोमराइज्ड बेस तेल (ii) पोलिअल्फाओलेफिन (iii) थर्मोप्लास्टिक इलास्टोमर (iv) ओर्गेनोक्ले गेलेंट	ओप्टिकल फाइबर केबलों के लिए केबल फिलिंग/ फ्लाडिंग यौगिक (थिक्सोट्रोपिक जैली)
232	33, 39, 69, 76	(i) परफ्लूरो पोलिइथर तेल (फोमब्लिन तेल) (ii) सेरेमिक वाष्पीकरण बोट्स (iii) ग्राफिक फोयल	संधारित्रों के लिए इलेक्ट्रानिक संधारित्र श्रेणी की घात्विकृत प्लास्टिक की फिल्म
233	7011 90 7011 90 7011 20 7011 20 7011 20 3824 90 3824 90 3824 90	(i) आईटीओ लेपित ऊपर की कांच की प्लेट (ii) कांच की पेंदी की प्लेट (उच्च स्ट्रेन बिन्दु) (iii) निष्कासक नली (iv) प्रिफोर्म रिंग (v) पीडीपी के लिए कांच/फिल्म का फिल्टर (vi) बस इलेक्ट्रोड पेस्ट (vii) पारदर्शी डाइइलेक्ट्रिक पेस्ट/चूर्ण (viii) सफेद डाइइलेक्ट्रिक पेस्ट	प्लाजमा प्रदर्श पैनल/ मोड्यूल

	3824 90	(ix) बेरियर रिब पेस्ट/ चूर्ण	
	3824 90	(x) फ्रिट पेस्ट के लिए यान	
	3206 49	(xi) पोस्फोर पेस्ट/ चूर्ण	
	3920 99	(xii) बेरियर रिब के लिए शुष्क फिल्म रजिस्ट	
	3920 99	(xiii) आईटीओ के लिए शुष्क फिल्म रजिस्ट	
	3920 99	(xiv) पटलित टीडी	
	3920 99	(xv) लेपिंग टेप	
	2820 90	(xvi) एमजीओ वाष्पिकरण सामग्री	
	3207 40	(xvii) सीलिंग फ्रिट पेस्ट	
	3214 90	(xviii) सीलिंग फ्रिट चूर्ण	
	6804 22	(xix) बालू विस्फोटन के लिए एसएस चूर्ण	
	8443 90	(xx) स्क्रीन प्रिन्टिंग मास्क	
	8443 90	(xxi) फोटो मास्क	
	7020 00	(xxii) नियोसिरेम सेटल प्लेट	
	8529 90	(xxiii) टीसीपी (टेप केरियर पैकेज)	
	6815 10	(xxiv) ग्रेफाइट शीट	
234.	3824 90	(i) सेबेसिक एसिड	एलुमिनियम इलेक्ट्रोलिटिक संघारित्र "
	3824 90	(ii) अमोनियम पैरा नाइट्रोबेंजोयड	
	3824 90	(iii) एडिपिक सहाय	
	3824 90	(iv) ग्लूटेरिक एसिड	
	3824 90	(v) अमोनियम बेजोएट	
	3505 20	(vi) पीवीए चूर्ण	
	3824 90	(vii) ट्राइएथनोलामीन	
	3824 90	(viii) अर्थोनाइट्रो एनीसोल	
	3824 90	(ix) पैरा नाइट्रो फिनोल	
	3824 90	(x) मेथोक्सी फिनोल	

[फा. सं. 334/1/2008-टीआरयू]

एस. बजाज, अवर सचिव

टिप्पण - मूल अधिसूचना सं० 25/1999-सीमाशुल्क, तारीख 28 फरवरी, 1999, भारत के असाधारण राजपत्र में सा०का०नि० सं० 161(अ), तारीख 28 फरवरी, 1999 द्वारा प्रकाशित की गई थी और अंतिम संशोधन अधिसूचना सं० 22/2005-सीमाशुल्क, तारीख 1 मार्च, 2005 द्वारा किया गया था जो सा.का.नि. 120(अ), तारीख 1 मार्च, 2005 द्वारा प्रकाशित की गई थी।

NOTIFICATION
No.25/2008-Customs

New Delhi, the 1st March, 2008
11 Phalgun, 1929 (Saka)

G.S.R. 124(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 25/1999-Customs, dated the 28th February, 1999, and published in the Gazette of India, Extraordinary vide number G.S.R. 161(E), of the same date, namely :-

In the said notification,-

- (A) in the preamble, for the words, “and falling under the Chapters of the First Schedule”, the words “and falling under the Chapters or heading or sub-heading or tariff items of the First Schedule” shall be substituted;
- (B) in the Table,- in column (2), for the word “Chapter”, the words “Chapter or Heading or Sub-heading or tariff item”, shall be substituted;
- (i) in LIST A, after S. No. 224 and the entries relating thereto, the following S. No and the entries shall be inserted, namely :-

S.No	Chapter or Heading or Sub- heading or tariff item	Description of imported goods	Description of finished goods
(1)	(2)	(3)	(4)
“225.	2834 9019	(i) Palladium Tetra Amine Sulphate	Connectors
	3824 9090	(ii) Palladium make up solution	
	3824 9090	(iii) Palladium Addotove	
	3824 9090	(iv) Palladium replenisher	
	9010 9000	(v) Palladium Anode Polariser	
	3908 9090	(vi) Liquid crystal polymer (LCP)	
226.	3921 1900	(i) SRPB strips/sheets & substrate	Relays
	7419 9990	(ii) Braided copper wire	
	74	(iii) Copper nickel Alloy with layer of palladium Copper with or without an intermediate layer of cooper in strips/coil form.	
227.	2513 2090	(i) Pumice powder	Cathode ray tubes
	3209 9090	(ii) No bake emulsion	
	3402 9099	(iii) Cleaner for No Bake Lacquer	
	5911 9090	(iv) Acetate tape	
228.	7226 9990	(i) Alloy 223	Parts of CRT
	7220 9090	(ii) SS 631	

229.	8544 19	(i)	Enamelled Aluminium wire	Loudspeaker, Degaussing coils
230.	27, 29, 32, 38, 39, 40, 68, 69, 70, 73, 81, 82, 85, 90	(i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) (vii) (viii) (ix) (x) (xi) (xii) (xiii) (xiv) (xv) (xvi) (xvii)	Solderon Tin concentrate Solderon Acid HC Solderon ST-300 Solderon strip Satin 108 Marking ink Melamine mould cleaning compound Tungsten boats and baskets Quartz wool tweezers Teflon wafer carriers Diamond tips Dressing plates Capillary Rubber tip Push up needles Thermocouples Cartridge heaters	Semiconductors
231.	2710 1960 3902 9000 3902 3000 3824 9011	(i) (ii) (iii) (iv)	Hydroisomerized base oil Polyalphaolefin Thermoplastic elastomer Organoclay gellant	Cable Filling/ Flooding compounds (Thixotropic jelly) for optical fibre cables
232.	33, 39, 69, 76	(i) (ii) (iii)	Perfluoro Polyether Oil (Fomblin oil) Ceramic evaporation boats Graphic foil	Electronic Capacitor grade metallised Plastic film for Capacitors
233.	7011 90 7011 90 7011 20 7011 20 7011 20 3824 90 3824 90 3824 90 3824 90 3206 49 3920 99 3920 99 3920 99 3920 99 2820 90 3207 40 3214 90	(i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) (vii) (viii) (ix) (x) (xi) (xii) (xiii) (xiv) (xv) (xvi) (xvii) (xviii)	ITO coated top glass plate Bottom glass plate (High strain point) Exhaust tube Preform ring Glass/film filter for PDP Bus electrode paste Transparent dielectric paste/powder White dielectric paste/powder Barrier rib paste/powder Vehicle for frit paste Phosphor paste/powder Dry film resist for barrier rib Dry film resist for ITO Laminated TD Lapping tape MgO evaporation material Sealing frit paste Sealing frit powder	Plasma display panel/module

6804 22	(xix)	SS powder for sandblasting	
8443 90	(xx)	Screen printing mask	
8443 90	(xxi)	Photo mask	
7020 00	(xxii)	Neoceram setter plate	
8529 90	(xxiii)	TCP (Tape carrier package)	
6815 10	(xxiv)	Graphite sheet	
234. 3824 90	(i)	Sebacic acid	Aluminium
3824 90	(ii)	Ammonium para nitro benzoate	electrolytic
3824 90	(iii)	Adipic acid	capacitors"
3824 90	(iv)	Glutaric acid	
3824 90	(v)	Ammonium benzoate	
3505 20	(vi)	PVA powder	
3824 90	(vii)	Triethanolamine	
3824 90	(viii)	Ortho nitro anisol	
3824 90	(ix)	Para nitro phenol	
3824 90	(x)	Methoxy phenol	

[F. No. 334/1/2008-TRU]

S. BAJAJ, Under Secy.

Note: The principal notification No.25/99-Customs, dated the 28th February, 1999 was published in the Gazette of India, Extraordinary, vide number G.S.R. 161(E), dated the 28th February, 1999 and was last amended vide notification No.22/2005-Customs, dated the 1st March, 2005 which was published vide number G.S.R.120(E), dated the 1st March, 2005.

अधिसूचना

सं० 26/2008-सीमाशुल्क

नई दिल्ली, तारीख 1 मार्च, 2008

11 फाल्गुन, 1929 (शक)

सा.का.नि. 125(अ).—केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) के उपशीर्ष 8517 12 के अन्तर्गत आने वाले सभी माल को, जब भारत में आयात किया जाए, जो समय-समय पर यथासंशोधित वित्त अधिनियम, 2001 (2001 का 14) की सातवीं अनुसूची की सारणी के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट है, वित्त अधिनियम, 2003 (2003 का 32) की धारा 134 के अधीन उस पर उद्ग्रहणीय समस्त राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता सीमाशुल्क से छूट देती है।

NOTIFICATION
No.26/2008-Customs

New Delhi, the 1st March, 2008
11 Phalguna, 1929 (Saka)

G.S.R. 125(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts all goods falling under sub-heading 8517 12 of the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), as specified in column (2) of the Table in the Seventh Schedule to the Finance Act, 2001 (14 of 2001), as amended from time to time, when imported into India, from the whole of the National Calamity Contingent duty of Customs leviable thereon under section 134 of the Finance Act, 2003 (32 of 2003).

[F. No. 334/1/2008-TRU]

S. BAJAJ, Under Secy.

अधिसूचना

सं० 27/2008-सीमाशुल्क

नई दिल्ली, तारीख 1 मार्च, 2008.

11 फाल्गुन, 1929 (शक)

सा.का.नि. 126(अ).—केंद्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं० 27/2002-सीमाशुल्क, तारीख 1 मार्च, 2002 में, जो भारत के राजपत्र, असाधारण में उसी तारीख को, सा.का.नि. 124(अ) द्वारा प्रकाशित की गई थी, निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में, सारणी के स्थान पर निम्नलिखित सारणी रखी जाएगी, अर्थात् :—

“सारणी

माल का विवरण	सीमाएं और शर्तें	छूट की सीमा
(1)	(2)	(3)
सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची के अध्याय 84, 85, 90 या किसी अन्य अध्याय के अंतर्गत आने वाली मशीनरी, उपस्कर या औजार	<p>(1) आयातकर्ता द्वारा आयात के पश्चात् उपयोग के लिए माल पट्टे पर लिया गया है ;</p> <p>(2) आयात के समय आयातकर्ता एक घोषणा करता है कि माल का संविदा के निष्पादन के लिए अस्थायी रूप से आयात किया जा रहा है ;</p> <p>(3) उक्त माल का ऐसे निर्यात की तारीख के तीन मास के भीतर या ऐसी विस्तारित अवधि के भीतर जो उक्त आयात की तारीख से 18 मास से अधिक की नहीं है जो यथास्थिति, सीमा शुल्क सहायक आयुक्त या सीमा शुल्क उपायुक्त अनुज्ञात करे ;</p> <p>(4) जहां यथास्थिति, सीमा शुल्क सहायक आयुक्त या सीमा शुल्क उपायुक्त पुनः निर्यात के लिए पूर्वोक्त अवधि का विस्तारण करता है वहां आयातकर्ता स्तंभ (3) में सुसंगत खंड के अधीन संदेय शुल्क और उनके आयात के समय पहले से संदत्त शुल्क के बीच अंतर का संदाय करेगा ; और</p> <p>(5) आयातकर्ता,</p> <p>(क) उक्त माल का आयात की तारीख से तीन मास के भीतर या पूर्वोक्त विस्तारित अवधि के भीतर</p>	<p>(i) ऐसे माल की दशा में जो आयात की तारीख से तीन मास के भीतर पुनःनिर्यात किया जाता है उतने सीमा शुल्क से जो कुल सीमाशुल्क के पांच प्रतिशत की दर से संगणित रकम से अधिक है ;</p> <p>(ii) ऐसे माल की दशा में जो आयात की तारीख से तीन मास के पश्चात् किंतु छह मास के भीतर पुनःनिर्यात किया जाता है उतने सीमा शुल्क से जो कुल सीमाशुल्क के पन्द्रह प्रतिशत की दर से संगणित रकम से अधिक है ;</p> <p>(iii) ऐसे माल की दशा में जो आयात की तारीख से छह मास के पश्चात् किंतु नौ मास के भीतर पुनःनिर्यात किया जाता है उतने सीमा शुल्क से जो कुल सीमाशुल्क के पच्चीस प्रतिशत की दर से संगणित रकम से अधिक है ;</p> <p>(iv) ऐसे माल की दशा में जो</p>

	<p>पुनःनिर्यात करने का ;</p> <p>(ख) माल को पुनःनिर्यात से पूर्व पहचान के लिए सीमा शुल्क सहायक आयुक्त या सीमा शुल्क उपायुक्त के समक्ष प्रस्तुत करने का ;</p> <p>(ग) यदि पुनःनिर्यात अनुबद्ध अवधि के भीतर नहीं किया जाता है तो उक्त माल के आयात की तारीख से आरंभ होने वाली और उस तारीख को समाप्त होने वाली जिसको पूरा शुल्क संदत्त कर दिया जाता है, अवधि के लिए सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 28कख के अधीन जारी अधिसूचना द्वारा नियत दर पर ब्याज के साथ शुल्क के बकाया का संदाय करने का,</p> <p>वचन देते हुए बैंक गारंटी के साथ एक बंधपत्र निष्पादित करेगा ।</p>	<p>आयात की तारीख से नौ मास के पश्चात् किंतु बारह मास के भीतर पुनःनिर्यात किया जाता है उतने सीमाशुल्क से जो कुल सीमाशुल्क के तीस प्रतिशत की दर से संगणित रकम से अधिक है ;</p> <p>(v) ऐसे माल की दशा में जो आयात की तारीख से बारह मास के पश्चात् किंतु पन्द्रह मास के भीतर पुनःनिर्यात किया जाता है उतने सीमाशुल्क से जो कुल सीमाशुल्क के पैंतीस प्रतिशत की दर से संगणित रकम से अधिक है ;</p> <p>(vi) ऐसे माल की दशा में जो आयात की तारीख से पन्द्रह मास के पश्चात् किंतु अठारह मास के भीतर पुनःनिर्यात किया जाता है, उतने सीमाशुल्क से जो कुल सीमाशुल्क के चालीस प्रतिशत की दर से संगणित रकम से अधिक है,—</p> <p>जो इस प्रकार प्रभार्य शुल्क की बाबत तत्समय प्रवृत्त किसी अधिसूचना के साथ पठित सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के अधीन या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन उद्ग्रहणीय होगा ।</p>
--	--	--

टिप्पण : इस रियायत के अधीन आयातित माल सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 74 की उपधारा (2) के अधीन वापसी के लिए पात्र नहीं होगा ।

[फा. सं. 334/1/2008-टीआरयू]

एस. बजाज, अवर सचिव

टिप्पण - मूल अधिसूचना सं. 27/2002-सीमाशुल्क, तारीख 1 मार्च, 2002, भारत के राजपत्र, असाधारण में, सा0का0नि0 सं0 124(अ), तारीख 1 मार्च, 2002 द्वारा प्रकाशित की गई थी ।

NOTIFICATION
No.27/2008-Customs

New Delhi, the 1st March, 2008
11 Phalguna, 1929 (Saka)

G.S.R. 126(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 27/2002-Customs, dated the 1st March, 2002 which was published in the Gazette of India, Extraordinary, vide number G.S.R.124(E) of the same date, namely:-

In the said notification, for the TABLE, the following TABLE shall be substituted, namely:-

"TABLE

Description of goods	Limitations and conditions	Extent of exemption
(1)	(2)	(3)
Machinery, equipment or tools, falling under Chapters 84, 85, 90 or any other Chapter of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975).	<p>(1) the goods have been taken on lease by the importer for use after import;</p> <p>(2) the importer makes a declaration at the time of import that the goods are being imported temporarily for execution of a contract;</p> <p>(3) the said goods are re-exported within three months of the date of such import or within such extended period not exceeding 18 months from the date of said import, as the Assistant Commissioner of Customs or the Deputy Commissioner of Customs, as the case may be, may allow;</p> <p>(4) where the Assistant Commissioner of Customs or the Deputy Commissioner of Customs, as the case may be, grants extension of the aforesaid period for re-export, the importer shall pay the difference between the duty payable under the relevant clause in column (3) and the duty already paid at the time of their import; and</p> <p>(5) the importer executes a bond, with a bank guarantee, undertaking—</p> <p>(a) to re-export the said goods within</p>	<p>in the case of,—</p> <p>(i) goods which are re-exported within three months of the date of import, so much of the duty of customs as is in excess of the amount calculated at the rate of five per cent.;</p> <p>(ii) goods which are re-exported after three months, but within six months, of the date of import, so much of the duty of customs as is in excess of the amount calculated at the rate of fifteen per cent.;</p> <p>(iii) goods which are re-exported after six months, but within nine months, of the date of import, so much of the duty of customs as is in excess of the amount calculated at the rate of twenty five per cent.;</p> <p>(iv) goods which are re-exported after nine months, but within twelve months, of the date of import, so much of the duty of customs as is in excess of the amount calculated at the rate of thirty per cent.;</p> <p>(v) goods which are re-exported after twelve months, but within fifteen months, of the date of import, so much of the duty of</p>

Description of goods	Limitations and conditions	Extent of exemption
(1)	(2)	(3)
	<p>three months of the date of import or within the aforesaid extended period;</p> <p>(b) to produce the goods before the Assistant Commissioner of Customs or the Deputy Commissioner of Customs for identification before re-export;</p> <p>(c) to pay the balance of duty, along with interest, at the rate fixed by notification issued under section 28AB of the Customs Act, 1962, for the period starting from the date of import of the said goods and ending with the date on which the duty is paid in full, if the re-export does not take place within the stipulated period</p>	<p>customs as is in excess of the amount calculated at the rate of thirty five per cent.;</p> <p>(vi) goods which are re-exported after fifteen months, but within eighteen months, of the date of import, so much of the duty of customs as is in excess of the amount calculated at the rate of forty per cent.,</p> <p>of the aggregate of the duties of customs, which would be leviable under the Customs Act, 1962 or under any other law, read with any notification for the time being in force in respect of the duty so chargeable.</p>

Note: The goods imported under this concession shall not be eligible for drawback under sub-section (2) of section 74 of the Customs Act, 1962.”

[F. No. 334/1/2008-TRU]

S. BAJAJ, Under Secy.

Note: The principal notification No. 27/2002-Customs, dated the 1st March, 2002 was published in the Gazette of India, Extraordinary, vide G.S.R. 124(E), dated the 1st March, 2002.

अधिसूचना

सं० 28/2008-सीमाशुल्क

नई दिल्ली, तारीख 1 मार्च, 2008.

11 फाल्गुन, 1929 (शक)

सा.का.नि. 127(अ).—केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं० 171/93-सीमाशुल्क, तारीख 16 सितंबर, 1993 में, जो भारत के राजपत्र, असाधारण में उसी तारीख को सा.का.नि. 610(अ) द्वारा प्रकाशित की गई थी, निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना के स्पष्टीकरण में, “पांच हजार रुपए” शब्दों के स्थान पर, “दस हजार रुपए” शब्द रखे जाएंगे।

[फा. सं. 334/1/2008-टीआरयू]

एस. बजाज, अवर सचिव

टिप्पण - मूल अधिसूचना सं. 171/93-सीमा शुल्क, तारीख 16 सितंबर, 1993, भारत के राजपत्र, असाधारण में, सा०का०नि० सं० 610 (अ), तारीख 16 सितंबर, 1993 द्वारा प्रकाशित की गई थी और अंतिम संशोधन अधिसूचना सं. 28/2003-सीमाशुल्क, तारीख 1 मार्च, 2003 द्वारा किया गया था, जो सा.का.नि. सं० 163(अ), तारीख 1 मार्च, 2003 द्वारा प्रकाशित किया गया था।

NOTIFICATION
No.28/2008-Customs

New Delhi, the 1st March, 2008
11 Phalguna, 1929 (Saka)

New Delhi, the 1st March, 2008

G.S.R. 127(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No.171/93-Customs, dated the 16th September, 1993, which was published in the Gazette of India, Extraordinary, vide G.S.R.610 (E) of the same date, namely: -

In the said notification, in the *Explanation*, for the words “rupees five thousand”, the words “rupees ten thousand” shall be substituted.

[F. No. 334/1/2008-TRU]

S. BAJAJ, Under Secy.

Note: - The principal notification No.171/93-Customs, dated the 16th September, 1993 was published in the Gazette of India, Extraordinary, vide G.S.R.610 (E), dated the 16th September, 1993 and was last amended by vide notification No.28/2003-Customs, dated the 1st March, 2003 which was published vide number G.S.R. 163 (E), dated the 1st March, 2003.

अधिसूचना

सं० 29/2008-सीमाशुल्क

नई दिल्ली, तारीख 1 मार्च, 2008.

11 फाल्गुन, 1929 (शक)

सा.का.नि. 128(अ).—केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 77/2003-सीमाशुल्क तारीख 14 मई, 2003 को, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, में उसी तारीख को सा.का.नि. सं. 441 द्वारा प्रकाशित की गई थी, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या किए जाने से लोप किया गया है, समय-समय पर यथा संशोधित, वित्त अधिनियम, 2001 (2001 का 14) की सातवीं अनुसूची की सारणी के स्तंभ (2) में यथाविनिर्दिष्ट (उपशीर्ष 8517 12 के अन्तर्गत आने वाले माल के सिवाय) सभी माल को जब उनका भारत में आयात किया जाए, सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन उन पर उद्ग्रहणीय उतने अतिरिक्त शुल्क से, जो उक्त वित्त अधिनियम, 2001 की धारा 136 के अधीन उन पर उद्ग्रहणीय राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता शुल्क के बराबर है, छूट देती है।

[फा. सं. 334/1/2008-टीआरयू]

एस. बजाज, अवर सचिव

NOTIFICATION
No.29/2008-Customs

New Delhi, the 1st March, 2008
11 Phalguna, 1929 (Saka)

G.S.R. 128(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No.77/2003-Customs, dated the 14th May, 2003 published in the Gazette of India, Extraordinary vide number G.S.R. 414(E) of the same date, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, hereby exempts all goods (except goods falling under sub-heading 8517 12), as specified in column (2) of the Table in the Seventh Schedule to the Finance Act, 2001 (14 of 2001), as amended from time to time, when imported into India, from so much of the additional duty leviable thereon under sub-section (1) of section 3 of the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) as is equivalent to the National Calamity Contingent duty leviable thereon under section 136 of the said Finance Act, 2001.

[F. No. 334/1/2008-TRU]

S. BAJAJ, Under Secy.

अधिसूचना

सं० 11/2008-सीमाशुल्क (एन.टी)

नई दिल्ली, तारीख 1 मार्च, 2008.

11 फाल्गुन, 1929 (शक)

सा.का.नि. 129(अ).—केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की धारा 11क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है, सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की पहली अनुसूची में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :-

उक्त अधिनियम की पहली अनुसूची में,-

(i) अध्याय 38 के शीर्ष 3809 में टैरिफ मद 3809 99 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;

(ii) अध्याय 59 में,-

(क) शीर्ष 5902 के उपशीर्ष 5902 90 में, टैरिफ मद “5902 30 10” के स्थान पर, टैरिफ मद “5902 90 10” रखी जाएगी ;

(ख) शीर्ष 5902 के उपशीर्ष 5902 90 में, टैरिफ मद “5902 30 90” के स्थान पर, टैरिफ मद “5902 90 90” रखी जाएगी ;

(ग) शीर्ष 5905 के उपशीर्ष 5905 90 में, टैरिफ मद “5905 10 10” के स्थान पर, टैरिफ मद “5902 00 10” रखी जाएगी ;

(घ) शीर्ष 5905 के उपशीर्ष 5905 90 में, टैरिफ मद “5905 10 90” के स्थान पर, टैरिफ मद “5902 00 90” रखी जाएगी ;

- (iii) अध्याय 92 के शीर्ष 9208 की टैरिफ मद "9208 20 00" के स्थान पर, टैरिफ मद "9208 90 00" रखी जाएगी ;

[फा. सं. 334/1/2008-टीआरयू]

एस. बजाज, अवर सचिव

टिप्पण : सीमा शुल्क टैरिफ (संशोधन) अधिनियम, 2003 (2003 का 25) द्वारा सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची प्रतिस्थापित की गई थी, इसका और संशोधन वित्त अधिनियम, 2007 (2007 का 22) की धारा 105 की उपधारा (1) द्वारा किया गया था ।

NOTIFICATION
No.11/2008-Customs (N.T.)

New Delhi, the 1st March, 2008
11 Phalgun, 1929 (Saka)

G.S.R. 129(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 11A of the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendments in the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975, namely:-

In the First Schedule to the said Act,-

- (i) in Chapter 38, in heading 3809, the tariff item 3809 99 00 and the entries relating thereto shall be omitted;
- (ii) in Chapter 59,-
 - (a) in heading 5902, in sub-heading 5902 90, for the tariff item "5902 30 10", the tariff item "5902 90 10" shall be substituted;
 - (b) in heading 5902, in sub-heading 5902 90, for the tariff item "5902 30 90", the tariff item "5902 90 90" shall be substituted;
 - (c) in heading 5905, in sub-heading 5905 00, for the tariff item "5905 10 10", the tariff item "5905 00 10" shall be substituted;
 - (d) in heading 5905, in sub-heading 5905 00, for the tariff item "5905 10 90", the tariff item "5905 00 90" shall be substituted;
- (iii) in Chapter 92, in heading 9208, for the tariff item "9208 20 00", the tariff item "9208 90 00" shall be substituted.

2. This notification shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

[F. No. 334/1/2008-TRU]

S. BAJAJ, Under Secy.

Note: - The First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) was substituted by section 3 of the Customs Tariff (Amendment) Act, 2003 (25 of 2003). It was further amended by sub-section (1) of section 105 of the Finance Act, 2007 (22 of 2007).

अधिसूचना	नई दिल्ली, तारीख 1 मार्च, 2008,
सं० 2/2008- केन्द्रीय उत्पाद शुल्क	11 फाल्गुन, 1929 (शक)

सा.का.नि. 130(अ).— केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 5क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1985 (1986 का 5) की पहली अनुसूची के अध्याय, शीर्ष या उपशीर्ष या टैरिफ मद के अंतर्गत आने वाले उत्पाद-शुल्क्य माल को जो उक्त सारणी के स्तम्भ (2) विनिर्दिष्ट हैं, उक्त पहली अनुसूची के अधीन उस पर उद्ग्रहणीय उतने उत्पाद-शुल्क से जो उक्त सारणी के स्तम्भ (3) की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट दर पर संगणित रकम से अधिक है, छूट देती है।

स्पष्टीकरण -- इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए, उक्त सारणी के स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट दरें मूल्यानुसार दरें हैं, जब तक अन्यथा विनिर्दिष्ट न की जाएं।

सारणी

क्रम सं०	पहली अनुसूची के अध्याय या शीर्ष या उपशीर्ष या टैरिफ मद	दर
(1)	(2)	(3)
1.	0402 91 10 और 0402 99 20	14%
2.	1107 10 00, 1107 20 00, 1108 11 00, 1108 12 00, 1108 13 00, 1108 14 00, 1108 19 10 और 1108 19 90	14%
3.	13 (1302 11 00 टैरिफ मद के सिवाय)	14%
4.	1517 10 22, 1520 00 00, 1521 और 1522	14%
5.	1701 (1701 11 20 टैरिफ मद के सिवाय), 1702 (1702 90 10 टैरिफ मद के सिवाय) और 1704	14%
6.	18	14%
7.	1901 20 00, 1901 90 10, 1901 90 90, 1902 40 10, 1902 40 90, 1904, 1905 32 11 और 1905 32 90	14%
8.	20	14%
9.	2101 (2101 30 10, 2101 30 20 और 2101 30 90 टैरिफ मद के सिवाय), 2102, 2103, 2104 और 2106 (2106 90 20 और 2106 90 92 टैरिफ मद के सिवाय)	14%
10.	2201 (2201 90 10 टैरिफ मद के सिवाय), 2202 (2202 90 10 टैरिफ मद के सिवाय), 2207 20 00, 2209 00 10, 2209 00 20 और 2209 00 90	14%
11.	2402 10 10, 2402 10 20, 2402 90 20 और 2402 90 90	14%
12.	2503 00 10, 2515 12 20, 2515 12 90, 2523 21 00, 2523 30 00, 2523 90 10, 2523 90 20 और 2523 90 90	14%

13.	26	14%
14.	2707 और 2708	14%
15.	2710 11 11, 2710 11 12, 2710 11 13, 2710 11 19, 2710 11 20 और 2710 11 90	14% + 15.00 रु० प्रति लीटर
16.	2710 19 10, 2710 19 20, 2710 19 50, 2710 19 60, 2710 19 70, 2710 19 80 और 2710 19 90	14%
17.	2710 19 30 और 2710 19 40	14% + 5.00 रु० प्रति लीटर
18.	2711, 2712, 2713, 2714 और 2715	14%
19.	2801, 2802, 2803, 2804 (2804 40 10 टैरिफ मद के सिवाय), 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810, 2811, 2812, 2813, 2814, 2815, 2816, 2817, 2818, 2819, 2820, 2821, 2822, 2823, 2824, 2825, 2826, 2827, 2828, 2829, 2830, 2831, 2832, 2833, 2834, 2835, 2836, 2837, 2839, 2840, 2841, 2842, 2843, 2844 (2844 30 22 टैरिफ मद के सिवाय), 2845 90 90, 2846, 2847 00 00, 2848, 2849, 2850, 2852 00 00, 2853 00 10, 2853 00 20, 2853 00 40, 2853 00 91 और 2853 00 99	14%
20.	29	14%
21.	3001, 3003, 3004, 3005, 3006 10 10, 3006 10 20, 3006 20 00, 3006 30 00, 3006 40 00, 3006 50 00, 3006 70 00 और 3006 91 00	14%
22.	3102, 3103, 3104 और 3105	14%
23.	32 (3215 90 10 और 3215 90 20 टैरिफ मद के सिवाय)	14%
24.	33 (3307 41 00 टैरिफ मद के सिवाय)	14%
25.	34	14%
26.	35	14%
27.	36	14%
28.	3701, 3702, 3703, 3704 और 3707	14%
29.	38 (3824 50 10, 3825 10 00, 3825 20 00 और 3825 30 00 टैरिफ मद के सिवाय)	14%
30.	39 (3916 10 20, 3916 20 11, 3916 20 91 और 3916 90 10 टैरिफ मद के सिवाय)	14%
31.	4002, 4003 00 00, 4004 00 00, 4005, 4006, 4007, 4008 (4008 19 10, 4008 21 10 और 4008 29 20 टैरिफ मद के सिवाय), 4009, 4010, 4011, 4012 90 10, 4012 90 20, 4012 90 30, 4012 90 41, 4012 90 49, 4012 90 50, 4012 90 90, 4013, 4014 90 10, 4014 90 20, 4014 90 30, 4014 90 90, 4015, 4016 और 4017	14%
32.	42	14%

33.	43	14%
34.	4401, 4403, 4404, 4406, 4408 (4408 10 30, 4408 31 30, 4408 39 30 और 4408 90 20 टैरिफ मद के सिवाय), 4409, 4410, 4411, 4412, 4413 00 00, 4414 00 00, 4415, 4416, 4417 00 00, 4418, 4419, 4420 और 4421	14%
35.	45	14%
36.	4707	14%
37.	4802, 4803, 4804, 4805, 4806, 4807, 4808, 4809, 4810, 4811, 4812 00 00, 4813, 4814, 4816, 4818 (4818 40 10 और 4818 40 90 टैरिफ मद के सिवाय), 4819 (4819 20 10 टैरिफ मद के सिवाय), 4820, 4821, 4822 और 4823 (4823 90 11 टैरिफ मद के सिवाय)	14%
38.	4908	14%
39.	5402, 5403, 5404 (5404 90 10, 5404 90 20 और 5404 90 90 टैरिफ मद के सिवाय) और 5406	14%
40.	5501, 5502, 5503, 5504, 5505, 5506 और 5507	14%
41.	5601 22 00	14%
42.	5902 10 10 और 5902 10 90	14%
43.	64	14%
44.	65	14%
45.	66	14%
46.	6702, 6703 और 6704	14%
47.	68	14%
48.	69 (6901 00 10 टैरिफ मद के सिवाय)	14%
49.	70 (7018 10 10, 7018 10 20, 7020 00 11, 7020 00 12 और 7020 00 21 टैरिफ मद के सिवाय)	14%
50.	7101, 7103, 7104 (7104 10 00 टैरिफ मद के सिवाय), 7105, 7106 92 10, 7107 00 00, 7108, 7109 00 00, 7110, 7111 00 00, 7112, 7113, 7114, 7115, 7116, 7117 और 7118	14%
51.	72	14%
52.	73	14%
53.	74	14%
54.	75	14%
55.	76	14%
56.	78	14%
57.	79	14%
58.	80	14%
59.	81	14%

60.	82	14%
61.	83	14%
62.	8401, 8402, 8403, 8404, 8405, 8406, 8407, 8408, 8409, 8410, 8411, 8412, 8413, 8414, 8415, 8416, 8417, 8418, 8419, 8420, 8421, 8422, 8423, 8424 (8424 81 00 टैरिफ मद के सिवाय), 8425, 8426, 8427, 8428, 8429, 8430, 8431, 8434, 8435, 8438, 8439, 8440, 8441, 8442, 8443, 8444, 8445, 8446, 8447, 8448, 8449, 8450, 8451, 8452 10 11, 8452 10 19, 8452 10 21, 8452 10 29, 8452 21 10, 8452 21 20, 8452 21 90, 8452 29 00, 8453, 8454, 8455, 8456, 8457, 8458, 8459, 8460, 8461, 8462, 8463, 8464, 8465, 8466, 8467, 8468, 8469 (8469 00 30 और 8469 00 40 टैरिफ मद के सिवाय), 8470, 8471, 8472, 8473, 8474, 8475, 8476, 8477, 8478, 8479 (8479 89 92 टैरिफ मद के सिवाय), 8480, 8481, 8482, 8483, 8484, 8486 और 8487	14%
63.	85 (8523 80 20, 8548 10 10, 8548 10 20 और 8548 10 90 टैरिफ मद के सिवाय)	14%
64.	86	14%
65.	8701, 8702 10 91, 8702 10 92, 8702 10 99, 8702 90 20, 8702 90 91, 8702 90 92, 8702 90 99, 8704 10 10, 8704 21 10, 8704 21 20, 8704 21 90, 8704 22 11, 8704 22 19, 8704 22 90, 8704 23 11, 8704 23 19, 8704 23 90, 8704 31 20, 8705, 8706 00 11, 8706 00 19, 8706 00 31, 8706 00 41 और 8706 00 50	14%
66.	8706 00 29 और 8706 00 42	14% +10,000 रु प्रति सेसिस
67.	8707, 8708 और 8709	14%
68.	8710 00 00, 8711, 8712, 8714, 8715 और 8716	14%
69.	8802 (8802 60 00 टैरिफ मद के सिवाय) और 8803	14%
70.	8903, 8907 और 8908 00 00	14%
71.	9001 10 00, 9001 20 00, 9001 90 10, 9001 90 90, 9002, 9003, 9004, 9005, 9006, 9007, 9008, 9010, 9011, 9012, 9013, 9014, 9015, 9016, 9017 (9017 20 20, 9017 20 30 और 9017 20 90 टैरिफ मद के सिवाय), 9018, 9019, 9020 00 00, 9022, 9023, 9024, 9025, 9026, 9027, 9028, 9029, 9030, 9031, 9032 और 9033 00 00	14%
72.	91	14%
73.	92	14%
74.	9302 00 00, 9303, 9304 00 00, 9305, 9306 और 9307 00 00	14%
75.	94 (9405 50 10 टैरिफ मद के सिवाय)	14%

76.	95 (9504 40 00 और 9508 10 00 टैरिफ मद के सिवाय)	14%
77.	9601, 9602, 9603, 9604 00 00, 9605, 9606 10 10, 9606 10 20, 9606 30 90, 9607, 9608, 9611 00 00, 9612, 9613, 9614 00 00, 9616, 9617 और 9618 00 00	14%

[फा. सं. 334/1/2008-टीआरयू]

एस. बजाज, अवर सचिव

Notification
No.2/2008-Central Excise

New Delhi, the 1st March, 2008

G.S.R. 130(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 5A of the Central Excise Act, 1944 (1 of 1944), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts the goods falling under the Chapter, heading, sub-heading or tariff item of the First Schedule to the Central Excise Tariff Act, 1985 (5 of 1986), as are specified in column (2) of the Table below, from so much of the duty of excise leviable thereon under the said First Schedule as is in excess of the amount calculated at the rate specified in the corresponding entry in column (3) of the Table aforesaid.

Explanation. - For the purposes of this notification, the rates specified in column (3) of the said Table are *ad valorem* rates, unless otherwise specified.

Table

S. No.	Chapter or heading or sub-heading or tariff item of the First Schedule	Rate
(1)	(2)	(3)
1.	0402 91 10 and 0402 99 20	14%
2.	1107 10 00, 1107 20 00, 1108 11 00, 1108 12 00, 1108 13 00, 1108 14 00, 1108 19 10 and 1108 19 90	14%
3.	13 (except tariff item 1302 11 00)	14%
4.	1517 10 22, 1520 00 00, 1521 and 1522	14%
5.	1701 (except tariff item 1701 11 20), 1702 (except tariff item 1702 90 10) and 1704	14%
6.	18	14%
7.	1901 20 00, 1901 90 10, 1901 90 90, 1902 40 10, 1902 40 90, 1904, 1905 32 11 and 1905 32 90	14%
8.	20	14%
9.	2101 (except tariff items 2101 30 10, 2101 30 20 and 2101 30 90), 2102, 2103, 2104 and 2106 (except tariff items 2106 90 20 and 2106 90 92)	14%
10.	2201 (except tariff item 2201 90 10), 2202 (except tariff item 2202 90 10), 2207 20 00, 2209 00 10, 2209 00 20 and 2209 00 90	14%

11.	2402 10 10, 2402 10 20, 2402 90 20 and 2402 90 90	14%
12.	2503 00 10, 2515 12 20, 2515 12 90, 2523 21 00, 2523 30 00, 2523 90 10, 2523 90 20 and 2523 90 90	14%
13.	26	14%
14.	2707 and 2708	14%
15.	2710 11 11, 2710 11 12, 2710 11 13, 2710 11 19, 2710 11 20 and 2710 11 90	14% + Rs.15.00 per litre
16.	2710 19 10, 2710 19 20, 2710 19 50, 2710 19 60, 2710 19 70, 2710 19 80 and 2710 19 90	14%
17.	2710 19 30 and 2710 19 40	14% + Rs.5.00 per litre
18.	2711, 2712, 2713, 2714 and 2715	14%
19.	2801, 2802, 2803, 2804 (except tariff item 2804 40 10), 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810, 2811, 2812, 2813, 2814, 2815, 2816, 2817, 2818, 2819, 2820, 2821, 2822, 2823, 2824, 2825, 2826, 2827, 2828, 2829, 2830, 2831, 2832, 2833, 2834, 2835, 2836, 2837, 2839, 2840, 2841, 2842, 2843, 2844 (except tariff item 2844 30 22), 2845 90 90, 2846, 2847 00 00, 2848, 2849, 2850, 2852 00 00, 2853 00 10, 2853 00 20, 2853 00 40, 2853 00 91 and 2853 00 99	14%
20.	29	14%
21.	3001, 3003, 3004, 3005, 3006 10 10, 3006 10 20, 3006 20 00, 3006 30 00, 3006 40 00, 3006 50 00, 3006 70 00 and 3006 91 00	14%
22.	3102, 3103, 3104 and 3105	14%
23.	32 (except tariff items 3215 90 10 and 3215 90 20)	14%
24.	33 (except tariff item 3307 41 00)	14%
25.	34	14%
26.	35	14%
27.	36	14%
28.	3701, 3702, 3703, 3704 and 3707	14%
29.	38 (except tariff items 3824 50 10, 3825 10 00, 3825 20 00 and 3825 30 00)	14%

30.	39 (except tariff items 3916 10 20, 3916 20 11, 3916 20 91 and 3916 90 10)	14%
31.	4002, 4003 00 00, 4004 00 00, 4005, 4006, 4007, 4008 (except tariff items 4008 19 10, 4008 21 10 and 4008 29 20), 4009, 4010, 4011, 4012 90 10, 4012 90 20, 4012 90 30, 4012 90 41, 4012 90 49, 4012 90 50, 4012 90 90, 4013, 4014 90 10, 4014 90 20, 4014 90 30, 4014 90 90, 4015, 4016 and 4017	14%
32.	42	14%
33.	43	14%
34.	4401, 4403, 4404, 4406, 4408 (except tariff items 4408 10 30, 4408 31 30, 4408 39 30 and 4408 90 20), 4409, 4410, 4411, 4412, 4413 00 00, 4414 00 00, 4415, 4416, 4417 00 00, 4418, 4419, 4420 and 4421	14%
35.	45	14%
36.	4707	14%
37.	4802, 4803, 4804, 4805, 4806, 4807, 4808, 4809, 4810, 4811, 4812 00 00, 4813, 4814, 4816, 4818 (except tariff items 4818 40 10 and 4818 40 90), 4819 (except tariff item 4819 20 10), 4820, 4821, 4822 and 4823 (except tariff item 4823 90 11)	14%
38.	4908	14%
39.	5402, 5403, 5404 (except tariff items 5404 90 10, 5404 90 20 and 5404 90 90) and 5406	14%
40.	5501, 5502, 5503, 5504, 5505, 5506 and 5507	14%
41.	5601 22 00	14%
42.	5902 10 10 and 5902 10 90	14%
43.	64	14%
44.	65	14%
45.	66	14%
46.	6702, 6703 and 6704	14%
47.	68	14%

48.	69 (except tariff item 6901 00 10)	14%
49.	70 (except tariff items 7018 10 10, 7018 10 20, 7020 00 11, 7020 00 12 and 7020 00 21)	14%
50.	7101, 7103, 7104 (except tariff item 7104 10 00), 7105, 7106 92 10, 7107 00 00, 7108, 7109 00 00, 7110, 7111 00 00, 7112, 7113, 7114, 7115, 7116, 7117 and 7118	14%
51.	72	14%
52.	73	14%
53.	74	14%
54.	75	14%
55.	76	14%
56.	78	14%
57.	79	14%
58.	80	14%
59.	81	14%
60.	82	14%
61.	83	14%
62.	8401, 8402, 8403, 8404, 8405, 8406, 8407, 8408, 8409, 8410, 8411, 8412, 8413, 8414, 8415, 8416, 8417, 8418, 8419, 8420, 8421, 8422, 8423, 8424 (except tariff item 8424 81 00), 8425, 8426, 8427, 8428, 8429, 8430, 8431, 8434, 8435, 8438, 8439, 8440, 8441, 8442, 8443, 8444, 8445, 8446, 8447, 8448, 8449, 8450, 8451, 8452 10 11, 8452 10 19, 8452 10 21, 8452 10 29, 8452 21 10, 8452 21 20, 8452 21 90, 8452 29 00, 8453, 8454, 8455, 8456, 8457, 8458, 8459, 8460, 8461, 8462, 8463, 8464, 8465, 8466, 8467, 8468, 8469 (except tariff items 8469 00 30 and 8469 00 40), 8470, 8471, 8472, 8473, 8474, 8475, 8476, 8477, 8478, 8479 (except tariff item 8479 89 92), 8480, 8481, 8482, 8483, 8484, 8486 and 8487	14%
63.	85 (except tariff items 8523 80 20, 8548 10 10, 8548 10 20 and 8548 10 90)	14%
64.	86	14%

65.	8701, 8702 10 91, 8702 10 92, 8702 10 99, 8702 90 20, 8702 90 91, 8702 90 92, 8702 90 99, 8704 10 10, 8704 21 10, 8704 21 20, 8704 21 90, 8704 22 11, 8704 22 19, 8704 22 90, 8704 23 11, 8704 23 19, 8704 23 90, 8704 31 20, 8705, 8706 00 11, 8706 00 19, 8706 00 31, 8706 00 41 and 8706 00 50	14%
66.	8706 00 29 and 8706 00 42	14% + Rs.10,000 per chassis
67.	8707, 8708 and 8709	14%
68.	8710 00 00, 8711, 8712, 8714, 8715 and 8716	14%
69.	8802 (except tariff item 8802 60 00) and 8803	14%
70.	8903, 8907 and 8908 00 00	14%
71.	9001 10 00, 9001 20 00, 9001 90 10, 9001 90 90, 9002, 9003, 9004, 9005, 9006, 9007, 9008, 9010, 9011, 9012, 9013, 9014, 9015, 9016, 9017 (except tariff items 9017 20 20, 9017 20 30 and 9017 20 90), 9018, 9019, 9020 00 00, 9022, 9023, 9024, 9025, 9026, 9027, 9028, 9029, 9030, 9031, 9032 and 9033 00 00	14%
72.	91	14%
73.	92	14%
74.	9302 00 00, 9303, 9304 00 00, 9305, 9306 and 9307 00 00	14%
75.	94 (except tariff item 9405 50 10)	14%
76.	95 (except tariff items 9504 40 00 and 9508 10 00)	14%
77.	9601, 9602, 9603, 9604 00 00, 9605, 9606 10 10, 9606 10 20, 9606 30 90, 9607, 9608, 9611 00 00, 9612, 9613, 9614 00 00, 9616, 9617 and 9618 00 00	14%

[F. No. 334/1/2008-TRU]

S. BAJAJ, Under Secy.

अधिसूचना	नई दिल्ली, तारीख 1 मार्च, 2008,
सं० 3/2008- केन्द्रीय उत्पाद शुल्क	11 फाल्गुन, 1929 (शक)

सा.का.नि. 131(अ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 5क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना लोकहित में आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं० 3/2006-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 1 मार्च, 2006 को जो भारत के राजपत्र, असाधारण में, उसी तारीख को सा.का.नि. सं० 93(अ), तारीख 1 मार्च, 2006 को प्रकाशित की गई थी, निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में,—

(I) सारणी में,—

(i) क्रम सं० 17 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम सं० और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
“17क	1904 10 10, 1904 10 30, 1904 10 90, 1904 30 00 और 1904 90 00,	सभी माल	8%	-
17ख	1904 10 20,	सभी माल	कुछ नहीं	- ;”

(ii) क्रम सं० 26 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम सं० और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
“26क	2106	पूर्व मिश्रित काफी या चाय	कुछ नहीं	-
26ख	2106 90 11	सभी माल	8%	- ;”

(iii) क्रम सं० 29क के सामने स्तंभ (4) की प्रविष्टि के स्थान पर “14%” प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(iv) क्रम सं० 29क और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम सं० और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
“29ख	2106 90 20	सभी माल जिसमें 15% सुपारी से अधिक अन्तर्विष्ट न हो	8%	3 ;”

(v) क्रम सं० 30क और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम सं० और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
“30ख	2106 90 99	सरकरा या कतिपय अन्य घटकों के साथ दुग्ध अन्तर्विष्ट खाद्य गिरी	कुछ नहीं	- ;”

(vi) क्रम सं० 32 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम सं० और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
“32क	2202 90 90	मीठा नारियल पानी	कुछ नहीं	- ;”

(vii) क्रम सं० 33 के सामने स्तंभ (4) की प्रविष्टि के स्थान पर “14%” प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(viii) क्रम सं० 35 के सामने स्तंभ (4) की प्रविष्टि के स्थान पर “14%” प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(ix) क्रम सं० 40 के सामने स्तंभ (4) की प्रविष्टि के स्थान पर “14%” प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(II) उपाबंध में शर्त सं० 2 और उससे संबंधित प्रविष्टि के पश्चात् निम्नलिखित शर्तें अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

शर्त सं०	शर्त
“3.	<p>यहां अन्तर्विष्ट छूट निम्नलिखित शर्तों के अधीन उपलब्ध होगी :</p> <p>(i) यूनिट जो रियायती दर का उपयोग करती है, किसी अन्य पान मसाला (तम्बाकू सहित या उसके बिना) उसी परिसर में उत्पादन, विनिर्माण या व्यापार में नहीं लगी ;</p> <p>(ii) कोई माल जिस पर कोई ब्रांड का नाम नहीं है जो अध्याय शीर्ष 2106 90 20 या 2403 99 90 के अधीन आने वाले किसी अन्य माल के लिए उपयोग होते हैं ; और</p> <p>(iii) उत्पाद के अन्तर्विष्ट विशिष्टतः पैकिंग पर घोषित सुपारी का प्रतिशत !” ।</p>

[फा. सं. 334/1/2008-टीआरयू]

एस. बजाज, अवर सचिव

टिप्पण : मूल अधिसूचना सा.का.नि. 93(अ), तारीख 1 मार्च, 2006 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित किए गए थे और अंतिम संशोधन अधिसूचना सं. 33/2007-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 2 अगस्त, 2007 और सा.का.नि. 530(अ), तारीख 2 अगस्त, 2007 द्वारा किया गया था ।

Notification
No.3/2006-Central Excise

New Delhi, the 1st March, 2008
11 Phalgun, 1929 (Saka)

G.S.R. 131(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 5A of the Central Excise Act, 1944 (1 of 1944), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 3/2006-Central Excise, dated the 1st March, 2006 which was published in the Gazette of India, Extraordinary vide number G.S.R. 93(E) of the same date, namely:-

In the said notification,

(I) in the Table,-

- (i) after S.No. 17 and the entries relating thereto, the following S.Nos. and entries shall be inserted, namely:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"17A.	1904 10 10, 1904 10 30, 1904 10 90, 1904 30 00 and 1904 90 00	All goods	8%	-
17B.	1904 10 20	All goods	Nil	:-"

- (ii) after S.No. 26 and the entries relating thereto, the following S.Nos. and entries shall be inserted, namely:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"26A.	2106	Coffee or tea pre-mixes	Nil	-
26B.	2106 90 11	All goods	8%	"

- (iii) against S.No. 29A, for the entry in column (4), the entry "14%" shall be substituted;

- (iv) after S.No. 29A and the entries relating thereto, the following S.No. and entries shall be inserted, namely:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"29B.	2106 90 20	All goods containing not more than 15% betel nut	8%	3;"

- (v) after S.No. 30A and the entries relating thereto, the following S.No. and entries shall be inserted, namely:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"30B.	2106 90 99	Milk containing edible nuts with sugar or other ingredients	Nil	.."

(vi) after S.No. 32 and the entries relating thereto, the following S.No. and entries shall be inserted, namely:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"32A.	2202 90 90	Tender coconut water	Nil	—,"

(vii) against S.No. 33, for the entry in column (4), the entry "14%" shall be substituted;

(viii) against S.No. 35, for the entry in column (4), the entry "14%" shall be substituted;

(ix) against S.No. 40, for the entry in column (4), the entry "14%" shall be substituted;

(II) in the Annexure, after Condition No. 2, the following Condition shall be inserted, namely,-

Condition No.	Conditions
"3.	<p>The exemption contained herein shall be available subject to the following conditions, namely:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) the unit availing the concessional rate shall not engage in the production, manufacture or trading of any other pan masala (with or without tobacco) in the same premises; (ii) the goods do not bear a brand name which is used for any other goods falling under Chapter heading 2106 90 20 or 2403 99 90; and (iii) the contents of the product, particularly, the percentage of betel nut be declared on the packing."

[F. No. 334/1/2008-TRU]

S. BAJAJ, Under Secy.

Note:- The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, vide number G.S.R.93(E), dated the 1st March, 2006, and was last amended by notification No. 33/2007-Central Excise, dated the 2nd August, 2007 and published vide number G.S.R. 530(E), dated the 2nd August, 2007.

अधिसूचना	नई दिल्ली, तारीख 1 मार्च, 2008,
सं० 4/2008- केन्द्रीय उत्पाद शुल्क	11 फाल्गुन, 1929 (शक)

सा.का.नि. 132(अ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 5क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं० 4/2006-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 1 मार्च, 2006 में, जो भारत के राजपत्र, असाधारण में, उसी तारीख को सा.का.नि. सं० 94 (अ), तारीख 1 मार्च, 2006 द्वारा प्रकाशित की गई थी, निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में,—

(I) सारणी में,—

(i) क्रम सं. 1ग के सामने, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, “14% या 400 रुपए प्रति टन, इनमें से जो भी अधिक हो” प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(ii) क्रम सं० 17 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम सं० और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :—

क्रम सं.	पहली अनुसूची का अध्याय या शीर्ष या उपशीर्ष या टैरिफ मद	उत्पादशुल्क्य माल का वर्णन	दर	शर्त सं.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
“17	2710 11	मोटर स्प्रिट जो सामान्यतः पेट्रोल के रूप में जाना जाता है,— (i) बिना किसी ब्रांड नाम के विक्रय के लिए आशयित है; (ii) उससे भिन्न जो उपर्युक्त (i) में विनिर्दिष्ट है।	6.35 रु० प्रति लीटर 6 % धन 5 रु० प्रति लीटर	- -”।

(iii) क्रम सं० 19 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम सं० और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :—

क्रम सं.	पहली अनुसूची का अध्याय या शीर्ष या उपशीर्ष या टैरिफ मद	उत्पादशुल्क्य माल का वर्णन	दर	शर्त सं.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
“19	2710 19 30	उच्च गति डीजल (एचएसडी).—		

		(i) बिना किसी ब्रांड नाम के विक्रय के लिए आशयित है ;	2.60 रु0 प्रति लीटर	-
		(ii) उससे भिन्न जो उपर्युक्त (i) में विनिर्दिष्ट है ।	6 % घन 1.25 रु0 प्रति लीटर	-” ।

(iv) क्रम सं. 21 के सामने, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, “14% घन 2.50 रुपए प्रति लीटर” प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(v) क्रम सं. 23 के सामने, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, “14%” प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(vi) क्रम सं. 36 के सामने, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, “ऐसे माल के विनिर्माण में उपयोग किए गए स्वर्ण के मूल्य को अपवर्जित करते हुए गोल्ड पोटेशियम साइनाइट के मूल्य का 14%” प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(vii) क्रम सं. 46 के सामने स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, “सामग्री के मूल्य का 14% यदि कोई हो, जोड़ा गया और ऐसे विनिर्माण के लिए प्रभारित रकम” प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(viii) क्रम सं0 54 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम सं0 और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :-

क्रम सं.	पहली अनुसूची का अध्याय या शीर्ष या उपशीर्ष या टैरिफ मद	उत्पादशुल्क्य माल का वर्णन	दर	शर्त सं.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
“54क	29	मेंथोल	कुछ नहीं	-
54ख	30	मेंथोल क्रिस्टल	कुछ नहीं	-” ।

(ix) क्रम सं0 62क, 62ख और 62ग और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम सं0 और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
“62क	3001	सभी माल	8%	-
62ख	3003	मेंथॉल क्रिस्टल से भिन्न सभी माल	8%	-
62ग	3004	सभी माल	8%	-
62घ	3005	सभी माल	8%	-
62ङ	3006 (3006 60 और 3006 92 00 के सिवाय)	सभी माल	8%	-” ।

(x) क्रम सं० 68 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम सं० और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
“68क	3215 90 90	लिखतों के लेखन के लिए स्याही, जिसके अन्तर्गत मार्करों और हाइलाइटरों के लिए स्याही भी हैं	8%	—” ।

(xi) क्रम सं० 80ख और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम सं० और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
“80ग	3923 90 20	अपूतित थैले	8%	—” ।

(xii) क्रम सं० 82 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम सं० और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
“82क	4008 21	ऊष्मारोधी रबड़ तनाव पट्टी	8%	—” ।

(xiii) क्रम सं० 86 के सामने, स्तंभ (2) में प्रविष्टि के स्थान पर “ 4301 या 4302” प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xiv) क्रम सं० 86क और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम सं० और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
“86ख	4408	सभी माल	8%	—” ।

(xv) क्रम सं० 87ख और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम सं० और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
“87ग	4418 20 10	सपाट दरवाजे	8%	—” ।

(xvi) क्रम सं० 90 के सामने और स्तंभ (4) में प्रविष्टि के स्थान पर “कुछ नहीं” प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xvii) क्रम सं. 91 के सामने, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, “8%” प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xviii) क्रम सं. 93 के सामने, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, “8%” प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xix) क्रम सं० 96 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम सं० और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
“96क	4811 90 92	अपूतित पैकेजिंग कागज	8%	—” ।

(II) अनुसूची की सूची 3 में, मद (5) और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“ (6) एटाजानावीर”

[फा. सं. 334/1/2008-टीआरयू]

एस. बजाज, अवर सचिव

टिप्पण : मूल अधिसूचना सं. 4/2006-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क तारीख 1 मार्च, 2006 भारत के राजपत्र, असाधारण में सा.का.नि. 94 (अ), तारीख 1 मार्च, 2006 द्वारा प्रकाशित की गई थी और अंतिम संशोधन अधिसूचना सं. 36/2007-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 9 अक्टूबर, 2007 द्वारा किया गया था और सा.का.नि. 652 (अ), तारीख 9 अक्टूबर, 2007 द्वारा प्रकाशित किया गया था ।

Notification

No. 4/2008-Central Excise

New Delhi, the 1st March, 2008

11 Phalgun, 1929 (Saka)

G.S.R. 132(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 5A of the Central Excise Act, 1944 (1 of 1944), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 4/2006-Central Excise, dated the 1st March, 2006 which was published in the Gazette of India, Extraordinary vide number G.S.R. 94(E) of the same date, namely:—

In the said notification, -

(I) in the Table, -

(i) against S. No.1C, for the entry in column (4), the entry “14% or Rs.400 per tonne, whichever is higher” shall be substituted;

(ii) for S. No. 17 and the entries relating thereto, the following S. No. and entries shall be substituted, namely:-

S. No.	Chapter or heading or sub-heading or tariff item of the First Schedule	Description of excisable goods	Rate	Condition No.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"17.	2710 11	Motor spirit commonly known as petrol,- (i) intended for sale without a brand name; (ii) other than those specified at (i) above.	Rs. 6.35 per litre 6% plus Rs. 5.00 per litre	- -";

(iii) for S. No. 19 and the entries relating thereto, the following S. No. and entries shall be substituted, namely:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"19.	2710 19 30	High Speed Diesel (HSD),- (i) intended for sale without a brand name; (ii) other than those specified at (i) above.	Rs. 2.60 per litre 6% plus Rs. 1.25 per litre	- -";

(iv) against S. No. 21, for the entry in column (4), the entry "14% plus Rs 2.50 per litre" shall be substituted;

(v) against S. No. 23, for the entry in column (4), the entry "14%" shall be substituted;

(vi) against S. No. 36, for the entry in column (4), the entry "14% of the value of such gold potassium cyanide excluding the value of gold used in the manufacture of such goods" shall be substituted;

(vii) against S. No. 46, for the entry in column (4), the entry "14% of the value of material, if any, added and the amount charged for such manufacture" shall be substituted;

(viii) after S. No. 54 and the entries relating thereto, the following S. Nos. and entries shall be inserted, namely:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"54A.	29	Menthol	Nil	-
54B.	30	Menthol crystals	Nil	-";

(ix) for S. Nos. 62A, 62B and 62C and the entries relating thereto, the following S. Nos. and entries shall be substituted, namely:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"62A.	3001	All goods	8%	-
62B.	3003	All goods, other than menthol crystals	8%	-

62C.	3004	All goods	8%	-
62D.	3005	All goods	8%	-
62E.	3006 (except 3006 60 and 3006 92 00)	All goods	8%	"";

(x) after S. No. 68 and the entries relating thereto, the following S. No. and entries shall be inserted, namely:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"68A.	3215 90 90	Ink for writing instruments including for markers and high-lighters	8%	"";

(xi) after S. No. 80B and the entries relating thereto, the following S. No. and entries shall be inserted, namely:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"80C.	3923 90 20	Aseptic bags	8%	"";

(xii) after S. No. 82 and the entries relating thereto, the following S. No. and entries shall be inserted, namely:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"82A.	4008 21	Heat resistant rubber tension tape	8%	"";

(xiii) against S. No. 86, for the entry in column (2), the entry "4301 or 4302" shall be substituted;

(xiv) after S. No. 86A and the entries relating thereto, the following S. No. and entries shall be inserted, namely:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"86B.	4408	All goods	8%	"";

(xv) after S. No. 87B and the entries relating thereto, the following S. No. and entries shall be inserted, namely:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"87C.	4418 20 10	Flush doors	8%	"";

(xvi) against S. No 90, for the entry in column (4), the entry "Nil" shall be substituted;

(xvii) against S. No. 91, for the entry in column (4), the entry "8%" shall be substituted;

(xviii) against S. No. 93, for the entry in column (4), the entry "8%" shall be substituted;

(xix) after S. No. 96 and the entries relating thereto, the following S. No. and entries shall be inserted, namely:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"96A.	4811 90 92	Aseptic packaging paper	8%	"";

(II) in the Annexure, in LIST 3, after item (5), the following item shall be inserted, namely:-

"(6) Atazanavir".

[F. No. 334/1/2008-TRU]

S. BAJAJ, Under Secy.

Note: - The principal notification No.4/2006-Central Excise, dated the 1st March, 2006 was published in the Gazette of India, Extraordinary, vide number G.S.R.94(E), dated the 1st March, 2006, and was last amended by notification No. 36/2007-Central Excise, dated the 9th October, 2007 published vide number G.S.R. 652(E), dated the 9th October, 2007.

अधिसूचना	नई दिल्ली, तारीख 1 मार्च, 2008,
सं० 5/2008- केन्द्रीय उत्पाद शुल्क	11 फाल्गुन, 1929 (शक)

सा.का.नि. 133(अ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 5क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना लोकहित में आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं० 5/2006-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 1 मार्च, 2006 में, जो भारत के राजपत्र, असाधारण में, उसी तारीख को सा.का.नि. सं० 95 (अ), तारीख 1 मार्च, 2006 द्वारा प्रकाशित की गई थी, निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना की सारणी में,—

- क्रम सं. 15 के सामने, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, “14%” प्रविष्टि रखी जाएगी ;
- क्रम सं. 18 के सामने, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, “14%” प्रविष्टि रखी जाएगी ;
- क्रम सं. 19 के सामने, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, “14%” प्रविष्टि रखी जाएगी ;
- क्रम सं. 30 के सामने, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, “14%” प्रविष्टि रखी जाएगी ;
- क्रम सं० 31 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम सं० और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

क्रम सं.	पहली अनुसूची का अध्याय या शीर्ष या उपशीर्ष या टैरिफ मद	उत्पादशुल्क माल का वर्णन	दर	शर्त सं.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
“31क	7310 21 10 या 7310 29 10	ऊपर से खुले स्वच्छता संबंधी (ओटीएस) डिब्बे	8%	—” ।

[फा. सं. 334/1/2008-टीआरयू]

एस. बजाज, अवर सचिव

टिप्पण : मूल अधिसूचना सं. 5/2006-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तारीख 1 मार्च, 2006 भारत के राजपत्र, असाधारण में, सा.का.नि. 95 (अ), तारीख 1 मार्च, 2006 द्वारा प्रकाशित की गई थी और अंतिम संशोधन अधिसूचना सं० 28/2007-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 15 जून, 2007 किया गया था और सा.का.नि. सं० 432(अ), तारीख 5 जून, 2007 द्वारा प्रकाशित किया गया था ।

Notification
No.5/2008-Central Excise

New Delhi, the 1st March, 2008
11 Phalguna, 1929 (Saka)

G.S.R. 133(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 5A of the Central Excise Act, 1944 (1 of 1944), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 5/2006-Central Excise, dated the 1st March, 2006 which was published in the Gazette of India, Extraordinary vide number G.S.R. 95(E) of the same date, namely:-

In the said notification, in the Table,-

- (i) against S. No.15, for the entry in column (4), the entry "14%" shall be substituted;
- (ii) against S. No.18, for the entry in column (4), the entry "14%" shall be substituted;
- (iii) against S. No.19, for the entry in column (4), the entry "14%" shall be substituted;
- (iv) against S. No.30, for the entry in column (4), the entry "14%" shall be substituted;
- (v) after S. No. 31 and the entries relating thereto, the following S. No. and entries shall be inserted, namely :-

S. No.	Chapter or heading or sub-heading or tariff item of the First Schedule	Description of excisable goods	Rate	Condition No.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"31A.	7310 21 10 or 7310 29 10	Open top sanitary (OTS) cans	8%	-".

[F. No. 334/1/2008-TRU]

S. BAJAJ, Under Secy.

Note: - The principal notification No. 5/2006-Central Excise, dated the 1st March, 2006 was published in the Gazette of India, Extraordinary, vide number G.S.R.95(E), dated the 1st March, 2006, and was last amended by notification No. 28/2007-Central Excise, dated the 15th June, 2007 published vide number G.S.R.432(E), dated the 15th June, 2007.

अधिसूचना	नई दिल्ली, तारीख 1 मार्च, 2008,
सं० 6/2008- उत्पाद-शुल्क	11 फाल्गुन, 1929(शक)

सा.का.नि. 134(अ).— केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 5क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना लोकहित में आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 06/2006-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क तारीख 1 मार्च, 2006 में, जो भारत के राजपत्र, असाधारण में उसी तारीख को सा.का.नि. सं० 96(अ) द्वारा प्रकाशित की गई थी, निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में,—

(I) सारणी में,—

- (i) क्रम सं० 2 के सामने स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर “14%” प्रावेष्टि रखी जाएगी ;
- (ii) क्रम सं० 8ग और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

क्रम सं.	पहली अनुसूची का अध्याय या शीर्ष या उपशीर्ष या टैरिफ मद	उत्पाद-शुल्क्य माल का वर्णन	दर	शर्त सं.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
“8घ	8421 21	जल निष्पंदन या शुद्धिकरण उपस्कर	8%	—”;

- (iii) क्रम सं० 9 के सामने स्तंभ (4) में मद (i) और मद (ii) की प्रविष्टि के स्थान पर क्रमशः “14%” प्रावेष्टि रखी जाएगी ;

- (iv) क्रम सं० 14 के सामने स्तंभ (3) में की प्रविष्टि के स्थान पर “स्वचालित शटल करघे” प्रावेष्टि रखी जाएगी ;

- (v) क्रम सं० 17 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
“17क	8479	कंपोस्टिंग मशीनें	कुछ नहीं	—”;

- (vi) क्रम सं० 21 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित क्रम सं० और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
“21	85	रेडियो या वीडियो ग्रहण सुविधा सहित या उसके बिना एमपी 3/एमपी 4 या एमपीइजी 4 प्लेयर	8%	—”;

(vii) क्रम सं० 27 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित क्रम सं० और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
“27	8523	(क) पैकेजयुक्त साफ्टवेयर या डिब्बाबन्द साफ्टवेयर से भिन्न कोई ग्राहक उपयोगी साफ्टवेयर (अर्थात्, कोई ग्राहक के लिए डिजाइन किया गया साफ्टवेयर जो किसी विशिष्ट उपयोक्ता या ग्राहक के लिए विकसित किया गया है) (ख) पैकेजयुक्त साफ्टवेयर स्पष्टीकरण — “पैकेजयुक्त साफ्टवेयर या डिब्बाबन्द साफ्टवेयर” से कोई ऐसा साफ्टवेयर अभिप्रेत है जो विभिन्न प्रकार के उपयोक्ताओं की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विकसित किया गया है और जो परिकक्ष के दूर विक्रय के लिए आशयित है या विक्रय किए जाने के लिए सक्षम है।	कुछ नहीं 12%	- -” ;

(viii) क्रम सं० 28 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
“28क	8517	पीसीएमसीआईए या यूएसबी या पीसीआई एक्सप्रेस पोर्ट्स सहित वायरलेस डाटा माडम कार्ड्स	शून्य	-” ;

(ix) क्रम सं० 30 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;

(x) क्रम सं० 33 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
“33क	8702 10 91, 8702 10 92, 8702 10 99, 8702 90 91, 8702 90 92 और 8702 90 99	सभी माल	12%	-
33ख	8706 00 29	क्रम सं. 33क में वर्णित माल के लिए इंजनों सहित फिट की गई चेसिस	12%+10000 प्रति चेसिस	-” ;

(xi) क्रम सं० 34 के सामने, स्तंभ (4) में मद (i) और मद (ii) के सामने की प्रविष्टि के स्थान पर क्रमशः “14%” प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xii) क्रम सं० 35 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
“35क	87	बैटरी शक्ति युक्त कारों स्पष्टीकरण — इस प्रविष्टि के प्रयोजन के लिए “बैटरी शक्तियुक्त कारों” से ऐसी कार अभिप्रेत हैं जो ऐसी कारों में फिट की गई एक या अधिक विद्युत बैटरियों से व्युत्पन्न एक मात्र विद्युत उर्जा से चलती हैं ।	कुछ नहीं	-
35ख	कोई अध्याय	क्रम सं. 35क में विनिर्दिष्ट माल के विनिर्माण के लिए निम्नलिखित माल, अर्थात् :— (i) बैटरी पैक (इवी टुबूलर लीड एसिड बैट्रियां या इवी सोडियम निकिल क्लोराइड बैटरियां) (ii) एसी या डीसी मोटर नियंत्रक (100 वोल्ट से कम) (iii) डीसी मोटर (100 वोल्ट से कम) (iv) बैटरी चार्जर (v) चेसिस (vi) 3 फेज एसी इंडक्शन मोटर (100 बोल्ट से कम)	कुछ नहीं	3” ;

(xiii) क्रम सं० 36 के सामने, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर “14%” प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xiv) क्रम सं० 37 के सामने, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर “14%+10,000 रु. प्रति चेसिस” प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xv) क्रम सं० 41 के सामने, स्तंभ (3) की मद (1) और मद (2) की उप मद (ii) और उप मद (iv) के सामने स्तंभ (4) में आने वाली प्रविष्टियों के स्थान पर क्रमशः “14%” प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xvi) क्रम सं० 42 के सामने स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर “12%” प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xvii) क्रम सं० 42 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
“42क	8703	हाईब्रिड मोटर यान	14%	—” ;

स्पष्टीकरण -- इस प्रविष्टि के प्रयोजन के लिए “हाईब्रिड मोटर यान” से ऐसी कार अभिप्रेत है जिसमें बैटरी शक्ति युक्त विद्युत मोटर और आंतरिक कंबस्टन इंजन का संयोजन यान चालन गाड़ियों को शक्ति देने के लिए उपयोग में लाया जाता है ।

(xviii) क्रम सं० 43 के सामने स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर “12%” प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xix) क्रम सं० 44 के सामने, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर “14%” प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xx) क्रम सं० 45 के सामने, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर “14%+10,000 रु. प्रति चेसिस” प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xxi) क्रम सं० 46 के सामने, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर “14%” प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xxii) क्रम सं० 47 के सामने, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर “14%” प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xxiii) क्रम सं० 48 के सामने, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर “14%+10,000 रु. प्रति चेसिस” प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xxiv) क्रम सं० 51 के सामने, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर “14%+10,000 रु. प्रति चेसिस” प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xxv) क्रम सं० 52 के सामने, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर “14%” प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xvi) क्रम सं० 52 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
“52क	8711	सभी कारें	12%	—” ;

- (II) उपाबंध की सूची 4 में मद 20 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित मद और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :- “(21) प्रशीतन उपस्कर (जिसके अंतर्गत संपीडक, संग्रहण यूनिट और उद्वासन भी हैं) जिनकी दो टन प्रशीतन और 50 किलो वाट तथा उससे अधिक पावर रेटिंग की क्षमता है।”

[फा. सं. 334/1/2008-टीआरयू]

एस. बजाज, अवर सचिव

टिप्पण — मूल अधिसूचना सं० 6/2006 - केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 1 मार्च, 2006 भारत के राजपत्र, असाधारण, में सा.का.नि. संख्या 96(अ), तारीख 1 मार्च, 2006 द्वारा प्रकाशित की गई थी और उसमें अंतिम संशोधन अधिसूचना संख्या 35/2007-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 20 सितंबर, 2007 द्वारा किया गया था जो भारत के राजपत्र, असाधारण, में सा.का.नि. 610(अ), तारीख 20 सितंबर, 2007 द्वारा प्रकाशित की गई थी।

Notification

No.6/2008-Central Excise

New Delhi, the 1st March, 2008

11 Phalgun, 1929 (Saka)

G.S.R. 134(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 5A of the Central Excise Act, 1944 (1 of 1944), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 6/2006-Central Excise, dated the 1st March, 2006 which was published in the Gazette of India, Extraordinary vide number G.S.R. 96(E) of the same date, namely :-

In the said notification, -

- (I) in the Table,-
- (i) against S. No.2, for the entry in column (4), the entry “14%” shall be substituted;
- (ii) after S. No. 8C and the entries relating thereto, the following S. No. and entries shall be inserted, namely :-

S. No.	Chapter or heading or sub-heading or tariff item of the First Schedule	Description of excisable goods	Rate	Condition No.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
“8D.	8421 21	Water filtration or purification equipment	8%	—”;

- (iii) against S. No.9, for the entries occurring in column (4) against items (i) and (ii) of column (3), the entry “14%” shall respectively be substituted;
- (iv) against S. No. 14, for the entry in column (3), the entry, “Automatic shuttle looms” shall be substituted;
- (v) after S. No. 17 and the entries relating thereto, the following S. No. and entries shall be inserted, namely:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
“17A.	8479	Composting Machines	Nil	—”;

- (vi) for S. No. 21 and the entries relating thereto, the following S. No. and entries shall be substituted, namely :-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"21.	85	MP3/MP4 or MPEG 4 player, with or without radio or video reception facility	8%	—";

- (vii) for S. No. 27 and the entries relating thereto, the following S. No. and entries shall be substituted, namely :-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"27.	8523	(a) Any customized software (that is to say, any custom designed software, developed for a specific user or client), other than packaged software or canned software	Nil	-
		(b) Packaged Software <i>Explanation.</i> – The expression "packaged software or canned software" means a software developed to meet the needs of variety of users, and which is intended for sale or capable of being sold, off the shelf.	12%	—";

- (viii) after S. No. 28 and the entries relating thereto, the following S. No. and entries shall be inserted, namely :-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"28A.	8517	Wireless data modem cards with PCMCIA or USB or PCI express ports	Nil	—";

- (ix) S. No. 30 and the entries relating thereto shall be omitted;

- (x) after S. No. 33 and the entries relating thereto, the following S. Nos. and entries shall be inserted, namely :-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"33A.	8702 10 91, 8702 10 92, 8702 10 99, 8702 90 91, 8702 90 92 and 8702 90 99	All goods	12%	-
33B.	8706 00 29	Chassis fitted with engines, for the goods mentioned at S. No. 33A	12% + Rs.10,000 per chassis	—";

- (xi) against S. No.34, for the entries occurring in column (4) against items (i) and (ii) of column (3), the entry "14%" shall respectively be substituted;

- (xii) after S. No. 35 and the entries relating thereto, the following S. Nos. and entries shall be inserted, namely :-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"35A.	87	Battery powered car <i>Explanation.</i> — For the purposes of this entry, "battery powered car" means a car which runs solely on electrical energy derived from one or more electrical batteries fitted to such car.	Nil	-
35B.	Any Chapter	The following goods for manufacture of goods specified at S. No. 35A, namely :- (i) Battery Pack (EV Tubular Lead Acid Batteries or EV Sodium Nickel Chloride Batteries) (ii) AC or DC Motor Controller (Less than 100V) (iii) DC Motor (Less than 100V) (iv) Battery Charger (v) Chassis (vi) 3-Phase AC Induction Motor (Less than 100V)	Nil	3";

- (xiii) against S. No.36, for the entry in column (4), the entry "14%" shall be substituted;
- (xiv) against S. No.37, for the entry in column (4), the entry "14% + Rs.10,000 per chassis" shall be substituted;
- (xv) against S. No.41, for the entries occurring in column (4) against sub-items (ii) and (iv) of item (1) and item (2) of column 3, the entry "14%" shall respectively be substituted;
- (xvi) against S. No.42, for the entry in column (4), the entry "12%" shall be substituted;
- (xvii) after S. No. 42 and the entries relating thereto, the following S.No. and entries shall be inserted, namely :-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"42A.	8703	Hybrid motor vehicles	14%	-";

Explanation.— For the purposes of this entry, "hybrid motor vehicles" means a motor vehicle, which uses a combination of battery powered electric motor and an internal combustion engine to power the vehicle drive trains.

- (xviii) against S. No.43, for the entry in column (4), the entry "12%" shall be substituted;
- (xix) against S. No.44, for the entry in column (4), the entry "14%" shall be substituted;
- (xx) against S. No.45, for the entry in column (4), the entry "14% + Rs.10,000 per chassis" shall be substituted;
- (xxi) against S. No.46, for the entry in column (4), the entry "14%" shall be substituted;
- (xxii) against S. No.47, for the entry in column (4), the entry "14%" shall be substituted;
- (xxiii) against S. No.48, for the entry in column (4), the entry "14% + Rs.10,000 per chassis" shall be substituted;
- (xxiv) against S. No.51, for the entry in column (4), the entry "14% + Rs.10,000 per chassis" shall be substituted;
- (xxv) against S. No.52, for the entry in column (4), the entry "14%" shall be substituted;
- (xxvi) after S. No. 52 and the entries relating thereto, the following S. No. and entries shall be inserted, namely :-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"52A.	8711	All goods	12%	—";

- (II) In the Annexure, in List 4, after item (20), the following item shall be inserted, namely:-

"(21) Refrigeration equipment (including compressor, condensing units and evaporator) having capacity of 2 Tonne Refrigeration and power rating 50 KW and above."

[F. No. 334/1/2008-TRU]

S. BAJAJ, Under Secy.

Note: The principal notification No.6/2006-Central Excise dated the 1st March, 2006, was published in the Gazette of India, Extraordinary, vide number G.S.R. 96(E), dated the 1st March, 2006 and was last amended vide notification No. 35/2007-Central Excise, dated the 20th September, 2007, which was published in the Gazette of India, Extraordinary, vide number G.S.R. 610(E), dated the 20th September, 2007.

अधिसूचना

सं० 7/2008-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

नई दिल्ली, तारीख 1 मार्च, 2008.

11 फाल्गुन, 1929 (शक)

सा.का.नि. 135(अ).—केन्द्रीय सरकार, अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क (विशेष महत्व का माल) अधिनियम, 1957 (1957 का 58) की धारा 3 की उपधारा (3) के साथ पठित केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 5क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 64/95-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 16 मार्च, 1995 में, जो भारत के राजपत्र, असाधारण में उसी तारीख को सा.का.नि. 256(अ) द्वारा प्रकाशित की गई थी, निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना की सारणी में क्रम सं० 7 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां रखी जाएगी, अर्थात् :-

क्रम सं.	माल का वर्णन	शर्तें
(1)	(2)	(3)
“7	लांच यानों की प्रणालियों और उप-प्रणालियों सहित और उपग्रह परियोजनाओं के लिए संघटक, कच्ची सामग्री, औजार, स्नेहक और नोदक; वैज्ञानिक और तकनीकी उपकरण, साधित्र, उपस्कर (जिसके अन्तर्गत कंप्यूटर भी हैं); जिसके अन्तर्गत उनके उपसाधन, पुर्जे और अतिरिक्त पुर्जे, संघटक और कच्ची सामग्री भी हैं” ।	यदि- (i) भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन या भारत सरकार के अंतरिक्ष विभाग की किसी लांच यान परियोजना या किसी उपग्रह परियोजना में उपयोग के लिए है ; और (ii) उक्त माल की निकासी से पूर्व विनिर्माता उत्पादन करता है, उक्त माल के वर्णन और क्वालिटी को देते हुए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन में किसी सहायक वैज्ञानिक सचिव की पंक्ति से अन्यून के किसी अधिकारी से एक प्रमाण पत्र जिसके लिए, इस अधिसूचना के अधीन छूट का दावा किया जाता है और यह प्रमाणित करते हुए कि उक्त माल उपरोक्त वर्णित किसी परियोजना में उपयोग के लिए आशयित है ।”

[फा. सं. 334/1/2008-टीआरयू]

एस. बजाज, अवर सचिव

टिप्पण : मूल अधिसूचना सं. 64/95 केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 16 मार्च, 1995, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2 खंड 3 उपखंड (i) में सा.का.नि.सं 256(अ), तारीख 16 मार्च, 1995 द्वारा प्रकाशित की गई थी और उसमें अंतिम संशोधन अधिसूचना सं. 37/2007-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 1 नवंबर, 2007 द्वारा किया गया जो सा.का.नि. सं. 691(अ), तारीख 1 नवंबर, 2007 द्वारा प्रकाशित की गई थी ।

Notification
No.7/2008-Central Excise

New Delhi, the 1st March, 2008
11 Phalgun, 1929 (Saka)

G.S.R. 135(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 5A of the Central Excise Act 1944 (1 of 1944) read with sub-section (3) of section 3 of the Additional Duties of Excise (Goods of Special Importance) Act, 1957 (58 of 1957), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No.64/95-Central Excise, dated the 16th March, 1995 which was published in the Gazette of India, Extraordinary, vide number G.S.R.256(E), of the same date, namely:-

In the said notification, in the Table, for S.No.7, and the entries relating thereto, the following S.No. and entries shall be substituted, namely:-

S.No.	Description of goods	Conditions
(1)	(2)	(3)
"7.	Components, raw materials, tools, lubricants and propellants for and including systems and sub-systems of launch vehicles and satellite projects; scientific and technical instruments, apparatus, equipments (including computers); including their accessories, parts, spare parts, components and raw materials	If,- (i) meant for use in a launch vehicle project or a satellite project of the Indian Space Research Organisation or the Government of India, Department of Space; and (ii) the manufacturer produces, before the clearances of the said goods, a certificate from an officer not below the rank of an Assistant Scientific Secretary in the Indian Space Research Organisation giving the description and quantity of each type of the said goods for which the exemption under this notification is claimed and certifying that the said goods are intended for use in a project mentioned above."

[F. No. 334/1/2008-TRU]

S. BAJAJ, Under Secy.

Note: - The principal notification No.64/95-Central Excise, dated the 16th March, 1995 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (i), vide number G.S.R. 256(E), dated the 16th March, 1995 and was last amended vide notification No.37/2007-Central Excise, dated the 1st November, 2007 which was published vide number G.S.R. 691 (E), dated the 1st November, 2007.

अधिसूचना

सं० 8/2008-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

नई दिल्ली, तारीख 1 मार्च, 2008.

11 फाल्गुन, 1929 (शक)

सा.का.नि. 136(अ).— केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 5क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं० 8/2003-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 1 मार्च, 2003 में, जो भारत के राजपत्र, असाधारण में सा०का०नि० सं० 138(अ), तारीख 1 मार्च, 2003 द्वारा प्रकाशित की गई थी, निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

1. उक्त अधिसूचना में, —

- (i) पैरा 3 में, उपपैरा (घ) और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;
- (ii) पैरा 3क में, उपपैरा (घ) और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;
- (iii) उपाबंध में, क्रम सं. (xxiv) और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :—
“(xxiv) उक्त पहली अनुसूची के अध्याय 39 के अधीन आने वाले सभी माल (पॉलीयूरिथेन फोम और पॉलीयूरिथेन फोम की वस्तुओं से भिन्न;)”

2. ये अधिसूचना 1 अप्रैल, 2008 को प्रभावी होगी ।

[फा. सं. 334/1/2008-टीआरयू]

एस. बजाज, अवर सचिव

टिप्पण : मूल अधिसूचना सं. 8/2003-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 1 मार्च, 2003 भारत के राजपत्र, असाधारण में सा.का.नि.सं. 138(अ), तारीख 1 मार्च, 2003 द्वारा प्रकाशित की गई थी और उसमें अंतिम संशोधन अधिसूचना सं. 8/2007-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क तारीख 1 मार्च, 2007 द्वारा किया गया था जो सा.का.नि.सं. 137(अ), तारीख 1 मार्च, 2007 द्वारा प्रकाशित की गई थी ।

Notification

No.8/2008-Central Excise

New Delhi, the 1st March, 2008

11 Phalguna, 1929 (Saka)

G.S.R. 136(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 5A of the Central Excise Act, 1944 (1 of 1944), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 8/2003-Central Excise, dated the 1st March, 2003 which was published in the Gazette of India, Extraordinary, vide number G.S.R.138 (E), of the same date, namely: -

1. In the said notification,
 - (i) in paragraph 3, sub-paragraph (d) and the entries relating thereto shall be omitted;
 - (ii) in paragraph 3A, sub-paragraph (d) and the entries relating thereto shall be omitted;
 - (iii) in the ANNEXURE, for S. No. (xxiv) and the entries relating thereto, the following S.No. and entries shall be substituted, namely:-

“(xxiv) all goods falling under Chapter 39 (other than polyurethane foam and articles of polyurethane foam) of the said First Schedule;”.

2. This notification shall come into force on the 1st day of April, 2008.

[F. No. 334/1/2008-TRU]

S. BAJAJ, Under Secy.

Note:- The principal notification No.8/2003-Central Excise, dated the 1st March, 2003 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (i), vide number G.S.R. 138(E), dated the 1st March, 2003 and was last amended vide notification No.8/2007- Central Excise, dated the 1st March, 2007 which was published vide number G.S.R. 137 (E), dated the 1st March, 2007.

अधिसूचना	नई दिल्ली, तारीख 1 मार्च, 2008,
सं० 9/2008- केन्द्रीय उत्पाद शुल्क	11 फाल्गुन, 1929 (शक)

सा.का.नि. 137(अ).— केन्द्रीय सरकार, वित्त अधिनियम, 2001 (2001 का 14) की धारा 136 की उपधारा (3) के साथ पठित केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 5क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना लोकहित में आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 21/2005-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क तारीख 13 मई, 2005 में, जो भारत के राजपत्र, असाधारण में सा.का.नि. संख्यांक 294(अ) द्वारा प्रकाशित की गई थी, निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना की सारणी में, क्रम सं 8 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

क्रम सं.	शीर्ष या उपशीर्ष या टैरिफ मद	माल का वर्णन
(1)	(2)	(3)
“9	2106 90 20	15% से अनधिक सुपाड़ी वाला सभी माल निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगा, अर्थात् :—
		(i) रियायती दरों का उपयोग करने वाली इकाई, उपर्युक्त माल का अनन्य रूप से विनिर्माण करेगी और उसी परिसर में किसी अन्य पान मसाला (तंबाकू सहित या उसके बिना) का उत्पादन, विनिर्माण या व्यापार में नहीं लगेगी ;

- (ii) माल का कोई ऐसा ब्रांड नाम नहीं है जिसका अध्याय शीर्ष 2106 90 20 या 2403 99 90 के अंतर्गत आने वाले किसी अन्य माल के लिए उपयोग किया जाता है ; और
- (iii) उत्पाद की अंतर्वस्तुओं का, विशेषकर सुपाड़ी की प्रतिशतता को पैकिंग पर घोषित किया जाएगा ।”

[फा. सं. 334/1/2008-टीआरयू]

एस. बजाज, अवर सचिव

टिप्पण — मूल अधिसूचना सं. 21/20055 - केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 13 मई, 2005 भारत के राजपत्र, असाधारण में सा.का.नि. सं० 294(अ), तारीख 13 मई, 2005 द्वारा प्रकाशित की गई थी ।

Notification
No.9/2008-Central Excise

New Delhi, the 1st March, 2008
11 Phalguna, 1929 (Saka)

G.S.R. 137(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 5A of the Central Excise Act, 1944 (1 of 1944) read with sub-section (3) of section 136 of the Finance Act, 2001 (14 of 2001), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 21/2005-Central Excise, dated the 13th May, 2005 which was published in the Gazette of India, Extraordinary, vide number G.S.R. 294(E) of the same date, namely:-

In the said notification, in the Table, after S.No. 8 and the entries relating thereto, the following S.No. and entries shall be inserted, namely:-

S.No.	Heading or sub-heading or tariff item	Description of goods
(1)	(2)	(3)
“9	2106 90 20	All goods containing not more than 15% betel nut, subject to the following conditions, namely:- (i) the unit availing the concessional rate shall exclusively manufacture the aforesaid goods and shall not engage in the production, manufacture or trading of any other pan masala (with or without tobacco) in the same premises; (ii) the goods do not bear a brand name which is used for any other goods falling under tariff item 2106 90 20 or 2403 99 90; and (iii) the contents of the product, particularly, the percentage of betel nut be declared on the packing.”

[F. No. 334/1/2008-TRU]

S. BAJAJ, Under Secy.

Note:- The principal notification No. 21/2005-Central Excise, dated the 13th May, 2005 was published in the Gazette of India, Extraordinary, vide number G.S.R. 294 (E), dated the 13th May, 2005.

अधिसूचना

नई दिल्ली, तारीख 1 मार्च, 2008.

सं० 10/2008-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

11 फाल्गुन, 1929 (शक)

सा.का.नि. 138(अ) — केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 5क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के तत्कालीन वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं० 23/2003-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 31 मार्च, 2003 में, जो भारत के राजपत्र, असाधारण में उसी तारीख को सा०का०नि० 266(अ), द्वारा प्रकाशित की गई थी, निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना की, सारणी में,—

(i) क्रम सं० 2 के सामने स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :—

“उस रकम से अधिक है, जो उसी प्रकार के माल पर उद्ग्रहणीय कुल सीमा-शुल्क के बराबर है, मानो,—

(क) प्रवृत्त किसी अन्य किसी अधिसूचना के साथ पठित सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट सीमा-शुल्क में पचास प्रतिशत तक कटौती की गई थी, और

(ख) उक्त सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (5) के अधीन कोई अतिरिक्त सीमा-शुल्क उद्ग्रहणीय नहीं था :

परन्तु यह कि कुल सीमाशुल्क की संगणना करते समय, उक्त सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (5) के अधीन उद्ग्रहणीय अतिरिक्त सीमाशुल्क को सम्मिलित किया जाएगा, यदि घरेलू टैरिफ क्षेत्र में निकासी किए गए माल विक्रय कर या मूल्य वर्धित कर के संदाय से छूट प्राप्त हैं ।

दृष्टांत - सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 14 के अधीन उत्पाद X का मूल्य 100 रुपए मानते हुए, और इस दृष्टांत के प्रयोजन के लिए केवल मूल्यानुसार 10 प्रतिशत का मूल सीमाशुल्क, मूल्यानुसार 20 प्रतिशत का अतिरिक्त शुल्क प्रभार्य है, तो संदत्त किए जाने के लिए अपेक्षित शुल्क की संगणना निम्न प्रकार से होगी :—

मूल सीमाशुल्क यदि यह छूट न होती = 10 रुपए

मूल सीमाशुल्क इस छूट के कारण = 5 रुपए

अतिरिक्त शुल्क की संगणना के प्रयोजन के लिए मूल्य = 100 रु० + 5 रु० = 105 रु०

अतिरिक्त शुल्क = 105 रु० का 20 % = 21 रु०

इस छूट के पश्चात् संदेय कुल शुल्क = 5 रु० + 21 रु० = 26 रु०”

[फा. सं. 334/1/2008-टीआरयू]

एस. बजाज, अवर सचिव

टिप्पण : मूल अधिसूचना भारत के असाधारण राजपत्र में सा.का.नि.सं. 266(अ), तारीख 31 मार्च, 2003 द्वारा प्रकाशित की गई थी और उसमें अंतिम संशोधन अधिसूचना सं. 29/2007-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क तारीख 6 जुलाई, 2007 द्वारा किया गया था और सा.का.नि.सं. 474(अ), तारीख 6 जुलाई, 2007 द्वारा प्रकाशित किया गया था।

Notification
No.10/2008-Central Excise

New Delhi, the 1st March, 2008
11 Phalgun, 1929 (Saka)

G.S.R. 138(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 5A of the Central Excise Act, 1944 (1 of 1944), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Finance and Company Affairs (Department of Revenue), No. 23/2003-Central Excise, dated the 31st March, 2003, published in the Gazette of India, Extraordinary, vide number G.S.R. 266(E), of the same date, namely:-

In the said notification, in the Table, -

- (i) against Sr. No. 2, in column (4), for the entry, the following entry shall be substituted, namely:-

“In excess of the amount equal to the aggregate of duties of customs leviable on like goods, as if,-

- (a) the duty of customs specified in the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), read with any other notification in force was reduced by 50%, and
- (b) no additional duty of customs was leviable under sub-section (5) of section 3 of the said Customs Tariff Act:

Provided that while calculating the aggregate of customs duties, additional duty of customs leviable under sub-section (5) of section 3 of the said Customs Tariff Act shall be included if the goods cleared into Domestic Tariff Area are exempt from payment of sales tax or value added tax.

Illustration: - Assuming product X has the value Rs. 100/- under section 14 of the Customs Act, 1962, and for the purposes of this illustration, is chargeable to basic customs duty of 10% *ad valorem* and additional duty of 20% *ad valorem* only, then the computation of duty required to be paid would be as follows:

Basic Customs duty but for this exemption= Rs. 10/-
Basic Customs duty because of this exemption= Rs. 5/-

Value for the purposes of calculation of additional duty = Rs. 100/- + Rs. 5/- = Rs. 105/-

Additional duty = 20% of Rs. 105/- = Rs. 21/-.

Total duty payable after this exemption = Rs. 5/- + Rs. 21/- = Rs. 26/-.

[F. No. 334/1/2008-TRU]

S. BAJAJ, Under Secy.

Note: - The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, vide number G.S.R. 266(E), dated the 31st March, 2003, and was last amended by notification No. 29/2007-Central Excise, dated the 6th July, 2007 and published vide number G.S.R. 474(E), dated the, 6th July, 2007.

अधिसूचना

सं० 11/ 2008-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

नई दिल्ली, तारीख 1 मार्च, 2008.

11 फाल्गुन, 1929 (शक)

सा.का.नि. 139(अ).— केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 5क का उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं० 49/2003-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 10 जून, 2003 में, जो भारत के राजपत्र, असाधारण में 2003 की उसी तारीख को, सा०का०नि० 471(अ), द्वारा प्रकाशित की गई थी, निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना की सारणी में, क्रम सं. 13 के सामने, स्तंभ (3) में विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर “8471 या 8443 32 (8443 32 60 और 8443 32 90 के सिवाय) या 8528 41 00 या 8528 51 00” प्रविष्टियां रखी जाएंगी।

[फा. सं. 334/1/2008-टीआरयू]

एस. बजाज, अवर सचिव

टिप्पण : मूल अधिसूचना सं. 49/2003-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 10 जून, 2003 भारत के राजपत्र, असाधारण में सा.का.नि.सं. 471(अ), तारीख 10 जून, 2003 द्वारा प्रकाशित की गई थी और उसमें अंतिम संशोधन अधिसूचना सं. 01/2008-सीमा-शुल्क तारीख 18 जनवरी, 2008 द्वारा किया गया था, जो सा.का.नि.सं. 42 (अ), तारीख 18 जनवरी, 2008 द्वारा प्रकाशित की गई थी।

Notification
No.11/2008-Central Excise

New Delhi, the 1st March, 2008
11 Phalguna, 1929 (Saka)

^{नं}
G.S.R. 139(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 5A of the Central Excise Act, 1944 (1 of 1944), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 49/2003-Central Excise, dated the 10th June, 2003 which was published in the Gazette of India, Extraordinary, vide number G.S.R. 471(E), of the same date, 2003, namely :-

In the said notification, in the Schedule, against S. No. 13, for the existing entry in column (3), the entries "8471 or 8443 32 (except 8443 32 60 and 8443 32 90) or 8528 41 00 or 8528 51 00" shall be substituted.

[F. No. 334/1/2008-TRU]

S. BAJAJ, Under Secy.

Note:-The principal notification No.49/2003-Central Excise dated the 10th June, 2003, was published in the Gazette of India, Extraordinary, vide number G.S.R. 471(E), dated the 10th June, 2003 and was last amended vide notification No.01/2008- Central Excise, dated the 18th January, 2008 which was published vide number G.S.R. 42(E), dated the 18th January, 2008.

अधिसूचना

सं० 12/ 2008-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

नई दिल्ली, तारीख 1 मार्च, 2008.

11 फाल्गुन, 1929 (शक)

सा.का.नि. 140(अ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 5क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं० 49/2006-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 30 दिसम्बर, 2006 में, जो भारत के राजपत्र, असाधारण में उसी तारीख को सा०का०नि० 805(अ), द्वारा प्रकाशित की गई थी, निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना की सारणी में, क्रम सं. 3 और स्तंभ (4) की प्रविष्टि के स्थान पर "12%" प्रविष्टि रखी जाएगी ।

[फा. सं. 334/1/2008-टीआरयू]

एस. बजाज, अवर सचिव

टिप्पण : मूल अधिसूचना सं. 49/2006 केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तारीख 30 दिसंबर, 2006 भारत के राजपत्र, असाधारण, सा.का.नि.सं. 805 (अ), तारीख 30 दिसंबर, 2006 द्वारा प्रकाशित की गई थी ।

Notification
No.12/2008-Central Excise

New Delhi, the 1st March, 2008
11 Phalgun, 1929 (Saka)

G.S.R. 140(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 5A of the Central Excise Act, 1944 (1 of 1944), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 49/2006-Central Excise, dated the 30th December, 2006 which was published in the Gazette of India, Extraordinary, vide number G.S.R. 805(E), of the same date, namely :-

In the said notification, in the Table, against S. No. 3, for the entry in column (4), the entry "12%" shall be substituted.

[F. No. 334/1/2008-TRU]

S. BAJAJ, Under Secy.

Note: The principal notification No.49/2006-Central Excise dated the 30th December, 2006, was published in the Gazette of India, Extraordinary, vide number G.S.R. 805(E), dated the 30th December, 2006.

अधिसूचना

सं० 13/ 2008-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

नई दिल्ली, तारीख 1 मार्च, 2008.

11 फाल्गुन, 1929 (शक)

सा.का.नि. 141(अ).—केन्द्रीय सरकार, अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क (विशेष महत्व का माल) अधिनियम, 1957 (1957 का 58) की धारा 3 की उपधारा (3) के साथ पठित केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 5क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं० 108/95-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 28 अगस्त, 1995 में, जो भारत के राजपत्र, असाधारण में उसी तारीख को सा०का०नि० 602(अ) द्वारा प्रकाशित की गई थी, निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना में, स्पष्टीकरण को उसके स्पष्टीकरण 1 के रूप में संख्यांकित किया जाएगा और इस प्रकार संख्यांकित स्पष्टीकरण 1 के पश्चात् निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

‘स्पष्टीकरण 2 - शंकाओं को दूर करने के लिए यह स्पष्ट किया जाता है कि इस अधिसूचना के अधीन फायदा, संयुक्त राष्ट्र या किसी अन्तरराष्ट्रीय संगठन द्वारा वित्तपोषित परियोजनाओं को प्रदाय किए गए माल की दशा में तब उपलब्ध है, जब परियोजना में लाए गए माल को, प्रदायकर्ता या ठेकेदार द्वारा वापस नहीं लिया जाता है और “माल, परियोजना के निष्पादन के लिए अपेक्षित है” पद का तदनुसार अर्थ लगाया जाएगा ।’

[फा. सं. 334/1/2008-टीआरयू]

एस. बजाज, अवर सचिव

टिप्पण -- मूल अधिसूचना 108/95 -केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 28 अगस्त, 1995 भारत के राजपत्र, असाधारण में, सा.का.नि. सं० 602(अ), 28 अगस्त, 1995 द्वारा प्रकाशित की गई थी और उसमें अंतिम संशोधन अधिसूचना सं० 50/2001- केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 12 अक्टूबर, 2001 द्वारा किया गया था, जो सा.का.नि. सं० 776(अ), तारीख 12 अक्टूबर, 2001 द्वारा प्रकाशित की गई थी ।

Notification
No.13/2008-Central Excise

New Delhi, the 1st March, 2008
11 Phalgun, 1929 (Saka)

G.S.R. 141(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 5A of the Central Excise Act, 1944 (1 of 1944), read with sub-section (3) of section 3 of the Additional Duties of Excise (Goods of Special Importance) Act, 1957 (58 of 1957), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 108/95-Central Excise, dated the 28th August, 1995 which was published in the Gazette of India, Extraordinary, vide number G.S.R.602 (E), of the same date, namely: -

In the said notification, the *Explanation* shall be numbered as *Explanation 1* thereof, and after *Explanation 1*, as so numbered, the following *Explanation* shall be inserted, namely:-

'Explanation 2.-For the removal of doubts, it is hereby clarified that the benefit under this notification, in the case of goods supplied to the projects financed by the United Nations or an international organisation, is available when the goods brought into the project are not withdrawn by the supplier or contractor and the expression "goods are required for the execution of the project" shall be construed accordingly.'

[F.No. 334/1/2008-TRU]

S. BAJAJ, Under Secy.

Note:- The principal notification No.108/95-Central Excise, dated the 28th August, 1995 was published in the Gazette of India, Extraordinary, vide number G.S.R. 602 (E), dated the 28th August, 1995 and was last amended vide notification No.50/2001- Central Excise, dated the 12th October, 2001 published vide number G.S.R. 776 (E), dated the 12th October, 2001.

अधिसूचना

सं० 14/ 2008-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

नई दिल्ली, तारीख 1 मार्च, 2008.

11 फाल्गुन, 1929 (शक)

सा.का.नि. 142(अ).—केन्द्रीय सरकार, वित्त अधिनियम, 2001 (2001 का 14) की धारा 136 की उपधारा (3) के साथ पठित केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 5क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है, नीचे सारणी के स्तंभ (3) में विनिर्दिष्ट और केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1985 (1986 का 5) की पहली अनुसूची के शीर्ष, उपशीर्ष या टैरिफ मद के अन्तर्गत आने वाले माल को, जो उक्त सारणी के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट है, उक्त वित्त अधिनियम की धारा 136 की उपधारा (1) के अधीन उद्ग्रहणीय समस्त राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता शुल्क से छूट देती है :-

सारणी

क्रम सं०	पहली अनुसूची का शीर्ष या उपशीर्ष या टैरिफ मद	माल का वर्णन
(1)	(2)	(3)
1	5402 20	सभी माल
2	5402 33 00	सभी माल
3	5402 46 00	सभी माल
4	5402 47 00	सभी माल
5	5402 52 00	सभी माल
6	5402 62 00	सभी माल
7	5406	पालिस्टर का संश्लिष्ट फिलामेंट सूत

[फा. सं. 334/1/2008-टीआरयू]

एस. बजाज, अवर सचिव

Notification

No.14/2008-Central Excise

New Delhi, the 1st March, 2008

11 Phalguna, 1929 (Saka)

G.S.R. 142(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 5A of the Central Excise Act, 1944 (1 of 1944) read with sub-section (3) of section 136 of the Finance Act, 2001 (14 of 2001), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts goods specified in column (3) of the Table below and falling within the heading, sub-heading or tariff item of the First Schedule to the Central Excise Tariff Act, 1985 (5 of 1986) as specified in the column (2) of the said Table, from the whole of the National Calamity Contingent duty leviable under sub-section (1) of section 136 of the said Finance Act:

Table

S. No.	Heading or sub-heading or tariff item of the First Schedule	Description of goods
(1)	(2)	(3)
1	5402 20	All goods
2	5402 33 00	All goods
3	5402 46 00	All goods
4	5402 47 00	All goods
5	5402 52 00	All goods
6	5402 62 00	All goods
7	5406	Synthetic filament yarn of polyester.

[F.No. 334/1/2008-TRU]

S. BAJAJ, Under Secy.

अधिसूचना

सं० 10/2008-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क(एन.टी.)

नई दिल्ली, तारीख 1 मार्च, 2008.

11 फाल्गुन 1929 (शक)

सा.का.नि. 143(अ).—केन्द्रीय सरकार, वित्त अधिनियम, 1994 (1994 का 32) की धारा 94 केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 37 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय मूल्य वर्धित कर प्रत्यय नियम, 2004 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय मूल्य वर्धित कर प्रत्यय (संशोधन) नियम, 2008 है ।
- (2) ये, इन नियमों में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, 1 अप्रैल, 2008 से प्रवृत्त होंगे ।
2. केन्द्रीय मूल्य वर्धित कर प्रत्यय नियम, 2004 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 2 में,—
 - (i) खंड (ठ) में, “हटाए जाने के स्थान से अंतिम उत्पादों की निकासी” शब्दों के स्थान पर, “हटाए जाने के स्थान तक अंतिम उत्पादों की निकासी” शब्द रखे जाएंगे ;
 - (ii) खंड (त) में, “कराधेय सेवा प्रदाता द्वारा, यथास्थिति, किसी उपभोक्ता, ग्राहक, अभिदायकर्ता, पालिसी धारक या किसी अन्य व्यक्ति को प्रदान की गई कोई कराधेय सेवा” शब्दों के स्थान पर “कराधेय सेवा के प्रदाता द्वारा, वित्त अधिनियम की धारा 65 के खंड 105 के उपखंड (ययत) में निर्दिष्ट कराधेय सेवा को अपवर्जित करते हुए, यथास्थिति किसी उपभोक्ता, ग्राहक, अभिदायकर्ता, पालिसी धारक या किसी अन्य व्यक्ति को प्रदान की गई कोई कराधेय सेवा” शब्द, अंक, कोष्ठक और अक्षर 1 मार्च, 2008 से रखे जाएंगे ;
3. उक्त नियमों के नियम 3 में,—
 - (i) उप नियम (4) में, तीसरे परन्तुक के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक 1 मार्च, 2008 से अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“परंतु यह और भी कि उपनियम (1) में विनिर्दिष्ट किसी शुल्क का केन्द्रीय मूलवर्धित कर प्रत्यय का उसकी मद (v) में राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता शुल्क के सिवाय, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क टैरिफ की पहली अनुसूची की क्रमशः टैरिफ मद 8517 12 10 और 8517 12 90 के अन्तर्गत आने वाले माल पर उक्त राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता शुल्क के संदाय के लिए उपयोग नहीं किया जाएगा :”।

(ii) उपनियम (5) में,—

(क) पहले परन्तुक में, “जहां कोई निवेश हो” शब्दों के पश्चात् “या पूंजी माल” शब्द अन्तःस्थापित किए जाएंगे ;

(ख) दूसरे परन्तुक का लोप किया जाएगा ।

4. उक्त नियमों को नियम 6 में,—

(क) उप नियम (1) में, “छूट प्राप्त माल या छूट प्राप्त सेवाओं” शब्दों के स्थान पर, “छूट प्राप्त माल या छूट प्राप्त सेवाओं के उपबंध के लिए” शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) उप नियम (3) के स्थान पर निम्नलिखित उप नियम रखे जाएंगे, अर्थात् :—

‘(3) उपनियम (1) और उपनियम (2) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, माल का विनिर्माणकर्ता या निर्गम सेवा का प्रदाता जो पृथक् लेखा रखने का विकल्प नहीं रखता है, उसको लागू निम्नलिखित विकल्पों में से किसी विकल्प का अनुपालन करेगा, अर्थात् :—

(i) माल विनिर्माणकर्ता छूट प्राप्त माल के दस प्रतिशत मूल्य के बराबर किसी रकम का संदाय करेगा और निर्गम सेवा का प्रदाता, छूट प्राप्त सेवाओं के आठ प्रतिशत के बराबर किसी रकम का संदाय करेगा ;

(ii) माल का विनिर्माणकर्ता या निर्गम सेवा का प्रदाता, उपनियम (3क) में विनिर्दिष्ट शर्तों और प्रक्रिया के अधीन रहते हुए छूट प्राप्त माल के विनिर्माण या छूट प्राप्त सेवाओं के उपबंध के लिए उसमें निवेश किए गए और उपयोग की गई सेवा के निवेश के परिणामस्वरूप या उसके संबंध में केन्द्रीय मूल्यवर्धित कर प्रत्यय के समतुल्य किसी रकम का संदाय करेगा ।

स्पष्टीकरण 1—यदि माल का विनिर्माणकर्ता या निर्गम सेवा का प्रदाता, इस उपनियम के अधीन किसी विकल्प का उपयोग करता है तो वह यथास्थिति, उसके द्वारा विनिर्मित छूट प्राप्त सभी माल या उसके द्वारा उपलब्ध कराई गई सभी छूट प्राप्त सेवा के लिए ऐसे विकल्प का प्रयोग करेगा और ऐसा विकल्प वित्तीय वर्ष के शेष भाग के दौरान वापस ले लिया जाएगा ।

स्पष्टीकरण 2—शंकाओं को दूर करने के लिए यह स्पष्ट किया जाता है कि छूट प्राप्त माल के विनिर्माण या छूट प्राप्त सेवा के उपबंध के लिए अनन्य रूप से उपयोग किए गए निवेशों और निवेश सेवाओं को अनुज्ञात किया जाएगा ।

(3क) उपनियम (3) के खंड (ii) के अधीन संदेय रकम का अवधारण और संदाय करने के लिए, माल का विनिर्माणकर्ता या निर्गम सेवा का प्रदाता निम्नलिखित प्रक्रिया और शर्तों का अनुपालन करेगा, अर्थात् :—

(क) इस विकल्प का प्रयोग करते समय माल का विनिर्माणकर्ता या निर्गम सेवा का प्रदाता, निम्नलिखित विशिष्टियों को देते हुए केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधीक्षक को लिखित में संसूचित करेगा, अर्थात् :—

(i) माल के विनिर्माणकर्ता या निर्गम सेवा के प्रदाता का नाम, पता और रजिस्ट्रीकरण संख्या ;

(ii) तारीख जिससे इस खंड के अधीन विकल्प का प्रयोग किया जाता है या प्रयोग किए जाने का प्रस्ताव है ;

(iii) शुल्क्य माल या कराधेय सेवाओं का वर्णन ;

(iv) छूट प्राप्त माल या छूट प्राप्त सेवाएं ;

(v) केन्द्रीय मूल्यवर्धित कर प्रत्यय के निवेश और निवेश सेवाएं जो इस शर्त के अधीन विकल्प का प्रयोग करने की तारीख को बकाया हैं ;

(ख) माल का विनिर्माणकर्ता या निर्गम सेवा का प्रदाता, प्रत्येक मास के लिए अनंतिम रूप से अवधारित और संदाय करेगा,—

(i) ए के रूप में परिलक्षित छूट प्राप्त माल के विनिर्माण में या उसके संबंध में उपयोग किए गए निवेश के परिणामस्वरूप केन्द्रीय मूल्यवर्धित कर प्रत्यय के समतुल्य रकम ;

(ii) छूट प्राप्त सेवाओं (अनंतिम) के उपबंध के लिए उपयोग किए गए निवेशों के परिणामस्वरूप केन्द्रीय मूल्यवर्धित कर प्रत्यय की रकम = (बी/सी) गुणा डी, जहां बी पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान उपलब्ध कराई गई छूट प्राप्त सेवाओं के कुल मूल्य को परिलक्षित करता है, वहां सी विनिर्मित और हटाए गए शुल्क्य माल के कुल मूल्य धन उपलब्ध कराई गई कराधेय सेवाओं के कुल मूल्य धन पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान उपलब्ध कराई गई छूट प्राप्त सेवाओं के कुल मूल्य को परिलक्षित करता है और डी मास के दौरान निवेश पर लिए गए कुल केन्द्रीय मूल्यवर्धित कर प्रत्यय ऋण ए को परिलक्षित करता है ;

(iii) छूट प्राप्त माल के विनिर्माण या छूट प्राप्त सेवाओं (अनंतिम) के उपबंध में या उसके संबंध में उपयोग की गई निवेश सेवाओं के परिणामस्वरूप रकम = (इ/एफ) गुणा जी, जहां इ उपलब्ध कराई गई छूट प्राप्त सेवाओं के कुल मूल्य

धन पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान विनिर्मित और हटाए गए छूट प्राप्त माल के कुल मूल्य को परिलक्षित करता है, वहां एफ पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान उपलब्ध कराई गई कराधेय और छूट प्राप्त सेवाओं के कुल मूल्य और विनिर्मित और हटाए गए शुल्क्य और छूट प्राप्त माल के कुल मूल्य को परिलक्षित करता है तथा जी मास के दौरान निवेश सेवाओं पर लिए गए कुल केन्द्रीय मूल्यवर्धित कर प्रत्यय को परिलक्षित करता है ;

(ग) माल का विनिर्माणकर्ता या निर्गम सेवा का प्रदाता, निम्नलिखित रीति में संपूर्ण वित्तीय वर्ष के लिए छूट प्राप्त माल और छूट प्राप्त सेवाओं के परिणामस्वरूप केन्द्रीय मूल्यवर्धित कर प्रत्यय की रकम का अंतिम रूप से अवधारण करेगा, अर्थात् :--

(i) उक्त छूट प्राप्त माल के विनिर्माण में या उसके संबंध में उपयोग किए गए निवेश की कुल मात्रा के आधार पर छूट प्राप्त माल के विनिर्माण में या उसके संबंध में उपयोग किए गए निवेश के परिणामस्वरूप केन्द्रीय मूल्यवर्धित कर प्रत्यय की रकम, एच के रूप में परिलक्षित है ;

(ii) छूट प्राप्त सेवाओं के उपबंध के लिए उपयोग किए गए निवेश के परिणामस्वरूप केन्द्रीय मूल्यवर्धित कर प्रत्यय की रकम = (जे/के) गुणा एल, जहां जे वित्तीय वर्ष के दौरान उपलब्ध कराई गई छूट प्राप्त सेवाओं के कुल मूल्य को परिलक्षित करता है, के, विनिर्मित और हटाए गए शुल्क्य माल के कुल मूल्य धन उपलब्ध कराई गई कराधेय सेवाओं के कुल मूल्य धन वित्तीय वर्ष के दौरान उपलब्ध कराई गई छूट प्राप्त सेवाओं के कुल मूल्य को परिलक्षित करता है और एल, वित्तीय वर्ष के दौरान निवेश पर लिए गए कुल केन्द्रीय मूल्यवर्धित कर प्रत्यय घन एच को परिलक्षित करता है ;

(iii) छूट प्राप्त माल या छूट प्राप्त सेवाओं के उपबंध में या उसके संबंध में निवेश सेवाओं के परिणामस्वरूप रकम = (एम/एन) गुणा पी, जहां एल, उपलब्ध कराई गई छूट प्राप्त सेवाओं के कुल मूल्य धन वित्तीय वर्ष के दौरान विनिर्मित या हटाए गए छूट प्राप्त माल के कुल मूल्य को परिलक्षित करता है, वहां एम उपलब्ध कराई गई कराधेय और छूट प्राप्त सेवाओं के कुल मूल्य और वित्तीय वर्ष के दौरान विनिर्मित और हटाए गए शुल्क्य और छूट प्राप्त माल के कुल मूल्य को परिलक्षित करता है तथा एन वित्तीय वर्ष के दौरान निवेश सेवाओं पर लिए गए कुल केन्द्रीय मूल्यवर्धित कर प्रत्यय को परिलक्षित करता है ;

(घ) माल का विनिर्माणकर्ता या निर्गम सेवा का प्रदाता, शर्त (ग) के अनुसार अवधारित कुल रकम और शर्त (ख) के अनुसार आगामी वित्तीय वर्ष की 30 जून को या उससे पूर्व अवधारित और संदत्त कुल रकम के बीच के अन्तर के

बराबर रकम का संदाय करेगा, जहां शर्त (ग) के अनुसार अवधारित रकम संदत्त रकम से अधिक है ;

(ड) माल का विनिर्माणकर्ता या निर्गम सेवा का प्रदाता, कम संदाय की गई रकम के अतिरिक्त देय तारीख अर्थात् 30 जून से संदाय की तारीख तक चौबीस प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज का संदाय करने का दायी होगा, जहां कम संदत्त रकम उक्त देय तारीख के भीतर संदत्त नहीं की जाती है ;

(च) जहां शर्त (ग) के अनुसार अवधारित रकम, शर्त (ख) के अनुसार अवधारित और संदत्त रकम से कम है वहां उक्त माल का विनिर्माणकर्ता या निर्गम सेवा का प्रदाता, ऐसी रकम का प्रत्यय लेकर स्वयं अधिक रकम का स्वयं समायोजन कर सकेगा ;

(छ) माल का विनिर्माणकर्ता या निर्गम सेवा का प्रदाता, क्रमशः शर्त (घ) और शर्त (च) के अनुसार संदाय या समायोजन की तारीख से 15 दिन की अवधि के भीतर अधिकारिता रखने वाले केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधीक्षक को निम्नलिखित विशिष्टियों की सूचना देगा, अर्थात् :—

(i) शर्त (ख) के अनुसार अनंतिम रूप से अवधारित संपूर्ण वित्तीय वर्ष के लिए छूट प्राप्त माल और छूट प्राप्त सेवाओं के परिणामस्वरूप केन्द्रीय मूल्यवर्धित कर प्रत्यय के मासवार ब्यौरे ;

(ii) शर्त (ग) के अनुसार अवधारित संपूर्ण वर्ष के लिए छूट प्राप्त माल और छूट प्राप्त सेवाओं के परिणामस्वरूप केन्द्रीय मूल्यवर्धित कर प्रत्यय ;

(iii) कम संदत्त रकम के संदाय की तारीख के साथ संदाय की तारीख सहित शर्त (घ) के अनुसार अवधारित कम संदत्त रकम ;

(iv) शर्त (ड) के अनुसार अवधारित कम संदत्त रकम पर संदेय और संदत्त ब्याज, यदि कोई हो ; और

(v) शर्त (च) के अनुसार अवधारित अधिक संदाय मद्दे लिया गया प्रत्यय, यदि कोई हो ;

(ज) जहां, छूट प्राप्त माल या छूट प्राप्त सेवाओं के परिणामस्वरूप केन्द्रीय मूल्यवर्धित कर प्रत्यय के समतुल्य रकम को, इन कारणों से कि कोई शुल्क माल विनिर्मित नहीं किया गया था और पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में कोई कराधेय सेवा उपलब्ध नहीं कराई गई थी, शर्त (ख) में विहित के अनुसार अनंतिम रूप से अवधारित नहीं किया जा सकता है वहां माल का विनिर्माणकर्ता या निर्गम सेवा का प्रदाता से, प्रत्येक मास के लिए ऐसी रकम का अनंतिम रूप से

अवधारण और संदाय अपेक्षित नहीं है, किन्तु शर्त (ग) में विनिर्दिष्ट के अनुसार संपूर्ण वर्ष के लिए छूट प्राप्त माल या छूट प्राप्त सेवाओं के परिणामस्वरूप केन्द्रीय मूल्यवर्धित कर प्रत्यय अवधारित किए जाएंगे और आगामी वित्तीय वर्ष की 30 जून को या उससे पूर्व इस प्रकार संगणित रकम का संदाय करेगा।

(झ) जहां, शर्त (ज) के अधीन अवधारित रकम उक्त नियत तारीख अर्थात् 30 जून के भीतर संदत्त नहीं की जाती है वहां माल का विनिर्माणकर्ता या निर्गम सेवा का प्रदाता, उक्त रकम के अतिरिक्त देय तारीख से संदाय की तारीख तक चौबीस प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज की दर संदाय करने का दायी नहीं होगा।

स्पष्टीकरण 1—उपनियम (3) और उपनियम (3क) के प्रयोजन के लिए 'मूल्य' का वही अर्थ है जो, यथास्थिति, वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 7 या उसके अधीन बनाए गए नियमों के साथ पठित उनके हैं, या केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 4 या धारा 4क के साथ पठित उसके अधीन बनाए गए नियमों में हैं।

स्पष्टीकरण 2—उपनियम (3) और उपनियम (3क) में वर्णित रकम का, जब तक अन्यथा निर्दिष्ट न हो, माल के विनिर्माणकर्ता या निर्गम सेवा के प्रदाता द्वारा मार्च मास के सिवाय, आगामी मास की 5 तारीख या उससे पूर्व केन्द्रीय मूल्यवर्धित कर प्रत्यय का विकलन करके संदाय नहीं किया जाएगा जब ऐसा संदाय मार्च मास की 31 तारीख को या उसके पूर्व किया जाता है।

स्पष्टीकरण 3—यदि माल का विनिर्माणकर्ता या निर्गम सेवा का प्रदाता, यथास्थिति, उपनियम (3) या उपनियम (3क) के अधीन संदेय रकम का संदाय करने में असफल रहता है तो उसे, गलत रूप से लिए गए केन्द्रीय मूल्यवर्धित कर प्रत्यय की वसूली के लिए नियम 14 में यथाउपबंधित रीति में वसूल किया जाएगा।

5. उक्त नियमों के नियम 7 के पश्चात् निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“7क. निर्गम सेवा प्रदाता के कार्यालय या किसी अन्य परिसर द्वारा निवेश पर प्रत्यय का वितरण—(1) निर्गम सेवा के किसी प्रदाता को, उक्त निर्गम सेवा के प्रदाता के किसी कार्यालय या परिसर द्वारा जारी किए गए किसी बीजक या किसी बिल किसी चलान के आधार पर प्राप्त निवेश और पूंजी माल पर प्रत्यय लेने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा जो निवेश और पूंजी माल के क्रय मद्दे केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 2002 के उपबंधों के अनुसार जारी किए गए बीजकों को प्राप्त करता है।

(2) इन नियमों या केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 के अधीन बनाए गए किन्हीं अन्य नियमों के उपबंध, जो पहले प्रक्रम के व्यौहारी या दूसरे प्रक्रम के व्यौहारी को लागू किए जाते हैं यथावाश्यक परिवर्तनों सहित निर्गम सेवा के प्रदाता के ऐसे कार्यालय या परिसर को लागू होंगे ।”।

6. उक्त नियमों के नियम 15 के पश्चात्, निम्नलिखित नियम 1 मार्च, 2008 से अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“15क. साधारण शास्ति,— जो कोई इन नियमों के उन उपबंधों का उल्लंघन करेगा जिनके लिए इन नियमों में किसी शास्ति का उपबंध नहीं किया गया है, किसी शास्ति के लिए, जो पांच हजार रुपए तक की हो सकेगी, दायी होगा ।”।

[फा. सं. 334/1/2008-टीआरयू]

एस. बजाज, अवर सचिव

टिप्पण : मूल नियम, भारत के राजपत्र, आसाधारण में, भाग 2, खंड 3 उपखंड (i) में अधिसूचना सं. 23/2004-केंद्रीय उत्पाद शुल्क (एनटी), तारीख 10 सितंबर, 2004 द्वारा सा.का.नि. सं. 600(अ) तारीख 10 सितंबर, 2004 में प्रकाशित किए गए थे और अंतिम संशोधन अधिसूचना सं. 39/2007 केंद्रीय उत्पाद शुल्क (एनटी) तारीख 13 नवंबर, 2007 द्वारा, सा.का.नि. सं. 709(अ) तारीख 13 नवंबर, 2007 में किया गया था ।

Notification

No.10/2008-Central Excise (N.T)

New Delhi the 1st March, 2008,

G.S.R. 143(E).—In exercise of the powers conferred by section 37 of the Central Excise Act, 1944 (1 of 1944) and section 94 of the Finance Act, 1994 (32 of 1994), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the CENVAT Credit Rules, 2004, namely:—

1. (1) These rules may be called the CENVAT Credit (Amendment) Rules, 2008.
- (2) Save as otherwise provided in these rules, they shall come into force on the 1st day of April, 2008

2. In the CENVAT Credit Rules, 2004 (hereinafter referred to as the said rules), in rule 2,—

(i) in clause (l), for the words “clearance of final products from the place of removal”, the words “clearance of final products, upto the place of removal,” shall be substituted;

(ii) in clause (p), for the words “any taxable service provided by the provider of taxable service”, the words “any taxable service, excluding the taxable service referred to in sub-clause (zzp) of clause (105) of section 65 of the Finance Act, provided by the provider of taxable service” shall be substituted with effect from the 1st day of March, 2008.

3. In rule 3 of the said rules,—

(i) in sub-rule (4), after the third proviso, the following proviso shall be inserted, with effect from the 1st day of March, 2008, namely:—

“Provided also that the CENVAT credit of any duty specified in sub-rule (1), except the National Calamity Contingent duty in item (v) thereof, shall not be utilized for payment of the said National Calamity Contingent duty on goods falling under tariff items 8517 12 10 and 8517 12 90 respectively of the First Schedule of the Central Excise Tariff.”;

- (ii) in sub-rule (5),
 - (a) in the first proviso, after the words “where any inputs”, the words “or capital goods” shall be inserted;
 - (b) second proviso shall be omitted.

4. In rule 6 of the said rules,-

(a) in sub-rule (1) for the words, “exempted goods or exempted services”, the words, “exempted goods or for provision of exempted services” shall be substituted;

(b) for sub-rule (3), the following sub-rules shall be substituted, namely,-

“(3) Notwithstanding anything contained in sub-rules (1) and (2), the manufacturer of goods or the provider of output service, opting not to maintain separate accounts, shall follow either of the following options, as applicable to him, namely:-

- (i) the manufacturer of goods shall pay an amount equal to ten per cent. of value of the exempted goods and the provider of output service shall pay an amount equal to eight per cent. of value of the exempted services; or
- (ii) the manufacturer of goods or the provider of output service shall pay an amount equivalent to the CENVAT credit attributable to inputs and input services used in, or in relation to, the manufacture of exempted goods or for provision of exempted services subject to the conditions and procedure specified in sub-rule (3A).

Explanation I.- If the manufacturer of goods or the provider of output service, avails any of the option under this sub-rule, he shall exercise such option for all exempted goods manufactured by him or, as the case may be, all exempted services provided by him, and such option shall not be withdrawn during the remaining part of the financial year.

Explanation II.-For removal of doubt, it is hereby clarified that the credit shall not be allowed on inputs and input services used exclusively for the manufacture of exempted goods or provision of exempted service.

(3A) For determination and payment of amount payable under clause (ii) of sub-rule (3), the manufacturer of goods or the provider of output service shall follow the following procedure and conditions, namely:-

(a) while exercising this option, the manufacturer of goods or the provider of output service shall intimate in writing to the Superintendent of Central Excise giving the following particulars, namely:-

- (i) name, address and registration No. of the manufacturer of goods or provider of output service;
- (ii) date from which the option under this clause is exercised or proposed to be exercised;
- (iii) description of dutiable goods or taxable services;
- (iv) description of exempted goods or exempted services;

(v) CENVAT credit of inputs and input services lying in balance as on the date of exercising the option under this condition;

(b) the manufacturer of goods or the provider of output service shall, determine and pay, provisionally, for every month,-

(i) the amount equivalent to CENVAT credit attributable to inputs used in or in relation to manufacture of exempted goods, denoted as A;

(ii) the amount of CENVAT credit attributable to inputs used for provision of exempted services (provisional) = (B/C) multiplied by D, where B denotes the total value of exempted services provided during the preceding financial year, C denotes the total value of dutiable goods manufactured and removed plus the total value of taxable services provided plus the total value of exempted services provided, during the preceding financial year and D denotes total CENVAT credit taken on inputs during the month minus A;

(iii) the amount attributable to input services used in or in relation to manufacture of exempted goods or provision of exempted services (provisional) = (E/F) multiplied by G, where E denotes total value of exempted services provided plus the total value of exempted goods manufactured and removed during the preceding financial year, F denotes total value of taxable and exempted services provided, and total value of dutiable and exempted goods manufactured and removed, during the preceding financial year, and G denotes total CENVAT credit taken on input services during the month;

(c) the manufacturer of goods or the provider of output service, shall determine finally the amount of CENVAT credit attributable to exempted goods and exempted services for the whole financial year in the following manner, namely:-

(i) the amount of CENVAT credit attributable to inputs used in or in relation to manufacture of exempted goods, on the basis of total quantity of inputs used in or in relation to manufacture of said exempted goods, denoted as H;

(ii) the amount of CENVAT credit attributable to inputs used for provision of exempted services = (J/K) multiplied by L, where J denotes the total value of exempted services provided during the financial year, K denotes the total value of dutiable goods manufactured and removed plus the total value of taxable services provided plus the total value of exempted services provided, during the financial year and L denotes total CENVAT credit taken on inputs during the financial year minus H;

(iii) the amount attributable to input services used in or in relation to manufacture of exempted goods or provision of exempted services = (M/N) multiplied by P, where L denotes total value of exempted services provided plus the total value of exempted goods manufactured and removed during the financial year, M denotes total value of taxable and exempted services provided, and total value of dutiable and exempted goods manufactured and removed, during the financial year, and N denotes total CENVAT credit taken on input services during the financial year;

(d) the manufacturer of goods or the provider of output service, shall pay an amount equal to the difference between the aggregate amount determined as per condition (c) and the aggregate amount determined and paid as per condition (b), on or before the 30th June of the succeeding financial year, where the amount determined as per condition (c) is more than the amount paid;

(e) the manufacturer of goods or the provider of output service, shall, in addition to the amount short-paid, be liable to pay interest at the rate of twenty-four per cent. per annum from the due date, i.e., 30th June till the date of payment, where the amount short-paid is not paid within the said due date;

(f) where the amount determined as per condition (c) is less than the amount determined and paid as per condition (b), the said manufacturer of goods or the provider of output service may adjust the excess amount on his own, by taking credit of such amount;

(g) the manufacturer of goods or the provider of output service shall intimate to the jurisdictional Superintendent of Central Excise, within a period of fifteen days from the date of payment or adjustment, as per condition (d) and (f) respectively, the following particulars, namely:-

(i) details of CENVAT credit attributable to exempted goods and exempted services, monthwise, for the whole financial year, determined provisionally as per condition (b),

(ii) CENVAT credit attributable to exempted goods and exempted services for the whole financial year, determined as per condition (c),

(iii) amount short paid determined as per condition (d), alongwith the date of payment of the amount short-paid,

(iv) interest payable and paid, if any, on the amount short-paid, determined as per condition (e), and

(v) credit taken on account of excess payment, if any, determined as per condition (f);

(h) where the amount equivalent to CENVAT credit attributable to exempted goods or exempted services cannot be determined provisionally, as prescribed in condition (b), due to reasons that no dutiable goods were manufactured and no taxable service was provided in the preceding financial year, then the manufacturer of goods or the provider of output service is not required to determine and pay such amount provisionally for each month, but shall determine the CENVAT credit attributable to exempted goods or exempted services for the whole year as prescribed in condition (c) and pay the amount so calculated on or before 30th June of the succeeding financial year.

(i) where the amount determined under condition (h) is not paid within the said due date, i.e., the 30th June, the manufacturer of goods or the provider of output service shall, in addition to the said amount, be liable to pay interest at the rate of twenty four per cent. per annum from the due date till the date of payment.

Explanation I.- "Value" for the purpose of sub-rules (3) and (3A) shall have the same meaning assigned to it under section 67 of the Finance Act, 1994 read with rules made thereunder or, as the case may be, the value determined under section 4 or 4A of the Central Excise Act, 1944 read with rules made thereunder.

Explanation II.-The amount mentioned in sub-rules (3) and (3A), unless specified otherwise, shall be paid by the manufacturer of goods or the provider of output service by debiting the CENVAT credit or otherwise on or before the 5th day of the following month except for the month of March, when such payment shall be made on or before the 31st day of the month of March.

Explanation III.- If the manufacturer of goods or the provider of output service fails to pay the amount payable under sub-rule (3) or as the case may be sub-rule (3A), it shall be recovered, in the manner as provided in rule 14, for recovery of CENVAT credit wrongly taken.

5. After rule 7 of the said rules, the following rule shall be inserted, namely:-

“7A. Distribution of credit on inputs by the office or any other premises of output service provider.- (1) A provider of output service shall be allowed to take credit on inputs and capital goods received, on the basis of an invoice or a bill or a challan issued by an office or premises of the said provider of output service, which receives invoices, issued in terms of the provisions of the Central Excise Rules, 2002, towards the purchase of inputs and capital goods.

(2) The provisions of these rules or any other rules made under the Central Excise Act, 1944, as made applicable to a first stage dealer or a second stage dealer, shall mutatis mutandis apply to such office or premises of the provider of output service.”.

6. After rule 15 of the said rules, the following rule shall be inserted with effect from the 1st day of March, 2008, namely:-

“15A. General penalty.- Whoever contravenes the provisions of these rules for which no penalty has been provided in the rules, he shall be liable to a penalty which may extend to five thousand rupees.”.

[F. No. 334/1/2008-TRU]

S. BAJAJ, Under Secy.

Note.- The principal rules were published in the Gazette of India, Part II, Section 3, sub-section (i) Extraordinary vide notification No. 23/2004-Central Excise (N.T.), dated the 10th September, 2004, G.S.R. 600 (E), dated the 10th September 2004, and last amended by notification No. 39/2007-Central Excise (N.T.) dated the 13th November, 2007, G.S.R. 709(E), dated the 13th November, 2007.

अधिसूचना

सं० 11/ 2008-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क(एन.टी.)

नई दिल्ली, तारीख 1 मार्च, 2008.

11 फाल्गुन, 1929 (शक)

सा.का.नि. 144(अ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1985 (1986 का 5) की धारा 5 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह समाधान हो जाने पर की लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1985 की पहली अनुसूची में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :-

उक्त अधिनियम की पहली अनुसूची में,—

- (i) अध्याय 4 के टिप्पण 6 में, “आधानों पर लेबल लगाना या पुनर्लेबल लगाना और पुंज पैकेटों से फुटकर पैकेटों में पुनः पैकिंग करना” शब्दों के स्थान पर “आधानों पर लेबल लगाना या पुनर्लेबल लगाना या पुंज पैकेटों से फुटकर पैकेटों में पुनः पैकिंग करना” शब्द रखे जाएंगे ;
- (ii) अध्याय 11 के उपशीर्ष टिप्पण में, “आधानों पर लेबल लगाना या पुनर्लेबल लगाना और पुंज पैकेटों से फुटकर पैकेटों में पुनः पैकिंग करना” शब्दों के स्थान पर “आधानों पर लेबल लगाना या पुनर्लेबल लगाना या पुंज पैकेटों से फुटकर पैकेटों में पुनः पैकिंग करना” शब्द रखे जाएंगे ;
- (iii) अध्याय 15 के टिप्पण 5 में, “आधानों पर लेबल लगाना या पुनर्लेबल लगाना और पुंज पैकेटों से फुटकर पैकेटों में पुनः पैकिंग करना” शब्दों के स्थान पर “आधानों पर लेबल लगाना या पुनर्लेबल लगाना या पुंज पैकेटों से फुटकर पैकेटों में पुनः पैकिंग करना” शब्द रखे जाएंगे ;

- [illegible]

(xx) अध्याय 59 में,-

(क) शीर्ष 5902 के उपशीर्ष 5902 90 में, टैरिफ मद “5902 30 10” के स्थान पर, टैरिफ मद “5902 90 10” रखी जाएगी ;

(ख) शीर्ष 5902 के उपशीर्ष 5902 90 में, टैरिफ मद “5902 30 90” के स्थान पर, टैरिफ मद “5902 90 90” रखी जाएगी ;

(ग) शीर्ष 5905 के उपशीर्ष 5905 90 में टैरिफ मद “5905 10 10” के स्थान पर, टैरिफ मद “5902 00 10” रखी जाएगी ;

(घ) शीर्ष 5905 के उपशीर्ष 5905 90 में टैरिफ मद “5905 10 90” के स्थान पर, टैरिफ मद “5902 00 90” रखी जाएगी ;

(xxi) अध्याय 61 के टिप्पण 12 में, “आधानों पर लेबल लगाना या पुनर्लेबल लगाना और पुंज पैकेटों से फुटकर पैकेटों में पुनः पैकिंग करना” शब्दों के स्थान पर “आधानों पर लेबल लगाना या पुनर्लेबल लगाना या पुंज पैकेटों से फुटकर पैकेटों में पुनः पैकिंग करना” शब्द रखे जाएंगे ;

(xxii) अध्याय 62 के टिप्पण 11 में, “आधानों पर लेबल लगाना या पुनर्लेबल लगाना और पुंज पैकेटों से फुटकर पैकेटों में पुनः पैकिंग करना” शब्दों के स्थान पर “आधानों पर लेबल लगाना या पुनर्लेबल लगाना या पुंज पैकेटों से फुटकर पैकेटों में पुनः पैकिंग करना” शब्द रखे जाएंगे ;

(xxiii) अध्याय 84 के शीर्ष 8443 के उपशीर्ष 8443 99 में टैरिफ मद 8443 99 50 से 8443 99 70 (जिसमें दोनों सम्मिलित हैं) और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित टैरिफ मद और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् : --

टैरिफ मद	माल का वर्णन	यूनिट	शुल्क की दर
(1)	(2)	(3)	(4)
	“--- उपशीर्ष 8443 31, 8443 32 के माल के पुर्जे और उपसाधन :		
8443 99 51	--- मुद्रण शीर्ष उपसाधन के साथ इंक कार्टरिज	किलो ग्राम	16%
8443 99 52	--- इंक स्प्रे नोजल	किलो ग्राम	16%
8443 99 59	--- अन्य	किलो ग्राम	16%
8443 99 60	--- उपशीर्ष 8443 39 के मालों के पुर्जे और उपसाधन	किलो ग्राम	16%

(xxiv) अध्याय 92 के शीर्ष 9208 में, टैरिफ मद “9208 20 00” के स्थान पर टैरिफ मद “9208 90 00” रखी जाएगी ।

यह अधिसूचना राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगी ।

[फा. सं. 334/1/2008-टीआरयू]

एस. बजाज, अवर सचिव

टिप्पण : केन्द्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1985 (1986 का 5) की पहली अनुसूची को वित्त अधिनियम, 2005 (2005 का 5) की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था और पश्चात्पूर्ति संशोधन वित्त अधिनियम, 2007 (2007 का 22) की धारा 134 द्वारा किया गया।

Notification
No.11/2008-Central Excise (N.T)

New Delhi, the 1st March, 2008
11 Phalguna, 1929 (Saka)

G.S.R. 144(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 5 of the Central Excise Tariff Act, 1985 (5 of 1986), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendments in the First Schedule to the Central Excise Tariff Act, 1985, namely:-

In the First Schedule to the said Act,-

- (i) in Chapter 4, in Note 6, for the words "labelling or relabelling of containers and repacking", the words "labelling or relabelling of containers or repacking" shall be substituted;
- (ii) in Chapter 11, in Sub-heading Note, for the words "labelling or relabelling of containers and repacking", the words "labelling or relabelling of containers or repacking" shall be substituted;
- (iii) in Chapter 15, in Note 5, for the words "labelling or relabelling of containers and repacking", the words "labelling or relabelling of containers or repacking" shall be substituted;
- (iv) in Chapter 16, in Note 3, for the words "labelling or relabelling of containers and repacking", the words "labelling or relabelling of containers or repacking" shall be substituted;
- (v) in Chapter 17, in Note 3, for the words "labelling or relabelling of containers and repacking", the words "labelling or relabelling of containers or repacking" shall be substituted;
- (vi) in Chapter 18, in Note 3, for the words "labelling or relabelling of containers and repacking", the words "labelling or relabelling of containers or repacking" shall be substituted;
- (vii) in Chapter 19, in Note 5, for the words "labelling or relabelling of containers and repacking", the words "labelling or relabelling of containers or repacking" shall be substituted;
- (viii) in Chapter 20, in Note 7, for the words "labelling or relabelling of containers and repacking", the words "labelling or relabelling of containers or repacking" shall be substituted;
- (ix) in Chapter 21, in Note 4, for the words "labelling or relabelling of containers and repacking", the words "labelling or relabelling of containers or repacking" shall be substituted;

- (x) in Chapter 22, in Note 5, for the words “labelling or relabelling of containers and repacking”, the words “labelling or relabelling of containers or repacking” shall be substituted;
- (xi) in Chapter 24, in Note 3, for the words “labelling or relabelling of containers and repacking”, the words “labelling or relabelling of containers or repacking” shall be substituted;
- (xii) in Chapter 27, in Note 4, for the words “labelling or relabelling of containers and repacking”, the words “labelling or relabelling of containers or repacking” shall be substituted;
- (xiii) in Chapter 28, in Note 9, for the words “labelling or relabelling of containers and repacking”, the words “labelling or relabelling of containers or repacking” shall be substituted;
- (xiv) in Chapter 29, in Note 10, for the words “labelling or relabelling of containers and repacking”, the words “labelling or relabelling of containers or repacking” shall be substituted;
- (xv) in Chapter 30, in Note 6, for the words “labelling or relabelling of containers intended for consumers and repacking”, the words “labelling or relabelling of containers intended for consumers or repacking” shall be substituted;
- (xvi) in Chapter 32, in Note 7, for the words “labelling, relabelling of containers and repacking”, the words “labelling or relabelling of containers or repacking” shall be substituted;
- (xvii) in Chapter 34, in Note 6, for the words “labelling or relabelling of containers and repacking”, the words “labelling or relabelling of containers or repacking” shall be substituted;
- (xviii) in Chapter 35, in Note 3, for the words “labelling or relabelling of containers and repacking”, the words “labelling or relabelling of containers or repacking” shall be substituted;
- (xix) in Chapter 38, -
 - (a) in Note 8, for the words “labelling or relabelling of containers intended for consumers and repacking”, the words “labelling or relabelling of containers intended for consumers or repacking” shall be substituted;
 - (b) in Note 9, for the words “labelling or relabelling of containers and repacking”, the words “labelling or relabelling of containers or repacking” shall be substituted;

(c) in heading 3809, the tariff item 3809 99 00 and the entries relating thereto shall be omitted;

(xx) in Chapter 59,-

- (a) in heading 5902, in sub-heading 5902 90, for the tariff item "5902 30 10", the tariff item "5902 90 10" shall be substituted;
- (b) in heading 5902, in sub-heading 5902 90, for the tariff item "5902 30 90", the tariff item "5902 90 90" shall be substituted;
- (c) in heading 5905, in sub-heading 5905 00, for the tariff item "5905 10 10", the tariff item "5905 00 10" shall be substituted;
- (d) in heading 5905, in sub-heading 5905 00, for the tariff item "5905 10 90", the tariff item "5905 00 90" shall be substituted;

(xxi) in Chapter 61, in Note 12, for the words "labelling or relabelling of its containers and repacking", the words "labelling or relabelling of containers or repacking" shall be substituted;

(xxii) in Chapter 62, in Note 11, for the words "labelling or relabelling of its containers and repacking", the words "labelling or relabelling of containers or repacking" shall be substituted;

(xxiii) in Chapter 84, in heading 8443, in sub-heading 8443 99, for tariff items 8443 99 50 to 8443 99 70 (both inclusive) and the entries relating thereto, the following tariff items and entries shall be substituted, namely:-

Tariff item	Description of Goods	Unit	Rate of duty
(1)	(2)	(3)	(4)
	“--- <i>Parts and accessories of goods of sub-headings 8443 31, 8443 32:</i>		
8443 99 51	--- Ink cartridges, with print head assembly	Kg.	16%
8443 99 52	--- Ink spray nozzle	Kg.	16%
8443 99 59	--- Other	Kg.	16%
8443 99 60	--- Parts and accessories of goods of sub-heading 8443 39	Kg.	16%”.

(xxiv) in Chapter 92, in heading 9208, for the tariff item "9208 20 00", the tariff item "9208 90 00" shall be substituted.

2. This notification shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

[F. No. 334/1/2008-TRU]

S. BAJAJ, Under Secy.

Note: - The First Schedule to the Central Excise Tariff Act, 1985 (5 of 1986) was substituted by section 3 of the Finance Act, 2005 (5 of 2005) and subsequently amended by section 134 of the Finance Act, 2007 (22 of 2007).

अधिसूचना

नई दिल्ली, तारीख 1 मार्च, 2008.

सं० 12/ 2008-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क (एन.टी.)

11 फाल्गुन 1929 (शक)

सा.का.नि. 145(अ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 3 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं० 03/2006-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क (एनटी), तारीख 1 मार्च, 2006 में, जो भारत के राजपत्र, असाधारण में, उसी तारीख को सा.का.नि. सं० 114(अ), द्वारा प्रकाशित की गई थी, निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना की सारणी में, क्रम सं० 2 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम सं० और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :—

(1)	(2)	(3)
“2	यदि खुदरा विक्रय कीमत खुदरा पैक पर मुद्रित है और—	
	(i) टैरिफ मद 2106 90 20 के अन्तर्गत आने वाले माल जिनमें सुपारी 15% से अधिक नहीं है ;	मुद्रित खुदरा विक्रय कीमत का 78%
	(ii) टैरिफ मद 2106 90 20 के अन्तर्गत आने वाले माल, जो उपर्युक्त (i) में विनिर्दिष्ट से भिन्न हैं ;	मुद्रित खुदरा विक्रय कीमत का 56%
	(iii) शीर्ष 2403 के अन्तर्गत आने वाले माल ।	मुद्रित खुदरा विक्रय कीमत का 50%

[फा. सं. 334/1/2008-टीआरयू]

एस. बजाज, अवर सचिव

टिप्पण : मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण में सा.का.नि. सं० 114(अ) तारीख 1 मार्च, 2006 द्वारा प्रकाशित की गई थी और अंतिम संशोधन अधिसूचना सं. 15/2007-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क (एनटी), तारीख 1 मार्च, 2007 द्वारा किया गया और जो सा.का.नि.सं. 167(अ), तारीख 1 मार्च, 2007 द्वारा प्रकाशित की गई थी ।

Notification
No.12/2008-Central Excise (N.T)

New Delhi, the 1st March, 2008
11 Phalgun, 1929 (Saka)

G.S.R. 145(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 3 of the Central Excise Act, 1944 (1 of 1944), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 3/2006-Central Excise (N.T.), dated the 1st March, 2006 which was published in the Gazette of India, Extraordinary vide number G.S.R. 114(E) of the same date, namely:-

In the said notification, in the Table, for S.No. 2 and the entries relating thereto, the following S.No. and entries shall be substituted, namely:-

(1)	(2)	(3)
"2.	If retail sale price is printed on the retail pack and,-	
	(i) the goods fall under tariff item 2106 90 20 having betel nut content not exceeding 15%	78% of the printed retail sale price
	(ii) the goods fall under tariff item 2106 90 20 other than those specified in (i) above	56% of the printed retail sale price
	(iii) goods fall under heading 2403	50% of the printed retail sale price."

[F. No. 334/1/2008-TRU]

S. BAJAJ, Under Secy.

Note :—The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, vide number G.S.R.114(E), dated the 1st March, 2006, and was last amended by notification No. 15/2007-Central Excise (N.T.), dated the 1st March, 2007 and published vide number G.S.R.167(E), dated the 1st March, 2007.

अधिसूचना

सं० 13/2008-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क(एन.टी.)

नई दिल्ली, तारीख 1 मार्च, 2008.

11 फाल्गुन, 1929 (शक)

सा.का.नि. 146(अ).— केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 4क की उपधारा (4) के साथ पठित धारा 37 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क (उत्पाद शुल्क्य माल की खुदरा विक्रय कीमत का अवधारण) नियम, 2008 है ।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो , -

(क) "अधिनियम" से केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) अभिप्रेत है ;

(ख) 'खुदरा विक्रय कीमत' से अधिनियम की धारा 4क में यथापरिभाषित खुदरा विक्रय कीमत अभिप्रेत है ; और

(ग) इन नियमों में प्रयुक्त शब्दों और पदों के जो उसमें परिभाषित नहीं हैं, किन्तु इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए किन्हीं अन्य नियमों में परिभाषित हैं वही अर्थ होंगे जो उसमें हैं ।

3. अधिनियम की धारा 4क की उपधारा (4) के अधीन किसी उत्पाद शुल्क्य माल की खुदरा विक्रय कीमत का अवधारण इन नियमों के अनुसार किया जाएगा ।

4. जहां कोई विनिर्माता, अधिनियम की धारा 4क की उपधारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट उत्पाद शुल्क्य माल को,-

(क) ऐसे माल के पैकेज पर खुदरा विक्रय कीमत की घोषणा किए बिना ; या

(ख) खुदरा विक्रय कीमत की घोषणा करके जो बाट और माप मानक अधिनियम, 1976 (1976 का 60) या उसके अधीन बनाए गए नियमों या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन घोषित किए जाने के लिए अपेक्षित खुदरा विक्रय कीमत नहीं है ; या

(ग) खुदरा विक्रय कीमत की घोषणा करके

हटाता है किन्तु विनिर्माण के स्थान से उनके हटाए जाने के पश्चात् उसे मिटाता है,

तब ऐसे माल की खुदरा विक्रय कीमत निम्नलिखित रीति में अभिनिश्चित की जाएगी, अर्थात् :-

(i) यदि विनिर्माता, ऐसे माल के हटाए जाने के पूर्व या पश्चात् एक मास की अवधि के भीतर खुदरा विक्रय कीमत की घोषणा करके वैसे ही माल का विनिर्माण करता है या उसे हटाता है तब उक्त घोषित खुदरा विक्रय कीमत को ऐसे माल की खुदरा विक्रय कीमत के रूप में लिया जाएगा ;

(ii) यदि खुदरा विक्रय कीमत खंड (i) के निबंधनों के अनुसार अभिनिश्चित नहीं की जा सकती तो ऐसे माल की खुदरा विक्रय कीमत ऐसे खुदरा बाजार में जहां ऐसे माल का सामान्यतः विक्रय किया जाता है या विनिर्माण की स्थान से ऐसे माल के हटाए जाने के उसी समय जांच करके अभिनिश्चित की जाएगी :

परंतु एक से अधिक खुदरा कीमत खंड (i) या खंड (ii) के अधीन अभिनिश्चित की जाती है तो इस प्रकार अभिनिश्चित अधिकतम खुदरा विक्रय कीमत को सभी ऐसे माल की खुदरा विक्रय कीमत के रूप में लिया जाएगा ।

स्पष्टीकरण.- इस नियम के प्रयोजनों के लिए, जब खुदरा विक्रय कीमत बाजार जांच के आधार पर अभिनिश्चित की जानी अपेक्षित होती है, तब ऐसी उक्त जांच नमूना आधार पर की जाएगी ।

5. जहां विनिर्माता माल के पैकेज पर घोषित खुदरा विक्रय कीमत को विनिर्माण के स्थान से उनके हटाए जाने के पश्चात् परिवर्तित करता है या उससे छेड़छाड़ करता है जिसके परिणामस्वरूप खुदरा विक्रय कीमत में वृद्धि होती है तब ऐसी वृद्धि हुई खुदरा विक्रय कीमत ऐसे माल के हटाए जाने की तारीख से पहले और पश्चात् एक मास की अवधि के भीतर हटाए गए सभी माल की खुदरा विक्रय कीमत के रूप में ली जाएगी :

परंतु जहां विनिर्माता घोषित खुदरा विक्रय कीमत को परिवर्तित करता है या उसके साथ छेड़छाड़ करता है जिसके परिणामस्वरूप ऐसे माल पर एक या एक से अधिक खुदरा विक्रय कीमत उपलब्ध होती है तब अधिकतम खुदरा विक्रय कीमत को ऐसे सभी माल की खुदरा विक्रय कीमत के रूप में लिया जाएगा ।

6. यदि किसी उत्पाद शुल्क्य माल की खुदरा विक्रय कीमत इन नियमों के अधीन अभिनिश्चित नहीं की जा सकती तो खुदरा विक्रय कीमत का अंशधारण अधिनियम की धारा 4क के सिद्धांतों और उपबंधों और पूर्वोक्त नियमों के अनुसार किया जाएगा ।

[फा. सं. 334/1/2008-टीआरयू]

[फा, एस. बजाज, अवर सचिव

Notification

No.13/2008-Central Excise (N.T)

New Delhi, the 1st March, 2008

11 Phalgun, 1929 (Saka)

G.S.R. 146(E).—In exercise of the powers conferred by section 37 read with sub-section (4) of section 4A of the Central Excise Act, 1944 (1 of 1944), the Central Government hereby makes the following rules, namely:-

1.(1) These rules may be called the Central Excise (Determination of Retail Sale Price of Excisable Goods) Rules, 2008.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In these rules, unless the context otherwise requires,-

(a) 'Act' means the Central Excise Act, 1944 (1 of 1944);

(b) 'retail sale price' means the retail sale price as defined in section 4A of the Act; and

(c) words and expressions used in these rules and not defined but defined in the Act or any other rules made under the Act shall have the meaning as assigned therein.

3. The retail sale price of any excisable goods under sub-section (4) of section 4A of the Act, shall be determined in accordance with these rules.

4. Where a manufacturer removes the excisable goods specified under sub-section (1) of section 4A of the Act,-

(a) without declaring the retail sale price on the packages of such goods; or

(b) by declaring the retail sale price, which is not the retail sale price as required to be declared under the provisions of the Standards of Weights and Measures Act, 1976 (60 of 1976) or rules made thereunder or any other law for the time being in force ; or

(c) by declaring the retail sale price but obliterated the same after their removal from the place of manufacture,

then, the retail sale price of such goods shall be ascertained in the following manner, namely:-

(i) if the manufacturer has manufactured and removed identical goods, within a period of one month, before or after removal of such goods, by declaring the retail sale price, then, the said declared retail sale price shall be taken as the retail sale price of such goods:

(ii) if the retail sale price cannot be ascertained in terms of clause (i), the retail sale price of such goods shall be ascertained by conducting the enquiries in the retail market where such goods have normally been sold at or about the same time of the removal of such goods from the place of manufacture:

Provided that if more than one retail sale price is ascertained under clause (i) or clause (ii), then, the highest of the retail sale price, so ascertained, shall be taken as the retail sale price of all such goods.

Explanation.- For the purposes of this rule, when retail sale price is required to be ascertained based on market inquiries, the said inquiries shall be carried out on sample basis.

5. Where a manufacturer alters or tampers the retail sale price declared on the package of goods after their removal from the place of manufacture, resulting into increase in the retail sale price, then such increased retail sale price shall be taken as the retail sale price of all goods removed during a period of one month before and after the date of removal of such goods:

Provided that where the manufacturer alters or tampers the declared retail sale price resulting into more than one retail sale price available on such goods, then, the highest of such retail sale price shall be taken as the retail sale price of all such goods.

6. If the retail sale price of any excisable goods cannot be ascertained under these rules, the retail sale price shall be ascertained in accordance with the principles and the provisions of section 4A of the Act and the rules aforesaid.

[F. No. 334/1/2008-TRU]

S. BAJAJ, Under Secy.

अधिसूचना	नई दिल्ली, तारीख 1 मार्च, 2008
सं० 14/2008- केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क (एनटी)	11 फाल्गुन, 1929 (शक)

सा.का.नि. 147(अ).— केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 4क की उपधारा (1) और उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 2/2005-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क (एनटी), तारीख 7 जनवरी, 2005 को, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, में उसी तारीख को सा.का.नि. सं. 10(अ) द्वारा प्रकाशित की गई थी और अधिसूचना सं. 2/2006-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क (एनटी), तारीख 1 मार्च, 2006, को, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, में उसी तारीख को सा.का.नि. सं. 113(अ) द्वारा प्रकाशित की गई थी, उन बातों के सिवाय अधिक्रान्त करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने से लोप किया गया है, नीचे सारणी के स्तंभ (3) में वर्णित और केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1985 (1986 का 5) की पहली अनुसूची के अध्याय या शीर्ष या उपशीर्ष या टैरिफ मद के अंतर्गत आने वाले माल को, जो उक्त सारणी के स्तंभ (2) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में वर्णित हैं, उस माल के रूप में विनिर्दिष्ट करती है, जिसको उक्त धारा 4क की उपधारा (2) के उपबंध लागू होंगे और उक्त सारणी के स्तंभ (4) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में वर्णित खुदरा विक्रय कीमत की प्रतिशतता को उपशमन के रूप में अनुज्ञात करती है।

सारणी

क्र० सं०	पहली अनुसूची के अध्याय, शीर्ष या उपशीर्ष या टैरिफ मद	माल का वर्णन	खुदरा विक्रय कीमत की प्रतिशतता के रूप में उपशमन
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	17 या 21	अन्य चीनी की निर्मितियां	38
2.	1702	चीनी के शर्बत जिसमें सुरुचिकारक या रंजक पदार्थ नहीं मिलाया गया है ; कृत्रिम शहद, चाहे प्राकृतिक शहद के साथ मिश्रित हो या नहीं ; भुनी चीनी	38
3.	1704	गोंद, चाहे वह चीनी विलेपित हो या नहीं (जिसके अंतर्गत चिविंग गम, बबलगम और वैसे ही पदार्थ भी हैं)	38
4.	1704 90	सफेद चाकलेट से भिन्न, सभी माल	35
5.	1704 90	सफेद चाकलेट	38
6.	1805 00 00 या 1806 10 00	कोको चूर्ण, चाहे उसमें चीनी या अन्य मधुरित पदार्थ मिलाया गया है या नहीं	33
7.	1806	किसी रूप में चाकलेट चाहे उसमें गिरी, फल गिरी या फल है या नहीं, जिसके अंतर्गत पेय चाकलेट भी है	31.5

8.	1806	कोको वाली अन्य खाद्य निर्मितियां	33
9.	1901 20 00 या 1901 90	सभी माल	31.5
10.	1904	टैरिफ मद 1904 20 00 के अंतर्गत आने वाले माल के भिन्न सभी माल	33
11.	1904 20 00	सभी माल	35
12.	1905 31 00 या 1905 90 20	बिस्कुट	35
13.	1905 32 11 या 1905 32 90	चाकलेट से विलेपित या चाकलेट वाले वेफल और वेफर	33
14.	1905 32 90	वेफर बिस्कुटों से भिन्न, सभी माल	38
15.	1905 32 19 या 1905 32 90	वेफर बिस्कुट	33
16.	2101 11 या 2101 12 00	काफी के निष्कर्षण, सत और सांद्र और उनके निष्कर्षण, सत या सांद्र के आधार सहित या काफी के आधार सहित निर्मितियां	33
17.	2102	सभी माल	33
18.	2106 90 20	15% से अनधिक सुपारी वाले पान मसाले से भिन्न सभी माल	44
19.	2106 90 20	15% से अनधिक सुपारी वाला पान मसाला	22
20.	2403	तंबाकू युक्त पान मसाला	50
21.	2106 90 30	सभी माल	33
22.	2106 90 11	शर्बत	28
23.	2106 10 00, 2106 90 50, 2106 90 70, 2106 90 80, 2106 90 91 या 2106 90 99	सभी माल	38
24.	2201 या 2202	खनिज जल	48
25.	2201 या 2202	वातित जल	40.5
26.	2209	एसिटिक अम्ल से अभिप्राप्त सिरका के लिए सिरका और उसके अनुकल्प	38
27.	2403 99 10, 2403 99 20 या 2403 99 30	सभी माल	50
28.	2523 21 00 या 2523 29	सफेद सीमेंट चाहे वह कृत्रिम रूप से रंजित हो या नहीं और चाहे उसमें शीघ्रता से कठोर बनाने वाले तत्व हों या नहीं	29
29.	2710	स्नेहक तेल और स्नेहक निर्मितियां	38
30.	30	औषधिद्रव्य उनसे भिन्न जो अनन्य रूप से आयुर्वेदिक, यूनानी, सिद्ध, होमियोपैथिक या जैव रसायण प्रणाली में उपयोग में लाए जाते हैं	35.5
31.	3204 20	ऐसी किस्म के संश्लिष्ट कार्बनिक उत्पाद जो प्रतिदीप्तिशील प्रभामन कर्मक या संदीपक के रूप में उपयोग किए जाते हैं	33
32.	3206	संदीपक के रूप में प्रयुक्त किस्म के पिगमेंट और अकार्बनिक उत्पादों से भिन्न सभी माल	33
33.	3208, 3209 या 3210	सभी माल	35

34.	3212 90 20	घरेलू या प्रयोगशाला प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त किस्म के डाई और अन्य रंजक पदार्थ जो उसी रूप में या लघु पैकिंग में रखे जाते हैं	38
35.	3213	सभी माल	35
36.	3214	सभी माल	38
37.	3303, 3304, 3305 या 3307	सभी माल	38
38.	3306 10 20	दूधपेस्ट	33
39.	3401 19 या 3401 20 00	साबुन (कागज, वार्डिंग, नमदा और अयुतित, संसेचित, विलेपित, साबुन या अपमार्जक से विलेपित या आच्छादित से भिन्न)	33
40.	3401 11, 3401 19 या 3402	टैरिफ मद 3402 90 20 के अंतर्गत आने वाले माल से भिन्न कार्बनिक पृष्ठ सक्रिय उत्पाद और छड़, टिकिया सांचे में ढाले हुए टुकड़े या आकार में साबुन के रूप में प्रयुक्त निर्मितियां	31.5
41.	3403	स्नेहक निर्मितियां (जिनके अंतर्गत स्नेहकों पर आधारित कर्तन-तेल निर्मितियां, बोल्ट या नट विमोचन निर्मितियां, जंगरोधी या संक्षारण रोधी निर्मितियां और संच विमोचन निर्मितियां हैं)	33
42.	3405	सभी माल	33
43.	3506	निर्मित ग्लू और अन्य निर्मित आसंजक, जो अन्यत्र विनिर्दिष्ट या सम्मिलित नहीं है	38
44.	3702	एक्स रे और अनुदभाषित चलचित्र फिल्मों से भिन्न सभी माल	38
45.	3808	कीटनाशी, कृतंकनाशी, कवकनाशी, शाकनाशी अंकुरणरोधी और नाशक मार	33
46.	3808	विसंक्रामक और वैसे ही उत्पाद	38
47.	3808 93 40	पादप वृद्धि विनियामक	28
48.	3814 00 10	थिनर	38
49.	3819	सभी माल	38
50.	3820 00 00	हिमीकरणरोधी निर्मितियां और निर्मित वेहिमन तरल	38
51.	3824 90 24 या 3824 90 90	स्टैशिल शोधक और अन्य शोधक तरल, स्याहीमेट जिन्हें खुदरा विक्रय के लिए पैकिंग में रखा गया है।	52
52.	3919	प्लास्टिक के स्वतः चिपकने वाले टेप	38
53.	3923 या 3924	विद्युतरोधी बर्तन	43
54.	4816	कार्बन कागज, स्वतः प्रतिलिपिकरण कागज, कागज के द्वितीय प्रतिलिपिकरण स्टैशिल	38
55.	4818	टैरिफ मद 4818 50 00 के अंतर्गत आने वाले माल से भिन्न कागज की लुग्दी, कागज, सैलूलोज वार्डिंग या सैलूलोज फाइबर के जाल के रूमाल, निर्मलन उत्तक, तौलिया	38
56.	6401 6402 6403 6404 या 6405	निम्नलिखित माल अर्थात् :- (i) 250 रु. से अधिक और 750 रु. से अनधिक प्रति जोड़े के फुटकर विक्रय कीमत के पैरों के जूतादि (ii) सभी अन्य जूतादि	37 40
57.	6506 10	सुस्वात्मक सिर के पहनावे	38

58.	6907	कांचाकनित टाइलें, चाहे पालिश की गई हैं या नहीं	43
59.	6908	कांचित टाइलें	43
60.	7321	एलपीजी गैस स्टोवों से भिन्न पकाने के साधित्र और प्लेट ऊष्मक (केवल वर्नरों सहित, ग्रिल या ओवन जैसे अन्य कृत्यों सहित)	38
61.	7321	एलपीजी गैस स्टोव (केवल वर्नरों सहित, ग्रिल या ओवन जैसे अन्य कृत्यों के बिना)	33
62.	7323 या 7615 19 10	प्रेसर कुकर	28
63.	7324	लोहा या इस्पात के स्वच्छता बर्तन	38
64.	7418 20 10	तांबे के स्वच्छता बर्तन	38
65.	8212	रेजर और रेजर ब्लेड (पट्टियों में रेजर ब्लेड ब्लैकों सहित)	38
66.	8305 20 00 या 8305 90 20	आधार धातु की पट्टियों में स्टेपल, पेपर क्लिप	38
67.	8414 51 या 8414 59	विद्युत पंखे	38
68.	8415	3 टन तक की क्षमता वाले खिड़की दरवाजे वायु वातानुकूलक और स्प्लिट वातानुकूलक	28
69.	8418	प्रशीतित्र	38
70.	8421 21	जल छानित्र और जल शोधक, घरेलू प्रयोजन के उपयोग की किस्म के	33
71.	8422 11 00 या 8422 19 00	डिश वासिंग मशीन	33
72.	8443	अनुकृति मशीन	38
73.	8443 31 00 या 8443 32	प्रिंटर जो प्रतिलिपिकरण या अनुकृतिकरण पारेषण के कृत्यों सहित हैं या नहीं	33
74.	8443 99 51	स्याही कार्ट्रिज प्रिंट हेड असेंबली सहित	23
75.	8450	गृह उपयोगी या धोवन शाला प्रकार की वासिंग मशीन जिनके अंतर्गत धुलाई और शुष्कन मशीनें हैं	38
76.	8469	टाइपराइटर	33
77.	8470	उपशीर्ष 8470 50 और 8470 90 के अंतर्गत आने वाले माल से भिन्न संगणक मशीन और जेबी आकार के आंकड़ा अभिलेखक, संगणन कृत्यों सहित पुनरुत्पादक और संप्रदर्शक मशीनें	38
78.	8471 30	सभी माल	22.5
79.	8471 60	सभी माल	23
80.	8472 90 10	स्टेप्लिंग मशीनें	38
81.	8506	टैरिफ मद 8506 90 00 के अंतर्गत आने वाले पुर्जों से भिन्न सभी माल	36.5
82.	8508	टैरिफ मद 8508 70 00 के अंतर्गत आने वाले पुर्जों से भिन्न सभी माल	38
83.	8509	टैरिफ मद 8509 90 00 के अंतर्गत आने वाले पुर्जों से भिन्न सभी माल	36.5
84.	8510	टैरिफ मद 8510 90 00 के अंतर्गत आने वाले पुर्जों से भिन्न सभी माल	36.5

85.	8513	टैरिफ मद 8513 90 00 के अंतर्गत आने वाले पुर्जों से भिन्न सभी माल	33
86.	8516	विद्युत तात्क्षणिक या भंडारण जल तापित्र और निमज्जन तापित्र, विद्युत स्पेस तापन उपकरण और मृदा तापन उपकरण, विद्युत तापीय केश प्रसाधन उपकरण (उदाहरणार्थ केश शुष्कित्र, केशवलयित्र, बलीपन टांग तापित्र) और हस्त शुष्कित्र, विद्युत मस्रण इस्त्री, इसी प्रकार के अन्य विद्युत तापीय साधित्र जिनका उपयोग घरेलू प्रयोजनों के लिए किया जाता है	36.5
87.	8517	टेलीफोन सेट जिसके अंतर्गत कार्डलेस हैंडसेट सहित टेलीफोन भी हैं, वीडियो फोन	38
88.	8517 62 30	मोडेम (मोडुलेटर्स- डिमोडुलेटर्स)	23
89.	8517 69 60	इंटरनेट से पहुँच प्राप्त करने के लिए सेट टाप बाक्स	22
90.	8519	एमपी 3 प्लेयर या एमपीइजी 4 प्लेयर से भिन्न सभी माल	38
91.	8521	एमपी 3 प्लेयर या एमपीइजी 4 प्लेयर से भिन्न सभी माल	38
92.	85	एमपी 3 प्लेयर या एमपीइजी 4 प्लेयर	33
93.	8523	अनभिलिखित श्रव्य कैसेट, अभिलिखित या अनभिलिखित दृश्य कैसेट, अभिलिखित या अनभिलिखित चुंबकीय डीस्क	38
94.	8527	पेजर	33
95.	8527	ट्रांजिस्टर सेट सहित रेडियो सेट, जिनमें रेडियो संकेत प्राप्त करने की सुविधा रखते हैं और एक ही कक्षिका में उसे किसी अन्य अतिरिक्त सुविधा के बिना जैसे ध्वनि अभिलेखन या पुनरुत्पादन या घड़ी के साथ संयुक्त हैं संपरिवर्तित करने की सुविधा है	33
96.	8527	रेडियो प्रसारण के लिए अभिग्रहण उपकरण, चाहे वे एक ही कक्षिका में ध्वनि अभिलेखन या पुनरुत्पादन उपकरण या घड़ी के साथ संयुक्त हैं या नहीं (क्रम सं. 93 के अंतर्गत आने वाले माल से भिन्न)	38
97.	8528	टेलीविजनग्राही (जिसके अंतर्गत वीडियो मानिटर और वीडियो प्रोजेक्टर भी हैं) चाहे वे रेडियो प्रसारण ग्राहियों या ध्वनि अथवा वीडियो अभिलेखन या पुनरुत्पादन उपकरण के साथ सहयुक्त हैं या नहीं	33
98.	8528	एकमात्र रूप से या मुख्य रूप से किसी स्वचालित रूप से डाटा प्रसंस्करण मशीन में प्रयुक्त एक प्रकार का मानीटर	23
99.	8528 71 00	टेलीविजन सेटों के लिए सेट टाप बाक्स	22
100.	8536	टैरिफ मद 8536 70 00 के अंतर्गत आने वाले माल से भिन्न सभी माल	38
101.	8539	आटोमोबाइल के लिए लैंप से भिन्न निम्नलिखित माल, अर्थात्:— (i) टैरिफ मद 8539 31 10 के अंतर्गत आने वाले कम्पैक्ट प्रतिदीप्ति लैंप (सीएफएल) (ii) सभी अन्य माल	37 38
102.	9006	फोटोचित्र कैमरे (चलचित्र कैमरे से भिन्न)	33

103.	9101 या 9102	ब्रेल घड़ियों से भिन्न सभी माल	33
104.	9103 या 9105	घड़ियाँ	43
105.	9612	सभी माल	33
106.	9617	निर्वात फ्लास्क	38
107.	अन्य शीर्ष	ऑटोमोबाइल के पूर्ण, संघटक और समुच्चय	31.5
108.	9603 21 00	दूधब्रश	28.5

स्पष्टीकरण : इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए, "खुदरा विक्रय कीमत" से वह अधिकतम कीमत अभिप्रेत है जिस पर उत्पाद शुल्क्य माल का पैक के रूप में अंतिम उपभोक्ता को विक्रय किया जा सकेगा और उसके अंतर्गत, सभी कर, स्थानीय या अन्यथा, भाड़ा, परिवहन प्रभार, व्योहारियों को संदेय कमीशन और विज्ञापन, परिधान, पैकिंग, अग्रेषण मदे सभी प्रभार और उसी प्रकार के प्रभार सम्मिलित हैं और ऐसे विक्रय के लिए कीमत एकमात्र प्रतिफल है।

[फा. सं. 334/1/2008-टीआरयू]

एस. बजाज, अवर सचिव

Notification

No.14/2008-Central Excise (N.T)

New Delhi, the 1st March, 2008

11 Phalgun, 1929 (Saka)

G.S.R. 147(E).—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (2) of section 4 A of the Central Excise Act, 1944 (1 of 1944) the Central Government, in supersession of the notifications of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 2/2005-Central Excise (N.T.), dated the 7th January, 2005, published in the Gazette of India Extraordinary, vide number G.S.R.10(E) of the same date and No. 2/2006-Central Excise (N.T.), dated the 1st March, 2006, published in the Gazette of India Extraordinary, vide number G.S.R.113(E) of the same date, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, hereby specifies the goods mentioned in Column (3) of the Table below and falling under Chapter or heading or sub-heading or tariff item, as the case may be, of the First Schedule to the Central Excise Tariff Act, 1985 (5 of 1986) mentioned in the corresponding entry in column (2) of the said Table, as the goods to which the provisions of sub-section (2) of said section 4A shall apply, and allows as abatement the percentage of retail sale price mentioned in the corresponding entry in column (4) of the said Table.

TABLE

S.No.	Chapter, heading, sub-heading or tariff item of the First Schedule	Description of goods	Abatement as a percentage of retail sale price
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	17 or 21	Preparations of other sugars	38
2.	1702	Sugar syrups not containing added flavouring or colouring matter; artificial honey, whether or not mixed with natural honey; caramel	38
3.	1704	Gums, whether or not sugar coated (including chewing gum, bubblegum and the like)	38
4.	1704 90	All goods, other than white chocolate	35
5.	1704 90	White chocolate	38

6.	1805 00 00 or 1806 10 00	Cocoa powder, whether or not containing added sugar or other sweetening matter	33
7.	1806	Chocolates in any form, whether or not containing nuts, fruit kernels or fruits, including drinking chocolates	31.5
8.	1806	Other food preparations containing cocoa	33
9.	1901 20 00 or 1901 90	All goods	31.5
10.	1904	All goods, other than goods falling under tariff item 1904 20 00	33
11.	1904 20 00	All goods	35
12.	1905 31 00 or 1905 90 20	Biscuits	35
13.	1905 32 11 or 1905 32 90	Waffles and wafers, coated with chocolate or containing chocolate	33
14.	1905 32 90	All goods, other than wafer biscuits	38
15.	1905 32 19 or 1905 32 90	Wafer biscuits	35
16.	2101 11 or 2101 12 00	Extracts, essences and concentrates, of coffee, and preparations with a basis of these extracts, essences or concentrates or with a basis of coffee	33
17.	2102	All goods	33
18.	2106 90 20	All goods, other than pan masala containing not more than 15% betel nut	44
19.	2106 90 20	Pan masala containing not more than 15% betel nut	22
20.	2403	Pan masala containing tobacco	50
21.	2106 90 30	All goods	33
22.	2106 90 11	Sharbat	28
23.	2106 10 00, 2106 90 50, 2106 90 70, 2106 90 80, 2106 90 91 or 2106 90 99	All goods	38
24.	2201 or 2202	Mineral waters	48
25.	2201 or 2202	Aerated waters	40.5
26.	2209	Vinegar and substitutes for vinegar obtained from acetic acid	38
27.	2403 99 10, 2403 99 20 or 2403 99 30	All goods	50
28.	2523 21 00 or 2523 29	White cement, whether or not artificially coloured and whether or not with rapid hardening properties	33
29.	2710	Lubricating oils and Lubricating preparations	38
30.	30	Medicaments, other than those which are exclusively used in Ayurvedic, Unani, Siddha, Homeopathic or Bio-chemic systems.	35.5

31.	3204 20	Synthetic organic products of a kind used as fluorescent brightening agents or as a luminophores	33
32.	3206	All goods other than pigments and inorganic products of a kind used as luminophores	33
33.	3208, 3209 3210 or	All goods	35
34.	3212 90 20	Dyes and other colouring matter put up in forms or small packing of a kind used for domestic or laboratory purposes	38
35.	3213	All goods	38
36.	3214	All goods	38
37.	3303, 3304, 3305 or 3307	All goods	38
38.	3306 10 20	Toothpaste	33
39.	3401 19 or 3401 20 00	Soap (other than paper, wadding, felt and non-wovens, impregnated, coated or covered with soap or detergent)	33
40.	3401 11, 3401 19 or 3402	Organic surface active products and preparations for use as soap in the form of bars, cakes, moulding pieces or shapes, other than goods falling under tariff item 3402 90 20	31.5
41.	3403	Lubricating preparations (including cutting-oil preparations, bolt or nut release preparations, anti-rust or anti-corrosion preparation and mould release preparations based on lubricants)	33
42.	3405	All goods	33
43.	3506	Prepared glues and other prepared adhesives, not elsewhere specified or included	38
44.	3702	All goods, other than for X-ray and unexposed cinematographic films	38
45.	3808	Insecticides, fungicides, herbicides, weedicides and pesticides	33
46.	3808	Disinfectants and similar products	38
47.	3808 93 40	Plant growth regulator	28
48.	3814 00 10	Thinners	38
49.	3819	All goods	38
50.	3820 00 00	Anti-freezing preparations and prepared de-icing fluids	38
51.	3824 90 24 or 3824 90 90	Stencil correctors and other correcting fluids, ink removers put up in packings for retail sale	38
52.	3919	Self adhesive tapes of plastics	38
53.	3923 or 3924	Insulated ware	43
54.	4816	Carbon paper, self-copy paper, duplicator stencils, of paper	38

55.	4818	Cleansing or facial tissues, handkerchiefs and towels, of paper pulp, paper, cellulose wadding or webs of cellulose fibres, other than goods falling under tariff item 4818 50 00	38
56.	6401 6402 6403 6404 or 6405	The following goods, namely:- (i) Footwear of retail sale price exceeding Rs.250/- and not exceeding Rs.750/- per pair (ii) All other footwear	37 40
57.	6506 10	Safety headgear	38
58.	6907	Vitrified tiles, whether polished or not	43
59.	6908	Glazed tiles	43
60.	7321	Cooking appliances and plate warmers, other than LPG gas stoves (with burners only, without other functions such as, grills or oven)	38
61.	7321	LPG gas stoves (with burners only, without other functions such as, grills or oven)	33
62.	7323 or 7615 19 10	Pressure Cookers	28
63.	7324	Sanitary ware of iron or steel	38
64.	7418 20 10	Sanitary ware of copper	38
65.	8212	Razors and razor blades (including razor blade blanks in strips)	38
66.	8305 20 00 or 8305 90 20	Staples in strips, paper clips, of base metal	38
67.	8414 51 or 8414 59	Electric fans	38
68.	8415	Window room air-conditioners and split air conditioners of capacity upto 3 tonnes	28
69.	8418	Refrigerators	38
70.	8421 21	Water filters and water purifiers, of a kind used for domestic purposes	33
71.	8422 11 00 or 8422 19 00	Dish washing machines	33
72.	8443	Facsimile machines	38
73.	8443 31 00 or 8443 32	Printer whether or not combined with the functions of copying or facsimile transmission	23
74.	8443 99 51	Ink cartridges, with print head assembly	23
75.	8450	Household or laundry-type washing machines, including machines which both wash and dry	38
76.	8469	Typewriters	33
77.	8470	Calculating machines and pocket-size data recording, reproducing and displaying machines with calculating functions, other than goods falling under sub-heading 8470 50 and 8470 90	38

78.	8471 30	All goods	22.5
79.	8471 60	All goods	23
80.	8472 90 10	Stapling machines	38
81.	8506	All goods, other than parts falling under tariff item 8506 90 00	36.5
82.	8508	All goods, other than parts falling under tariff item 8508 70 00	38
83.	8509	All goods, other than parts falling under tariff item 8509 90 00	36.5
84.	8510	All goods, other than parts falling under tariff item 8510 90 00	36.5
85.	8513	All goods, other than parts falling under tariff item 8513 90 00	33
86.	8516	Electric instantaneous or storage water heaters and immersion heaters; electric space heating apparatus and soil heating apparatus; electro-thermic hairdressing apparatus (for example, hair dryers, hair curlers, curling tong heaters) and hand dryers; electric smoothing irons; other electro-thermic appliances of a kind used for domestic purposes.	36.5
87.	8517	Telephone sets including telephones with cordless handsets; video phones;	38
88.	8517 62 30	Modems (modulators – demodulators)	23
89.	8517 69 60	Set top boxes for gaining access to internet	22
90.	8519	All goods, other than MP3 player or MPEG 4 player	38
91.	8521	All goods, other than MP3 player or MPEG 4 player	38
92.	85	MP3 player or MPEG 4 player	33
93.	8523	Unrecorded audio cassettes; recorded or unrecorded video cassettes; recorded or unrecorded magnetic discs	38
94.	8527	Pagers	33
95.	8527	Radio sets including transistors sets, having the facility of receiving radio signals and converting the same into audio output with no other additional facility like sound recording or reproducing or clock in the same housing or attached to it	33
96.	8527	Reception apparatus for radio-broadcasting, whether or not combined, in the same housing, with sound recording or reproducing apparatus or a clock (other than goods covered at S.No. 93)	38
97.	8528	Television receivers (including video monitors and video projectors) whether or not incorporating radio broadcast receivers or sound or video recording or reproducing apparatus	33
98.	8528	Monitors of a kind solely or principally used in an automatically data processing machine	23

99.	8528 71 00	Set top boxes for television sets	22
100.	8536	All goods, other than goods falling under tariff item 8536 70 00	38
101.	8539	The following goods, other than lamps for automobiles, namely:- (i) Compact Fluorescent Lamp (CFL) falling under tariff item 8539 31 10	37
		(ii) All other goods	38
102.	9006	Photographic (other than cinematographic) cameras	33
103.	9101 or 9102	All goods, other than braille watches	33
104.	9103 or 9105	Clocks	43
105.	9612	All goods	33
106.	9617	Vacuum flasks	38
107.	Any heading	Parts, components and assemblies of automobiles	31.5
108.	9603 21 00	Toothbrush	28.5

Explanation.— For the purposes of this notification, “retail sale price” means the maximum price at which the excisable goods in packaged form may be sold to the ultimate consumer and includes all taxes, local or otherwise, freight, transport charges, commission payable to dealers, and all charges towards advertisement, delivery, packing, forwarding and the like, as the case may be, and the price is the sole consideration for such sale.

[F. No. 334/1/2008-TRU]

S. BAJAJ, Under Secy.

अधिसूचना

सं० 4/ 2008-सेवा कर

नई दिल्ली, तारीख 1 मार्च, 2008.

11 फाल्गुन, 1929 (शक)

सा.का.नि. 148(अ).— केन्द्रीय सरकार, वित्त अधिनियम, 1994 (1994 का 32) की धारा 94 की उपधारा (1) और उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सेवा कर नियम, 1994 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सेवा कर (संशोधन) नियम, 2008 है ।
(2) ये इनके राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।
- सेवा कर नियम, 1994 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 6 में,—

(क) उपनियम (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“(1क) उप नियम (1) में अन्तर्विष्ट उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, सेवा कर का

संदाय करने के लिए दायी प्रत्येक व्यक्ति, स्वप्रेरणा से केन्द्रीय सरकार के खाते में अग्रिम में सेवा कर के रूप में किसी रकम का संदाय कर सकेगा और पश्चात्पूर्ती अवधि के लिए इस प्रकार संदत्त सेवा कर की रकम का, जिसका संदाय करने के लिए वह दायी है, समायोजन कर सकेगा :

परन्तु यह कि निर्धारिती,—

(i) अग्रिम में संदत्त सेवा कर की रकम के ब्यौरे, ऐसे संदाय की तारीख से पन्द्रह दिन की अवधि के भीतर अधिकारिता रखने वाले केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधीक्षक को संसूचित करेगा ; और

(ii) किए गए अग्रिम संदाय, यदि कोई हो और अधिनियम की धारा 70 के अधीन फाइल की जाने वाली पश्चात्पूर्ती विवरणी में इसके समायोजन के ब्यौरे उपदर्शित करेगा ।”;

(ख) उपनियम (4ख) के खंड (iii) में, “पचास हजार रुपए” शब्दों के स्थान पर “एक लाख रुपए” शब्द रखे जाएंगे ।

3. उक्त नियमों के नियम 7ख में, “साठ दिन” शब्दों के स्थान पर “नब्बे दिन” शब्द रखे जाएंगे ।

4. उक्त नियमों के नियम 7ग में, दूसरे परन्तुक के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“परन्तु यह भी कि जहां संदेय सेवा कर की सकल रकम शून्य है वहां केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिकारी, यह समाधान हो जाने पर कि विवरणी फाइल न करने का पर्याप्त कारण है, शास्ति को कम अधित्यक्त कर सकेगा ।” ।

[फा. सं. 334/1/2008-टीआरयू]

उन्मेष वाघ, अवर सचिव

टिप्पण :— मूल नियम, अधिसूचना सं० 2/94-सेवा कर, तारीख 28 जून, 1994 द्वारा अधिसूचित किए गए थे और भारत के असाधारण राजपत्र में सा.का.नि. सं० 546(अ), तारीख 28 जून, 1994 द्वारा प्रकाशित किए गए थे तथा अंतिम संशोधन अधिसूचना सं० 45/2007-सेवा कर, तारीख 28 दिसम्बर, 2007 द्वारा किया गया था और सा.का.नि. सं० 791(अ), तारीख 28 दिसम्बर, 2007 द्वारा प्रकाशित किया गया था ।

New Delhi the 1st March, 2008Notification
No. 4/2008-Service Tax

G.S.R. 148(E).—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (2) of section 94 of the Finance Act, 1994 (32 of 1994), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Service Tax Rules, 1994, namely :-

1. (1) These rules may be called the Service Tax (Amendment) Rules, 2008.
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Service Tax Rules, 1994 (hereinafter referred to as the said rules), in rule 6,-

(a) after sub-rule (1), the following sub-rule shall be inserted, namely:-

“(1A) Without prejudice to the provisions contained in sub-rule (1), every person liable to pay service tax, may, on his own volition, pay an amount as service tax in advance, to the credit of the Central Government and adjust the amount so paid against the service tax which he is liable to pay for the subsequent period:

Provided that the assessee shall,-

(i) intimate the details of the amount of service tax paid in advance, to the jurisdictional Superintendent of Central Excise within a period of fifteen days from the date of such payment; and

(ii) indicate the details of the advance payment made, and its adjustment, if any in the subsequent return to be filed under section 70 of the Act.”;

(b) in sub-rule (4B), in clause (iii), for the words “rupees fifty thousand”, the words “one lakh rupees” shall be substituted.

3. In rule 7B of the said rules, for the words “sixty days”, the words “ninety days” shall be substituted.

4. In rule 7C of the said rules, after the second proviso, the following proviso shall be inserted, namely:-

“Provided also that where the gross amount of service tax payable is nil, the Central Excise officer may, on being satisfied that there is sufficient reason for not filing the return, reduce or waive the penalty.”.

[F. No. 334/1/2008-TRU]

UNMESH WAGH, Under Secy.

Note :— The principal rules were notified vide notification No.2/94-Service Tax, dated the 28th June, 1994 and published in the Gazette of India, Extraordinary vide number G.S.R.546 (E), dated the 28th June, 1994 and were last amended vide notification No. 45/2007-Service Tax, dated the 28th December, 2007 and published vide number G.S.R. 791 (E), dated the 28th December, 2007.

अधिसूचना

सं० 5/2008-सेवाकर

नई दिल्ली, तारीख 1 मार्च, 2008.

11 फाल्गुन, 1929 (शक)

सा.का.नि. 149(अ).— केन्द्रीय सरकार, वित्त अधिनियम, 1994 (1994 का 32) धारा 93 और धारा 94 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सेवाओं का निर्यात नियम, 2005 का और संशोधन करने के लिए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सेवाओं का निर्यात (संशोधन) नियम, 2008 है ।
- (2) ये इनके राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।
2. सेवाओं का निर्यात नियम, 2005 के नियम 3 के उपनियम (1) के खंड (ii) के परंतुक के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“परंतु यह और कि जहां अधिनियम की धारा 65 के खंड (105) के उपखंड (ययछ), (ययज) और (ययझ) में निर्दिष्ट कराधेय सेवाएं, सेवा प्रदान करते समय, भारत में स्थित, यथास्थिति, किसी माल या सामग्री या किसी स्थावर संपत्ति के संबंध में, इंटरनेट या किसी इलैक्ट्रॉनिक नेटवर्क के माध्यम से जिसके अंतर्गत कोई कंप्यूटर नेटवर्क या कोई अन्य साधन भी है, उपलब्ध कराई जाती हैं तो ऐसी कराधेय सेवा चाहे वह भारत में की जाती हों या नहीं, भारत में की गई कराधेय सेवा समझी जाएगी ।”

[फा. सं. 334/1/2008-टीआरयू]

उन्मेष दास, अवर सचिव

टिप्पण :— मूल नियम अधिसूचना सं. 9/2005-सेवा कर, तारीख 3 मार्च, 2005 भारत के राजपत्र, असाधारण में, सा.का.नि.सं. 151(अ), तारीख 3 मार्च, 2005 द्वारा अधिसूचित किए गए थे और अंतिम संशोधन अधिसूचना सं. 30/2007-सेवा कर, तारीख 22 मई, 2007, सा.का.नि.सं. 376(अ), तारीख 22 मई, 2007 द्वारा किए गए थे ।

Notification
No. 5/2008-Service Tax

New Delhi, the 1st March, 2008
11 Phalgun, 1929 (Saka)

G.S.R. 149(E).—In exercise of the powers conferred by sections 93 and 94 of the Finance Act, 1994 (32 of 1994), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Export of Services Rules, 2005, namely :—

1. (1) These rules may be called the Export of Services (Amendment) Rules, 2008.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Export of Services Rules, 2005, in rule 3, in sub-rule (1), in clause (ii), after the proviso, the following proviso shall be inserted, namely:-

“Provided further that where the taxable services referred to in sub-clauses (zzg), (zzh) and (zzi) of clause (105) of section 65 of the Act, are provided in relation to any goods or material or any immovable property, as the case may be, situated outside India at the time of provision of service, through internet or an electronic network including a computer network or any other means, then such taxable service, whether or not performed outside India, shall be treated as the taxable service performed outside India;”.

[F. No. 334/1/2008-TRU]

UNMESH WAGH, Under Secy.

Note :— The principal rules were notified vide notification no. 9/2005-Service Tax, dated the 3rd March 2005 and published in the Gazette of India, Extraordinary vide number G.S.R. 151(E), dated the 3rd March 2005 and were last amended vide notification No. 30/2007-Service Tax, dated the 22nd May, 2007 vide number G.S.R. 376(E), dated the 22nd May, 2007.

अधिसूचना

सं० 6/ 2008-सेवाकर

नई दिल्ली, तारीख 1 मार्च, 2008.

11 फाल्गुन, 1929 (शक)

✓ **सा.का.नि. 150(अ).—** केन्द्रीय सरकार, वित्त अधिनियम, 1994 (1994 का 32) की धारा 66क के साथ पठित धारा 93 और धारा 94 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सेवाओं का कराधान (भारत के बाहर से उपलब्ध कराई गई और भारत में प्राप्त) नियम, 2006 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1.(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सेवाओं का कराधान (भारत के बाहर से उपलब्ध कराई गई और भारत में प्राप्त) (संशोधन) नियम, 2008 है ।

(2) ये इनके राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. सेवाओं का कराधान (भारत के बाहर से उपलब्ध कराई गई और भारत में प्राप्त) नियम, 2006 के नियम 3 के खंड (ii) के परंतुक के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“ परंतु यह और कि जहां अधिनियम की धारा 65 के खंड (105) के उपखंड (ययछ), (ययज) और (ययझ) में निर्दिष्ट कराधेय सेवाएं, सेवा प्रदान करते समय भारत में स्थिति, यथास्थिति, किसी माल या सामग्री या किसी स्थावर संपत्ति के संबंध में, इंटरनेट या किसी इलैक्ट्रॉनिक नेटवर्क के माध्यम से जिसके अंतर्गत कोई कंप्यूटर नेटवर्क या कोई अन्य साधन भी है, उपलब्ध कराई जाती है तो ऐसी कराधेय सेवा चाहे वह भारत में की जाती हो या नहीं, भारत में की गई कराधेय सेवा समझी जाएगी ।”

[फा. सं. 334/1/2008-टीआरयू]

उन्मेष वाघ, अवर सचिव

टिप्पण :— मूल नियम अधिसूचना सं. 11/2006-सेवा कर, तारीख 19 अप्रैल, 2006 द्वारा अधिसूचित किए गए थे और भारत के असाधारण राजपत्र में, सा.का.नि.सं. 227(अ), तारीख 19 अप्रैल, 2006 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अंतिम संशोधन अधिसूचना सं. 31/2007-सेवा कर, तारीख 22 मई, 2007, सा.का.नि.सं. 377(अ), तारीख 22 मई, 2007 द्वारा किए गए थे ।

Notification
No. 6/2008-Service Tax

New Delhi, the 1st March, 2008
11 Phalgun, 1929 (Saka)

G.S.R. 150(E).— In exercise of the powers conferred by sections 93 and 94, read with section 66A of the Finance Act, 1994 (32 of 1994), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Taxation of Services (Provided from Outside India and Received in India) Rules, 2006, namely :-

1. (1) These rules may be called the Taxation of Services (Provided from Outside India and Received in India) (Amendment) Rules, 2008.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Taxation of Services (Provided from Outside India and Received in India) Rules, 2006, in rule 3, in clause (ii), after the proviso, the following proviso shall be inserted, namely:-

“Provided further that where the taxable services referred to in sub-clauses (zzg), (zzh) and (zzi) of clause (105) of section 65 of the Act, are provided in relation to any goods or material or any immovable property, as the case may be, situated in India at the time of provision of service, through internet or an electronic network including a computer network or any other means, then such taxable service, whether or not performed in India, shall be treated as the taxable service performed in India;”.

[F. No. 334/1/2008-TRU]

UNMESH WAGH, Under Secy.

Note :— The principal rules were notified vide notification no. 11/2006-Service Tax, dated the 19th April, 2006 and published in the Gazette of India, Extraordinary vide number G.S.R. 227(E), dated the 19th April, 2006 and were last amended vide notification No. 31/2007-Service Tax, dated the 22nd May, 2007 vide number G.S.R. 377(E), dated the 22nd May, 2007.

अधिसूचना

सं० 7/ 2008-सेवा कर

नई दिल्ली, तारीख 1 मार्च, 2008

11 फाल्गुन, 1929 (शक)

151
134

सा.का.नि. 151(अ).— केन्द्रीय सरकार, वित्त अधिनियम, 1994 (1994 का 32) की धारा 93 और धारा 94 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, संकर्म संविदा (सेवा कर के संदाय के लिए संरचना स्कीम) नियम, 2007 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. (1) संकर्म संविदा (सेवा कर के संदाय के लिए संरचना स्कीम) (संशोधन) नियम, 2008 है ।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. संकर्म संविदा (सेवा कर के संदाय के लिए संरचना स्कीम) नियम, 2007 में, नियम 3 के उपनियम (1) में, “दो प्रतिशत” शब्दों के स्थान पर, “चार प्रतिशत” शब्द रखे जाएंगे ।

[फा. सं. 334/1/2008-टीआरयू]

उन्मेष वाघ, अवर सचिव

टिप्पण : मूल नियम, अधिसूचना सं. 32/2007-सेवा कर, तारीख 22 मई, 2007 द्वारा अधिसूचित और भारत के असाधारण राजपत्र में सा.का.नि. 378(अ) तारीख 22 मई, 2007 द्वारा प्रकाशित किए गए थे ।

Notification
No. 7/2008-Service Tax

New Delhi, the 1st March, 2008
11 Phalgun, 1929 (Saka)

G.S.R. 151(E).—In exercise of the powers conferred by sections 93 and 94 of the Finance Act, 1994 (32 of 1994), the Central Government hereby makes the following rules to amend the Works Contract (Composition Scheme for Payment of Service Tax) Rules, 2007, namely:-

1. (1) These rules may be called the Works Contract (Composition Scheme for Payment of Service Tax) (Amendment) Rules, 2008.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Works Contract (Composition Scheme for Payment of Service Tax) Rules, 2007, in rule 3, in sub-rule (1), for the words "two per cent.", the words "four per cent." shall be substituted.

[F. No. 334/1/2008-TRU]

UNMESH WAGH. Under Secy.

Note :— The principal rules were notified vide notification No. 32/2007-Service Tax, dated the 22nd May, 2007 and published in the Gazette of India, Extraordinary vide number G.S.R. 378(E), dated the 22nd May, 2007.

अधिसूचना

सं० 8/ 2008-सेवाकर

नई दिल्ली, तारीख 1 मार्च, 2008.

11 फाल्गुन, 1929 (शक)

सा.का.नि. 152(अ).—केन्द्रीय सरकार, वित्त अधिनियम, 1994 (1994 का 32) की धारा 93 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 6/2005-सेवा कर, तारीख 1 मार्च, 2005 में, जो भारत के राजपत्र, असाधारण में उसी तारीख को सा.का.नि.सं. 140(अ), द्वारा प्रकाशित की गई थी, निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना में, "आठ लाख रुपए" शब्दों के स्थान पर, जहां जहां वे आते हैं, "दस लाख रुपए" शब्द रखे जाएंगे ;

2. यह अधिसूचना 1 अप्रैल, 2008 को प्रवृत्त होगी ।

[फा. सं. 334/1/2008-टीआरयू]

उन्मेष वाघ, अवर सचिव

टिप्पण : मूल अधिसूचना सं. 6/2005-सेवा कर, तारीख 1 मार्च, 2005 भारत के असाधारण राजपत्र में, सा.का.नि.सं. 140(अ), तारीख 1 मार्च, 2005 द्वारा प्रकाशित की गई थी और अंतिम संशोधन अधिसूचना सं. 4/2007 सेवा कर तारीख 1 मार्च, 2008 सा.का.नि.सं. 158(अ), तारीख 1 मार्च, 2007 द्वारा किया गया ।

Notification
No. 8/2008-Service Tax

New Delhi, the 1st March, 2008
11 Phalguna, 1929 (Saka)

G.S.R. 152(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 93 of the Finance Act, 1994 (32 of 1994), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 6/2005-Service Tax, dated the 1st March, 2005 which was published in the Gazette of India, Extraordinary, vide number G.S.R. 140(E) of the same date, namely:-

In the said notification, for the words "eight lakh rupees", wherever they occur, the words "ten lakh rupees" shall be substituted.

2. This notification shall come into force on the 1st day of April, 2008.

[F. No. 334/1/2008-TRU]

UNMESH WAGH, Under Secy.

Note :— The principal notification No. 6/2005-Service Tax, dated the 1st March, 2005 was published in the Gazette of India, Extraordinary, vide number G.S.R. 140(E), dated the 1st March, 2005 and was last amended vide notification No. 4/2007-Service Tax, dated the 1st March, 2007 vide number G.S.R. 158(E), dated the 1st March, 2007.

अधिसूचना

सं० 9/ 2008-सेवाकर

नई दिल्ली, तारीख 1 मार्च, 2008

11 फाल्गुन, 1929 (शक)

सा.का.नि. 153(अ).—केन्द्रीय सरकार, वित्त अधिनियम, 1994 (1994 का 32) की धारा 69 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 26/2005- सेवा कर, तारीख 7 जून, 2005 में, जो भारत के राजपत्र असाधारण में उसी तारीख को सा.का.नि. सं.368(अ) द्वारा प्रकाशित की गई थी, निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना के पैरा 1 के उपपैरा (ii) में, "सात लाख रुपए" शब्दों के स्थान पर, "नौ लाख रुपए" शब्द रखे जाएंगे।

2. यह अधिसूचना 1 अप्रैल, 2008 को प्रवृत्त होगी।

[फा. सं. 334/1/2008-टीआरयू]

उन्मेष वाघ, अवर सचिव

टिप्पण : मूल अधिसूचना सं. 26/2005-सेवा कर, तारीख 7 जून, 2005 भारत के असाधारण राजपत्र में, प्रकाशित की गई थी और अंतिम संशोधन अधिसूचना सं. 5/2007 सेवा कर तारीख 1 मार्च, 2007, सा.का.नि.सं. 159(अ), तारीख 1 मार्च, 2007 द्वारा किया गया था।

Notification
No. 9/2008-Service Tax

New Delhi, the 1st March, 2008
11 Phalgun, 1929 (Saka)

G.S.R. 153(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 69 of the Finance Act, 1994 (32 of 1994), the Central Government hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 26/2005-Service Tax, dated the 7th June, 2005 which was published in the Gazette of India, Extraordinary, vide number G.S.R. 368(E) of the same date, namely:—

In the said notification, in paragraph 1, in sub-paragraph (ii), for the words “seven lakh rupees”, the words “nine lakh rupees” shall be substituted.

2. This notification shall come into force on the 1st day of April, 2008.

[F. No. 334/1/2008-TRU]

UNMESH WAGH, Under Secy.

Note :—The principal notification No. 26/2005-Service Tax, dated the 7th June, 2005 was published in the Gazette of India, Extraordinary, vide number G.S.R. 368(E), dated the 7th June, 2005 and was last amended vide notification No. 5/2007-Service Tax, dated the 1st March, 2007 vide number G.S.R. 159(E), dated the 1st March, 2007.

अधिसूचना

सं० 10/ 2008-सेवा कर

नई दिल्ली, तारीख 1 मार्च, 2008.

11 फाल्गुन, 1929 (शक)

सा.का.नि. 154(अ).—केन्द्रीय सरकार, वित्त अधिनियम, 1994 (1994 का 32) की धारा 94 की उपधारा (1) और उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सेवा कर (विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों का रजिस्ट्रीकरण) नियम, 2005 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सेवा कर (विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों का रजिस्ट्रीकरण) संशोधन नियम, 2008 है ।

(2) ये 1 अप्रैल, 2008 को प्रवृत्त होंगे ।

2. सेवा कर (विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों का रजिस्ट्रीकरण) नियम, 2005 के नियम 3 के उपनियम (2) में, “सात लाख रुपए” शब्दों के स्थान पर “नौ लाख रुपए” शब्द रखे जाएंगे ।

[फा. सं. 334/1/2008-टीआरयू]

उन्मेष वाघ, अवर सचिव

टिप्पण : मूल अधिसूचना सं. 27/2005-सेवा कर, तारीख 7 जून, 2005, भारत के राजपत्र, असाधारण में, सा.का.नि.सं. 369(अ), तारीख 7 जून, 2005 प्रकाशित की गई थी और अंतिम संशोधन अधिसूचना सं. 6/2007-सेवा कर, तारीख 1 मार्च, 2007, सा.का.नि.सं. 160(अ), तारीख 1 मार्च, 2007 द्वारा किया गया था ।

Notification
No. 10/2008-Service Tax

New Delhi, the 1st March, 2008
11 Phalgun, 1929 (Saka)

G.S.R. 154(E).—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (2) of section 94 of the Finance Act, 1994 (32 of 1994), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Service Tax (Registration of Special Category of Persons) Rules, 2005, namely:-

1. (1) These rules may be called the Service Tax (Registration of Special Category of Persons) (Amendment) Rules, 2008.

(2) They shall come into force on the 1st day of April, 2008.

2. In the Service Tax (Registration of Special Category of Persons) Rules, 2005, in rule 3, in sub-rule (2), for the words "seven lakh rupees" occurring at both the places, the words "nine lakh rupees" shall be substituted.

[F. No. 334/1/2008-TRU]

UNMESH WAGH, Under Secy.

Note :—The principal rules were notified vide notification No. 27/2005-Service Tax, dated the 7th June, 2005 and published in the Gazette of India, Extraordinary, vide number G.S.R. 369(E), dated the 7th June, 2005 and were last amended vide notification No. 6/2007-Service Tax, dated the 1st March, 2007 vide number G.S.R. 160(E), dated the 1st March, 2007.

अधिसूचना

सं० 11/ 2008-सेवा कर

नई दिल्ली, तारीख 1 मार्च, 2008.

11 फाल्गुन, 1929 (शक)

सा.का.नि. 155(अ).—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड, सेवा कर (विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों का रजिस्ट्रीकरण) नियम, 2005 के नियम 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 32/2005 - सेवा कर, तारीख 20 अक्टूबर, 2005 में, जो भारत के असाधारण राजपत्र में, उसी तारीख को सा.का.नि. सं. 640(अ) द्वारा प्रकाशित की गई थी, निम्नलिखित और संशोधन करता है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में, प्ररूप सेवा कर - 1 के क्रम संख्यांक 4 में, प्रवर्ग (ख) (ii) में, "सात लाख रुपए" शब्दों के स्थान पर "नौ लाख रुपए" शब्द रखे जाएंगे।

2. यह अधिसूचना 1 अप्रैल, 2008 को प्रवृत्त होगी।

[फा. सं. 334/1/2008-टीआरयू]

उन्मेष वाघ, अवर सचिव

टिप्पण : मूल अधिसूचना सं. 32/2005-सेवा कर, तारीख 20 अक्टूबर, 2005 भारत के असाधारण राजपत्र में, सा.का.नि.सं. 640(अ), तारीख 7 जून, 2005 द्वारा प्रकाशित की गई थी और अंतिम संशोधन अधिसूचना सं. 7/2007-सेवा कर, तारीख 1 मार्च, 2007 सा.का.नि.सं. 161(अ), तारीख 1 मार्च, 2007 द्वारा किया गया था।

Notification
No. 11/2008-Service Tax

New Delhi, the 1st March, 2008
11 Phalguna, 1929 (Saka)

G.S.R. 155(E).—In exercise of the powers conferred by rule 3 of the Service Tax (Registration of Special Category of Persons) Rules, 2005, the Central Board of Excise and Customs hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 32/2005-Service Tax, dated the 20th October, 2005 which was published in the Gazette of India, Extraordinary, vide number G.S.R. 640(E) of the same date, namely:—

In the said notification, in Form ST – 1, in serial number 4, in category (b)(ii), for the words “seven lakh rupees”, the words “nine lakh rupees” shall be substituted.

2. This notification shall come into force on the 1st day of April, 2008.

[F. No. 334/1/2008-TRU]

UNMESH WAGH, Under Secy.

Note :— The principal notification No. 32/2005-Service Tax, dated the 20th October, 2005 was published in the Gazette of India, Extraordinary, vide number G.S.R. 640(E), dated the 7th June, 2005 and was last amended vide notification No. 7/2007-Service Tax, dated the 1st March, 2007 vide number G.S.R. 161(E), dated the 1st March, 2007.

अधिसूचना

सं० 12/ 2008-सेवा कर

नई दिल्ली, तारीख 1 मार्च, 2008

11 फाल्गुन, 1929(शक)

सा.का.नि. 156(अ).—केन्द्रीय सरकार, वित्त अधिनियम, 1994 (1994 का 32) की धारा 93 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 1/2006-सेवा कर, तारीख 1 मार्च, 2006-सा.का.नि. 115(अ) तारीख 1 मार्च, 2006 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना की सारणी में, क्रम. सं. 6 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ।

[फा. सं. 334/1/2008-टीआरयू]

उन्मेष वाघ, अवर सचिव

टिप्पण :— मूल अधिसूचना सं. 1/2006-सेवा कर, तारीख 1 मार्च, 2006, सा.का.नि. सं. 115(अ), तारीख 1 मार्च, 2006 द्वारा प्रकाशित की गई थी और अंतिम संशोधन अधिसूचना सं. 38/2007-सेवा कर, तारीख 23 अगस्त, 2007, सा.का.नि. सं. 565(अ) तारीख 23 अगस्त, 2007 द्वारा किया गया था ।

Notification
No. 12/2008-Service Tax

New Delhi, the 1st March, 2008
11 Phalguna, 1929 (Saka)

G.S.R. 156(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 93 of the Finance Act, 1994 (32 of 1994), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 1/2006-Service Tax, dated the 1st March, 2006, G.S.R. 115 (E), dated the 1st March, 2006, namely:—

In the said notification, in the Table, S.No.6 and the entries relating thereto shall be omitted.

[F. No. 334/1/2008-TRU]
UNMESH WAGH, Under Secy.

Note :— The principal notification No. 1/2006-Service Tax, dated the 1st March, 2006, was published vide number G.S.R. 115(E), dated the 1st March, 2006 and was last amended by notification No. 38/2007-Service Tax, dated the 23rd August, 2007, vide number G.S.R. 565(E), dated the 23rd August, 2007.

अधिसूचना
सं० 13/ 2008-सेवा कर

नई दिल्ली, तारीख 1 मार्च, 2008
11 फाल्गुन, 1929(शक)

सा.का.वि. 157(अ).—केन्द्रीय सरकार, वित्त अधिनियम, 1994 (1994 का 32) (जिसे इसमें इसके पश्चात् वित्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 93 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर की लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है, वित्त अधिनियम की धारा 65 के खंड (105) के उपखंड (ययत) में निर्दिष्ट किसी माल के वहन में सड़क द्वारा माल के परिवहन के संबंध में किसी व्यक्ति को किसी माल परिवहन अभिकरण द्वारा उपलब्ध कराई गई कराधेय सेवा को, वित्त अधिनियम की धारा 66 के अधीन उस पर उद्ग्रहणीय उतने सेवा कर से छूट देती है, जो उस मूल्य पर संगणित सेवा कर से अधिक है जो उक्त कराधेय सेवा को उपलब्ध कराने के लिए माल परिवहन अभिकरण द्वारा ऐसे व्यक्ति से प्रभारित सकल रकम के पच्चीस प्रतिशत के समतुल्य है।

2. यह अधिसूचना 1 मार्च, 2008 को प्रवृत्त होगी।

[फा. सं. 334/1/2008-टीआरयू]
उन्मेष वाघ, अवर सचिव

Notification
No. 13/2008-Service Tax

New Delhi, the 1st March, 2008
11 Phalgun, 1929 (Saka)

G.S.R. 157(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 93 of the Finance Act, 1994 (32 of 1994) (hereinafter referred to as the Finance Act), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts the taxable service provided by a goods transport agency to any person in relation to transport of goods by road in a goods carriage, referred to in sub-clause (zzp) of clause (105) of section 65 of the Finance Act, from so much of the service tax leviable thereon under section 66 of the Finance Act, as is in excess of the amount of service tax calculated on a value equivalent to twenty five per cent. of the gross amount charged by the goods transport agency for providing the said taxable service.

2. This notification shall come into force on the 1st day of March, 2008.

[F. No. 334/1/2008-TRU]
UNMESH WAGH, Under Secy.

अधिसूचना

सं० 14/ 2008-सेवा कर

नई दिल्ली, तारीख 1 मार्च, 2008.
11 फाल्गुन, 1929 (शक)

सा.का.नि. 158(अ).— केन्द्रीय सरकार, वित्त अधिनियम, 1994 (1994 का 32) (जिसे इसमें इसके पश्चात् वित्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 93 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत से भिन्न किसी देश में अपना कारबार का स्थान, स्थिर स्थापन, स्थायी पता या निवास का प्रायिक स्थान रखने वाले किसी व्यक्ति द्वारा प्रदान की गई कराधेय सेवा को और जो भारत में अवस्थित किसी होटल द्वारा किसी ऐसे ग्राहक के लिए जिसका भारत से भिन्न किसी देश में अपना कारबार का स्थान, स्थिर स्थापन, स्थायी पता या निवास का प्रायिक स्थान है, उक्त होटल में, किसी वास सुविधा को बुक करने के संबंध में प्राप्त की जाती है वित्त अधिनियम की धारा 66 के साथ पठित धारा 66 के अधीन उस पर उदग्रहणीय समस्त सेवा कर से छूट देती है।

2. यह अधिसूचना 1 मार्च, 2008 को प्रवृत्त होगी।

स्पष्टीकरण.—“होटल” पद से ऐसा स्थान अभिप्रेत है जो वाणिज्यिक आधार पर जनता को निवास और खानपान सुविधाएं उपलब्ध कराता है।

[फा. सं. 334/1/2008-टीआरयू]
उन्मेष वाघ, अवर सचिव

Notification
No. 14/2008-Service Tax

New Delhi, the 1st March, 2008
11 Phalgun, 1929 (Saka)

G.S.R. 158(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 93 of the Finance Act, 1994 (32 of 1994) (hereinafter referred to as the Finance Act), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts the taxable service provided by a person, having his place of business, fixed establishment, permanent address or usual place of residence, in a country other than India, and which is received by a hotel located in India, in relation to booking of an accommodation in the said hotel,

for a customer, who has his place of business, fixed establishment, permanent address or usual place of residence, in a country other than India, from the whole of the service tax leviable thereon under section 66 read with section 66A of the Finance Act.

2. This notification shall come into force on the 1st day of March, 2008.

Explanation.— The expression “hotel” means a place that provides boarding and lodging facilities to public on commercial basis.

[F. No. 334/1/2008-TRU]

UNMESH WAGH, Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, तारीख 1 मार्च, 2008.

सं० 15/2008-सेवा कर

11 फाल्गुन, 1929 (शक)

सा.का.नि. 159(अ).— केन्द्रीय सरकार, वित्त अधिनियम, 1994 (1994 का 32) की धारा 73घ के साथ पठित धारा 94 की उपधारा (1) और उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सेवा कर (नामों का प्रकाशन) नियम, 2008 है ।

(2) ये इनके राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2.(1) परिभाषाएं - इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) “अध्याय” से वित्त अधिनियम, 1994 (1994 का 32) का अध्याय 5 अभिप्रेत है ;

(ख) “धारा” से अध्याय की धारा अभिप्रेत है ।

(2) इसमें प्रयुक्त सभी अन्य शब्दों और पदों के अर्थ वही होंगे जो अध्याय या उसके अधीन बनाए गए नियम में हैं और ऐसे शब्द और पद अध्याय में परिभाषित नहीं हैं किन्तु केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) या उसके अधीन बनाए गए नियमों में परिभाषित हैं तो उनके वही अर्थ होंगे जो अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों में हैं ।

3. नामों और अन्य विशिष्टियों का प्रकाशन.- केन्द्रीय सरकार, इन नियमों के उपबंधों के अधीन रहते हुए राजपत्र में, प्रिंट मीडिया, इलैक्ट्रॉनिक मीडिया या किसी अन्य साधनों से निम्नलिखित व्यक्तियों के नाम और विशिष्टियां प्रकाशित कराएगी, अर्थात् :-

(क) वह व्यक्ति जो इस अध्याय के उपबंधों के अधीन न्यायनिर्णित किया गया है वह इस अध्याय या इसके अधीन बनाए गए नियमों के किन्हीं उपबंधों का सेवा कर के संदाय की अपवंचना के आशय से उल्लंघन करता है ;

(ख) वह व्यक्ति जिसे संदाय करने के लिए न्यायनिर्णित किया गया है किन्तु उसने अध्याय की धारा 73क के उपबंधों के अधीन संदेय किसी रकम का संदाय नहीं किया है :

परंतु इस नियम में अंतर्विष्ट कोई बात तब तक लागू नहीं होगी जब तक, यथास्थिति, धारा 85 के अधीन आयुक्त (अपील) को या धारा 86 के अधीन अपील अधिकरण को अपील प्रस्तुत करने के समय का अवसान किसी अपील को प्रस्तुत किए बिना हो गया हो यदि अपील प्रस्तुत की गई है तो उसका निपटारा हो गया हो ।

स्पष्टीकरण.— शंकाएं दूर करने के लिए यह घोषणा की जाती है कि किसी व्यक्ति के कोई फर्म, कंपनी या व्यक्तियों के अन्य संगम होने की दशा में, यथास्थिति, फर्म के भागीदार, निदेशक, प्रबंध अभिकर्ता, सचिव, खजांची या कंपनी के प्रबंधक या संगम के किसी सदस्य के नाम भी प्रकाशित किए जाएंगे यदि केन्द्रीय सरकार की राय में मामले की परिस्थितियां इसे न्यायोचित ठहराती हैं ।

4. कार्रवाई आरंभ करना और प्रकाशन.—(1) यदि ऐसे व्यक्ति पर अधिकारिता रखने वाला केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त का यह समाधान हो जाता है कि लोक हित में कोई नाम या कोई अन्य विशिष्टियां प्रकाशित करना आवश्यक या समीचीन है तो वह जैसा ठीक समझे, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों का सम्यक रूप से सत्यापन करने के पश्चात् इन नियमों से संलग्न उपाबंध में ऐसे प्रकाशन के लिए एक प्रस्ताव का अधिकारिता रखने वाले मुख्य आयुक्त को भेजेगा ।

(2) अधिकारिता रखने वाला मुख्य आयुक्त उपनियम (1) में निर्दिष्ट प्रस्ताव की प्राप्ति पर, ऐसे प्रस्ताव के प्राप्त होने की तारीख से पंद्रह दिन के भीतर उसका परीक्षण करेगा और यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि मामले की परिस्थितियां ऐसे प्रकाशन को न्यायोचित ठहराती हैं तो वह तदनुसार बोर्ड को सिफारिश कर सकेगा ।

(3) केन्द्रीय सरकार, बोर्ड द्वारा सिफारिश प्राप्त होने पर या स्वप्रेरणा से नाम और अन्य विशिष्टियां नियम 3 में यथाविनिर्दिष्ट रीति में प्रकाशित कराएगी ।

[फा. सं. 334/1/2008-टीआरयू]

उन्मेष वाघ, अवर सचिव

उपाबंध

नाम और अन्य ब्यौरे के प्रकाशन के लिए प्रस्ताव अग्रेषित करने के लिए प्रोफार्मा

1. निर्धारिती/व्यक्ति का नाम और पता :

2. एसटीसी सं./रजिस्ट्रीकरण सं.(यदि कोई हो) :

3. निर्धारिती का गठन :

(स्वामिस्व/भागीदारी/प्राइवेट लिमिटेड/पब्लिक लिमिटेड/रजिस्ट्रीकृत न्यास/ सोसाइटी/अन्य (विनिर्दिष्ट करें))

4. कमिशनरी :

5. खंड :

6. किए गए अपराध के ब्यौरे ;

7. अंतर्वलित रकम (सेवा कर/ब्याज/शास्ति/धारा 73क के अधीन रकम पृथक रूप से दर्शित करें) :

8. न्यायनिर्णयन ब्यौरे :

9. क्या किसी अपील का फाइल किए जाने/फाइल की गई अपील का निपटारा किए जाने की अवधि समाप्त हो गई है (बाद की दशा में, अपील में आदेश की विशिष्टियाँ) :

10. नाम और अन्य विशिष्टियों के प्रकाशन का विरोध करने के लिए कारण :

11. प्रकाशन के लिए प्रस्तावित नाम, पता और अन्य ब्यौरे :

12. ऐसे व्यक्ति/निर्धारिती का अंतर्बलित होना जिसका नाम और अन्य ब्यौरे प्रकाशित किए जाने हैं :

13. किसी पूर्व अपराध के ब्यौरे, यदि कोई हों :

14. टिप्पणी, यदि कोई हों, :

तारीख केन्द्रीय उत्पाद शुल्क/सेवा कर मुख्य आयुक्त के हस्ताक्षर
(नाम और कार्यालय की मोहर सहित)

मुख्य आयुक्त द्वारा की गई टिप्पणियाँ और सिफारिशें

तारीख केन्द्रीय उत्पाद शुल्क/सेवा कर आयुक्त के हस्ताक्षर
(नाम और कार्यालय की मोहर सहित)

Notification
No. 15/2008-Service Tax

New Delhi, the 1st March, 2008
11 Phalguna, 1929 (Saka)

G.S.R. 159(E).—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (2) of section 94 read with section 73D of the Finance Act 1994, (32 of 1994), the Central Government hereby makes the following rules, namely:-

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Service Tax (Publication of Names) Rules, 2008;
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions.—(1) In these rules, unless the context otherwise requires,-
(a) “Chapter” means the Chapter V of the Finance Act, 1994 (32 of 1994);
(b) “section” means a section of the Chapter.

(2) All other words and expressions used herein shall have the meaning assigned to them under the Chapter or rules made thereunder and if such words and expressions are not defined in the Chapter but defined in the Central Excise Act, 1944 (1 of 1944) or the rules made thereunder, they shall have the meaning assigned to them in that Act or the rules made thereunder.

3. Publication of names and other particulars.— Subject to the provisions of these rules, the Central Government may cause to be published in the Official Gazette, print media, electronic media or by any other means, the names and particulars of the following persons, namely:-

(a) persons, who have been adjudged under the provisions of the Chapter, to have contravened any of the provisions of the Chapter or the rules made thereunder, with intent to evade payment of service tax;

(b) persons who have been adjudged to pay but has not paid any amount, payable under the provisions of section 73A of the Chapter:

Provided that nothing contained in this rule shall apply until the time for presenting an appeal to the Commissioner (Appeals), under section 85, or the Appellate Tribunal, under section 86, as the case may be, has expired without any appeal having been presented or the appeal, if presented, has been disposed of.

Explanation.— For removal of doubts, it is hereby declared that in case the person is a firm, company or other association of persons, the names of the partners of the firm, directors, managing agents, secretaries, treasurers or manager of the company, or any member of association, as the case may be, may also be published if, in the opinion of the Central Government, circumstances of the case justify it.

4. Initiation of action and publication.—(1) If the Commissioner of Central Excise, having jurisdiction over such person, is satisfied that it is necessary or expedient in the public interest to publish the names and any other particulars as he deems fit, he shall after due verification of the facts; and the circumstances of the case, forward a proposal in the Annexure appended to these rules for such publication to the jurisdictional Chief Commissioner.

(2) The jurisdictional Chief Commissioner, on receipt of proposal referred to in sub-rule (1), shall within fifteen days from the receipt of such proposal, examine it and if he is satisfied that circumstance of the case justify such publication, may make a recommendation to the Board accordingly.

(3) On receipt of the recommendation by the Board, or on its own, the Central Government, may cause publication of the name and other particulars in a manner as specified in rule 3.

[F. No. 334/1/2008-TRU]

UNMESH WAGH, Under Secy.

ANNEXURE

Proforma for forwarding the proposal for publishing of names and other details

1. Name and address of the assessee/person:
2. STC No./Registration No.(if any):
3. Constitution of assessee:
(Proprietorship/partnership/Private Ltd /Public Ltd/Registered Trust/ Society/Other (specify))
4. Commissionerate:
5. Division:
6. Details of offence committed:
7. Amount involved (service tax/interest/penalty/ amount u/s 73A are to be shown separately):
8. Adjudication details:
9. Whether appeal period has expired with any appeal having been filed/ appeal filed has been disposed of: (in case of the latter, particulars of the order-in- appeal)

10. Reasons for proposing publication of name and other particulars.
11. Name, address and other details proposed for publication;
12. Involvement of person/assessee whose name and other details are to be published:
13. Details of previous offences, if any:
14. Comments, if any:

Date: _____ Signatures of Commissioner of Central Excise/Service Tax
(With name and official seal)

Comments and Recommendations by the Chief Commissioner

Date: _____ Signatures of Chief Commissioner of Central Excise/Service Tax
(With name and official seal)